



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]  
No. 40]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 23, 2007/चैत्र 2, 1929  
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 23, 2007/CHAITRA 2, 1929

भारत परिसीमन आयोग

आदेश सं. 42

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2007

आ.अ. 46 (अ).—परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 4 के साथ पठित धारा 8 के अनुसरण में तथा इस संबंध में अन्य सभी सम्बन्धित सांविधिक और कानूनी उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए परिसीमन आयोग एतद्वारा यह नियत करता है :—

- (क) लोक सभा में कर्नाटक राज्य को इस प्रकार आबंटित किए जाने वाले स्थानों की कुल संख्या अठ्ठाईस (28) होगी;
- (ख) लोक सभा में कर्नाटक राज्य को इस प्रकार आबंटित कुल अठ्ठाईस (28) संख्या में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या क्रमशः पांच (5) और दो (2) होगी;
- (ग) कर्नाटक राज्य की विधान सभा को नियत किए जाने वाले स्थानों की कुल संख्या दो सौ चौबीस (224) होगी; और
- (घ) कर्नाटक राज्य की विधान सभा को इस प्रकार नियत दो सौ चौबीस (224) स्थानों की कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः छत्तीस (36) और पंद्रह (15) होगी।

[सं. 282/कर्नाटक/2007-II]

आदेश से,

शंगारा राम, सचिव

**DELIMITATION COMMISSION OF INDIA****ORDER No. 42**

New Delhi, the 23rd March, 2007

**O.N. 46(E).**—In pursuance of Section 8 read with Section 4 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), and having regard to all other relevant Constitutional and statutory provisions in this regard, the Delimitation Commission hereby determines :—

- a) the total number of seats to be allocated to the State of Karnataka in the House of the People as Twenty-Eight (28);
- b) of the total number of Twenty-Eight (28); seats so allocated to the State of Karnataka in the House of the People, the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as Five (5) and Two (2) respectively;
- c) the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of the State of Karnataka, as Two hundred twenty four (224); and
- d) of the total number of Two hundred twenty four (224) seats so assigned to the Legislative Assembly of the State of Karnataka, the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as Thirty-six (36) and Fifteen (15) respectively.

[No. 282/KT/2007-II]

By Order,

SHANGARA RAM, Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2007

**आ.अ. 47 (अ).**—परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 9 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग, कर्नाटक राज्य में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए सह सदस्यों के विसम्मत् प्रस्तावों के साथ अपने प्रस्तावों को, एतद्वारा, प्रकाशित करता है तथा 9 अप्रैल, 2007 (सोमवार) को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसको अथवा जिसके पश्चात् वह उक्त प्रस्तावों पर आगे विचार करेगा।

2. इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप या सुझाव सचिव, परिसीमन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 के पास उस तारीख तक या उसके पूर्व पहुंच जाने चाहिए।

**प्रस्ताव**

- (i) वे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र जिनमें कर्नाटक राज्य को (क) कर्नाटक राज्य की विधान सभा तथा (ख) लोक सभा निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ विभक्त किया जाएगा, ऐसे प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र और निर्वाचन-क्षेत्रों का विस्तार जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए

- स्थान आरक्षित हैं, क्रमशः सारणी (क) और सारणी (ख) में दर्शाए अनुसार होगा; और
- (ii) जहां सारणी (क) और (ख) में यथादर्शित किसी निर्वाचन क्षेत्र का नाम कोष्ठकों और (अ.जा.) शब्दों द्वारा सुभिन्न किया गया है वहां उस निर्वाचन क्षेत्र का स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है।
- (iii) जहां सारणी (क) और (ख) में यथादर्शित किसी निर्वाचन क्षेत्र का नाम कोष्ठकों और (अ.ज.जा.) शब्दों द्वारा सुभिन्न किया गया है वहां उस निर्वाचन-क्षेत्र का स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है।

### विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और उनका विस्तार

क्र. सं.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार तहसील/आर.आई.सी./पी.सी. का नाम
1—बेलगाम जिला		
1.	1. सदालगा	1. चिकोडी तालुक (भाग) 4. सदालगा सर्किल 3. निप्पानी सर्किल (भाग) हडनाल, सुलागांव, मट्टीवाडे, भाटनागानुर, कुरली, अप्पाचीवाडी, कोगानोली, हनाबरावाडी, हनधिनाल (के.एस.), बेनाडी, बोलेवाडी, अक्कोल, पाडलीहाल, लखनापुर, जतरात, अडी, भीवाशी, नागानूर, यामागारनी, सौन्दालगा, बुधिहाल, कोडनी और गायकानावाडी गांव। सदालगा टी पी
2.	2. चिकोडी	1. चिकोडी तालुक (भाग) 1. चिकोडी सर्किल 3. निप्पानी सर्किल (भाग) शिरगुप्पी, पानगेरी (बी), बुदुलमुख, शेन्दुर, गोन्डीकुप्पी, यरनाल, निप्पानी (ग्रामीण), अमालजारी, गवन और तबाडी गांव। निपानी सी एम सी, चिकोडी टी एम सी
3.	3. अथनी	2. अथनी तालुक (भाग) 1. अथनी सर्किल और 4. तेलसांग सर्किल। अथनी टी एम सी
4.	4. कागवाड	2. अथनी तालुक (भाग) 2. कागवाड सर्किल (नागारामुनोली) और 3. अनंतपुर सर्किल।
5.	5. कुडाचि (अ.जा.)	3. रायबाग तालुक (भाग) 2. कुडाचि सर्किल। कुडाचि टी पी
6.	6. रायबाग (अ.जा.)	3. रायबाग तालुक (भाग) 1. रायबाग सर्किल रायबाग टी पी. 1. चिकोडी तालुक (भाग) नागरमुनोली सर्किल

7.	7. हुकरी	<p>5. हुकरी तालुक (भाग)</p> <p>1. हुकरी सर्किल</p> <p>3. शंकेश्वर सर्किल (भाग)</p> <p>शिप्पुर, हिट्टानी, मट्टिवाडे, नागानुर के.एस., राशिंग, बुगटेयालुर, हडलगा, भैरापुर, शेकिनहोसुर, कोनानकरी, होन्निहल्ली, कानागाले, काराजागे, सोल्लापुर, हरगापुर, बाद, अलुर (के.एम.), अक्किवाट, केस्ती, बोरगाल, अम्मिनभावी, हडिगुड, अम्मानागी, निदासोशी, अनकाले, शंकेश्वर (आर), कामाटानुर और नेरली गांव।</p> <p>शंकेश्वर टी एम सी</p> <p>हुकरी टी पी सी</p>
8.	8. अराभावी	<p>4. गोकाक तालुक (भाग)</p> <p>3. कोउजालागी सर्किल</p> <p>2. अराभावी सर्किल (भाग)</p> <p>अराभावी, अराभावी, संगनाकरी, लोलासुर, लोलासुर, वाडिगवाड, वाडिगवाड, डांडापुर, गणेशवाडी, बालोबल, बालोबल, बीरानगड्डी, धरमाट्टी, धरमाट्टी, पाटागुन्डी, डुराडुन्डी, डुराडुन्डी, हाल्लुर, हाल्लुर, हुनश्याल (पी.जी.), हुनश्याल (पी.जी.), कल्लोल्ली, हनामापुर, कल्लोल्ली, मासागुप्पी, गुजानट्टी, जोकानट्टी, मासागुप्पी, मुनयाल, कमालाडिन्नी, मुनयाल, रंगापुर, नागानुर, नागानुर, नल्लानट्टी, बसालिगुन्डी, नल्लानट्टी, राजापुर, राजापुर, शिवपुर, गुरलापुर, खानाट्टी, मुडालगी (ग्रामीण), शिवपुर, टुक्कानट्टी, टुक्कानट्टी, वाडेरट्टी, फुलागड्डी और वाडेरट्टी गांव।</p> <p>मुडालगी टी एम सी</p>
9.	9. गोकाक	<p>4. गोकाक तालुक (भाग)</p> <p>1. गोकाक सर्किल,</p> <p>2. अराभावी सर्किल (भाग)</p> <p>थुपाडल, कोन्नूर (ग्रामीण), मालमट्टी, शिवपुर, मालापुर (पी.जी.), मालापुर (पी.जी.), नन्दगांव, खानापुर, मुतनाल, नन्दगांव, पमालादिन्नी, पमालादिन्नी और शिन्डीकुरबेत शिन्डीकुरबेत गांव।</p> <p>गोकाक सी एम सी</p> <p>कोन्नूर टीपी</p> <p>तहसील की अन्य इकाईयां</p> <p>गोकाक फॉल्स एनएसी</p>
10.	10. येम्कानमौरडी (अ.ज.जा.)	<p>5. हुकरी तालुक (भाग)</p> <p>2. येम्कानमराडी सर्किल</p> <p>3. सन्केश्वर सर्किल (भाग)</p> <p>मसारगुपी, गवानाल, गोतुर, हेब्बाल, कोचारी, चिकालगुड, यू खानापुर, हानचिनाल, कुरनीवाडी, कुरनी और अर्जुनवाड गांव।</p> <p>6. बेलगाम तालुक (भाग)</p> <p>3. ककाटी सर्किल</p>

11.	11. बेलगाम उत्तर	6. बेलगाम तालुक (भाग) बेलगाम (सी बी) बेलगाम (नगर निगम) (भाग) बेलगाम (नगर निगम)—वार्ड सं. 27 से 58
12.	12. बेलगाम दक्षिण	6. बेलगाम तालुक (भाग) 1. बेलगाम सर्किल बेलगाम (नगर निगम) (भाग) बेलगाम (नगर निगम)—वार्ड सं. 1 से 26
13.	13. बेलगाम ग्रामीण	6. बेलगाम तालुक (भाग) 4. बागेवादी सर्किल 2. उचागांव सर्किल (भाग) मरानहोल, गोजागे, सुलगे (उचागांव), कल्लेहोल, उचागांव, तुरामारी, बाची, कुद्रेमानी, सोनोली, बेलगुन्डी, बोकानुर, सवागांव, मनडोली, हन्नारगे, बीजागरनी, येलेबैल, राकासकोप, धामने एस. बैलुर, बेलवट्टी, बदास (इनाम), बकनुर, किनीया, करले, नवागे, कुत्तलावाडी, सन्तीबसतावाड, बहादारवाडी, राणाकुन्डे, वग्धावाडे, देसुर, सुलगे (येलुर), राजाहंसगाद, नन्दीहल्ली, नगेनाहट्टी गांव। बेन्कानाहल्ली (ओ.जी.)—वार्ड सं 63, वेक्किनाकेरी, अट्टिवाद, मन्नुर, अम्बेवाडी गांव। हिन्दालगी (सी.टी.), कंगराली (के.एच.) (सी.टी.) और कंगराली (बी.के.) (सी.टी.)।
14.	14. खानापुर	7. खानापुर तालुक
15.	15. किट्टूर	8. सम्पागांव तालुक (भाग) 2. किट्टूर और 3. नेसरगी सर्किल।
16.	16. बेलहोन्गल	8. सम्पागांव तालुक (भाग) 1. बेलहोन्गल सर्किल बेलहोन्गल टीएमसी 9. परासगड तालुक (भाग) 1. मुरगोड सर्किल 2. सौन्दाटी सर्किल (भाग) असुन्डी, असुन्डी, गुरलहोसुर (ग्रामीण), काडीहल्ली, मुगाली, नाडाविनाहल्ली, शिन्नारकोप, बदली, अलदाकट्टी के. वाई, बदली, कटराल, करीकट्टी, करीकट्टी, सन्नरेशकोप्पा, केन्चारामानाहाल, सन्नरेशकोप्पा, यडाहल्ली, यक्कुडी, बोम्मागड्डीकोपा, करलाकट्टी, वेन्कटेश्वर नगर और यक्कुडी गांव।

17.	17. सौन्दह्टी येल्लाम्मा	<p>9. पारसगाड तालुक (भाग)</p> <p>1. सौन्दह्टी सर्किल (भाग)</p> <p>बेतासुर, बेतासुर, यद्रावी, गोरावानकोला, सौन्दह्टी (ग्रामीण), हनचिनाल, हनचिनाल, हीरेकुम्बी, धडेरकोप्पा, दुगाबाल, हीरेकुम्बी, इनामहोन्गल, चिक्कुलीगेरी, हीरेअलीगेरी, इनामहोन्गल, उमारागोल हरलापुर, रेनुकानगर, उमारागोल और केनचलारकोप गांव।</p> <p>3. येरागह्टी और 4. मुनोली सर्किल।</p> <p>सन्दह्टी येल्लाम्मा टी.एम.सी.</p>
18.	18. रामदुर्ग	10. रामदुर्ग तालुक
2-बागलकोट जिला		
19	19. मुधोल (अ.जा.)	<p>3. मुधोल तालुक (भाग)</p> <p>2. लोकापुर सर्किल</p> <p>1. मुधोल सर्किल (भाग)</p> <p>बेलागली जीपी/बेलागली, हालगली जीपी/हालगली, मेलीगेरी, कुलाली जीपी/कुलाली, मालापुर, मलाली जीपी/मलाली, सोरागांव, मनतुर जीपी/बुधनी (पी.एम.), किशोरी, मनतुर, मुगलखोड जीपी/मुगलखोड, नगराल जी पी/अविकमरडी, नगराल, शिरोल जीपी/शिरोल, उत्तर जीपी/जालीबेर, रंजनागी, रूगी, उत्तर, वन्तिगोडी जीपी/मल्लापुर (पी.जे.), मिरजी, वन्तिगोडी और चनाल गांव।</p> <p>मुधोल टीएमसी</p>
20.	20. टेरडाल	<p>टेर 1. जामखण्डी तालुक (भाग)</p> <p>2. टेरडाल सर्किल (रबकवी बन्हट्टी सीएमसी और टेरडाल टीएमसी को शामिल करते हुए)</p> <p>3. मुधोल तालुक (भाग)</p> <p>1. मुधोल सर्किल (भाग)</p> <p>धवलेश्वर/धवलेश्वर, नन्दगांव, केसरकोपा, बिसनाल, केसरकोपा, मधाभावी/मधाभावी, मरापुर, संगानह्टी और सैदापुर/सैदापुर गांव।</p> <p>महालिंगपुर टीएमसी</p>
21.	21. जामखण्डी	<p>जामखण्डी तालुक (भाग)</p> <p>1. जामखण्डी और 3. सवालागी सर्किल।</p>
22.	22. बिल्मी	<p>2. बिल्मी तालुक</p> <p>5. बागलकोट तालुक (भाग)</p> <p>2. कलाडागी और 3. केरुर सर्किल</p>
23.	23. बादामी	<p>4. बादामी तालुक (भाग)</p> <p>1. बादामी, 2. कुलागेरी और 4. गुलेडागुड्डा सर्किल।</p> <p>गुलेडागुड्डा टी एम सी</p> <p>केरुर टीपी</p> <p>बादामी टीपी</p>

24.	24. बागलकोट	<p>4. बादामी तालुक (भाग)</p> <p>5. बागलकोट तालुक (भाग)</p> <p>1. बागलकोट और 3. सितीमनी सर्किल बागलकोट सीएमसी</p> <p>6. हुन्गुन्ड तालुक (भाग)</p> <p>4. अमीनागड सर्किल (भाग)</p> <p>ऐहोल जी पी, ऐहोल, हुविनाहल्ली, कलीगुडडा, मुल्लुर, निम्बलगुन्डी, अमीनागड जी पी, अमीनागड, हीरेमगी जी पी, बेविनाल, बुधीहाल (इनाम), हीरेमगी, मादापुर, कमातगी जी पी, कमातगी, मुगानूर जी पी, अम्बलीकोप्पा, बसारीकट्टी, बसवानाल, बुधीहाल (एस.के.), कडीवाल कल्लापुर, मुगानूर, रामथाल, सुरालीकल और येरानैकनाल गांव।</p>
25.	25. हुन्गुन्ड	<p>6. हुन्गुन्ड तालुक (भाग)</p> <p>1. हुनागुन्ड, 2. इकाल और 3. कराडी सर्किल,</p> <p>4. अमीनागड सर्किल (भाग)</p> <p>चिकानाल जी पी, बेनाकनावारी, भीमनागड, चिकानाल, चिलापुर, क्याडीगेरी, सिड्डानाकोला, उप्नाल (अ.जा.), गुडुर जी पी, गुडुर, केलूर जी पी, केलूर, कुनावेन्ची, तल्लीकेरी, नागूर जी पी, इयाल, रक्कासागी जी पी, रक्कासागी, सुलीभावी जी पी, सुलीभावी, वडागेरी जी पी, दम्पुर, गन्डाल, गोरजनाल, मुराडी और वडागेरी गांव।</p> <p>हुन्गुन्ड टी पी इकाल टी एम सी</p>
<b>3-बीजापुर जिला</b>		
26.	26. मुड्डेबिहाल	<p>5. मुड्डेबिहाल तालुक (भाग)</p> <p>1. मुड्डेबिहाल, 3 नल्लावाड और 4. डवालगी सर्किल। मुड्डेबिहाल टी एम सी</p> <p>2. तलीकोटी सर्किल (भाग)</p> <p>चोकावी, हिरुर, तमाडाडडी, बलागानूर, मीनाजगी, हरनाल, हडागिनाल, कलादेवानाहल्ली, मुकीहाल, शिवापुर और नागूर गांव।</p> <p>तलीकोटी टी एम सी</p>
27.	27. देवार हिप्पारगी	<p>5. मुड्डेबिहाल तालुक (भाग)</p> <p>2. तलीकोटी सर्किल (भाग)</p> <p>तुम्बगी, होसाहल्ली, हुवनाहल्ली, क्यातनाल, गोताखन्डाकी, भन्तनूर, पीरापुर, शेलागी, करागानूर, गाडी सोमानाल, बोम्मनाहल्ली, बोलावाद, फतेपुर पी. तलीकोटी, गुट्टीहाल, कोडागानूर, बेलूर, लक्कुन्डी, नवाडगी, मताकल देवानहल्ली, सलावडागी, गुन्डाकनाल, मेलेश्वर, बिलभावी और मसकानाल गांव।</p> <p>3. सिन्डगी तालुक (भाग)</p> <p>2. देवार हिप्पारगी सर्किल</p> <p>4. बासवाना बागेवाडी तालुक (भाग)</p> <p>2. हुविन हिप्पारगी सर्किल</p>

28.	28. बासवाना बागवाडी	4. बासवाना बागवाडी तालुक (भाग) 1. बी. बागेवाडी और 3. कोलहार सर्किल। बासवाना बागेवाडी टी पी
29.	29. बाबालेश्वर	1. बीजापुर तालुक (भाग) 1. तिकोटा, 3. बाबालेश्वर और 5. मामादापुर सर्किल।
30.	30. बीजापुर सिटी	1. बीजापुर तालुक (भाग) बीजापुर (सी एम सी) (भाग) बीजापुर (सी एम सी)—वार्ड सं. 1 से 11, 13, 14 और 18 से 35 नवारसपुर (ओ.जी.) (भाग) शहरी तोरवि (ओ.जी.) शहरी (भाग) महालभागयत वार्ड सं. 1 (भाग) रम्बापुर वार्ड सं. 17 (भाग) बीजापुर ग्रामीण वार्ड सं. 21 (भाग)
31.	31. नागथान (अ.जा.)	1. बीजापुर तालुक (भाग) 4. नागथान और 2. बीजापुर सर्किल बीजापुर (सी एम सी) (भाग) बीजापुर (सी एम सी)—वार्ड सं. 12 और 15 से 17 2. इन्डी तालुक (भाग) 3. चदाचन सर्किल
32.	32. इन्डी	2. इन्डी तालुक (भाग) 2. बलोल्ली सर्किल 1. इन्डी सर्किल (भाग) शिरागुर इनाम (पुराना), अगारखेद, गुब्बेवाद, मन्नूर, हीरेबेवानूर, अलूर, मविनल्ली, चिच्छेवेवानूर, इन्नालगी, नेहरूनगर, भूयार, नगरहल्ली, खेडगी, लालसंगी, सतलागावं (पी.आई.), सलोतगी, रूगी, तेन्नीहल्ली, गोरनाल, मसाली (के.डी.), रामनगर, नाद (बी.के.), नाद (के.डी.), गोलासर, शिवपुर (के एच), रोडगी, मिरागी, हनचिनाल, अर्जुनागी (के एच), अर्जुनागी (बी के), मारासनहल्ली, टेम्गाहल्ली, शिरशियाद, सन्गोगी और मसाली (बी के) गांव। इन्डी टी एम सी
33.	33. सिन्डगी	3. सिन्डगी तालुक (भाग) 1. सिन्डगी और 3. अल्मेल सर्किल सिन्डगी टी एम सी 2. इन्डी तालुक (भाग) 1. इन्डी सर्किल (भाग) बन्नीहट्टी, तम्बा, शिवपुर (बी. के.), केन्गीनाल, गांधीनगर, वाडे और भान्थानाल गांव।
4—गुलबर्गा जिला		
34.	34. अफजलपुर	2. अफजलपुर तालुक 1. अल्लन्द तालुक (भाग) 2. निम्बारगा सर्किल

35.	35. जेवागी	7. जेवागी तालुक
36.	36. शोरापुर (अ.ज.जा.)	8. शोरापुर तालुक (भाग) 3. हुनसगी, 4. कक्केरा, 5. कोडेकाल और 1. शोरापुर सर्किल
37.	37. शाहपुर	9. शाहपुर तालुक (भाग) 1. शाहपुर और 2. गोगी सर्किल 8. शोरापुर तालुक (भाग) 2. केम्भावी सर्किल
38.	38. यादगीर	10. यादगीर तालुक (भाग) 1. यादगीर सर्किल 9. शाहपुर तालुक (भाग) 3. डोरनाहली, 4. हय्याल (बी), और 5. वादागेरा सर्किल।
39.	39. गुर्मीत्कल	10. यादगीर तालुक (भाग) 2. गुर्मीत्कल, 3. बलीचकरा, 4. सैयदपुर, 5. हट्टीकुनी और 6. कोन्काल सर्किल।
40.	40. चितापुर (अ.जा.)	चितापुर तालुक (भाग) 1. चितापुर, 3. गुन्डागुर्ती और 4. नलवार सर्किल वाडी एनएसी और 5. वाडी टी एम सी शाहाबाद सर्किल (भाग) शानकेरवाडी, बालकडगी, इन्नालगी, कडहल्ली, चमनूर, कडाबूर, कुन्डानूर, होन्गुन्टा, मालगट्टी, भानकुर (ओ.जी.)—वार्ड सं. 2, सेवा नगर, कतामदेवारहली और मुटगा गांव।
41.	41. सेडम	5. सेडम तालुक 4. चिन्चोली तालुक (भाग) सुलेपेथ सर्किल।
42.	42. चिन्चोली (अ.जा.)	4. चिन्चोली तालुक (भाग) चिन्चोली, ऐनापुर और कोडली सर्किल। 6. चितापुर तालुक (भाग) 4. कालगी सर्किल।
43.	43. गुलबर्गा ग्रामीण (अ.जा.)	3. गुलबर्गा तालुक (भाग) औराद बी., महागांव, कमलापुर और फरहताबाद सर्किल। गुलबर्गा सर्किल (ग्रामीण) (भाग) आजादपुर, कंसरातगी, दरियापुर (डी), शेकरोजा (डी), हगारगी, उफ्लौन, नन्डूर (बी), नन्डूर (के), धरमपुर, कुसनूर (ओ.जी.), कुसनूर, पानेगांव और मडरसानाहल्ली (डी) गांव। 6. चितापुर तालुक (भाग) 5. शाहाबाद सर्किल (भाग) मरथुर जीपी — डेवन्तेगनूर, अलडीहाल और मरतुर गांव तोनासिनाहल्ली जीपी — तोनासिनाहल्ली, तरनहल्ली और गोला (के) गांव।

		शाहाबाद टी एम सी शाहाबाद एसीसी एनएसी
44.	44. गुलबर्गा दक्षिण	3. गुलबर्गा तालुक (भाग) गुलबर्गा (नगर निगम) (भाग) गुलबर्गा (नगर निगम)—वार्ड सं. 31 से 55 राजापुर (ओ.जी.) (भाग)—वार्ड सं. 57 पाटन सर्किल गुलबर्गा सर्किल (ग्रामीण) भाग जाफराबाद, नन्दीकुर जीपी, 1. उडनूर, 2. कोहनूर (ओ.जी.), 3. नागनहल्ली, 4. नन्दीकुर और 5. सितनूर गांव।
45.	45. गुलबर्गा उत्तर	गुलबर्गा तालुक (भाग) गुलबर्गा (नगर निगम) (भाग) गुलबर्गा (नगर निगम)—वार्ड सं. 1 से 30
46.	46. आलन्द	आलन्द तालुक (भाग) 1. आल्लन्द, 3. मदनहिप्परगा, 4. खजूरी और 5. नरोना सर्किल।
5—बीदर जिला		
47.	47. बासवकल्याण	1. बासवकल्याण तालुक (भाग) 1. हुलसूर, 2. बासवकल्याण, 4. मंथाल, 5. कोहनूर और 6. मुडबी सर्किल। बासवकल्याण टी एम सी
48.	48. होम्नाबाद	1. बासवकल्याण तालुक (भाग) 3. राजेश्वर सर्किल 5. होम्नाबाद तालुक (भाग) 1. डुबलगुन्डी, 3. चितगुप्पा, 5. हुम्नाबाद और 2. हल्लीखेड (बी) सर्किल। हुम्नाबाद टी एम सी चितगुप्पा टी एम सी
49.	49. बीदर दक्षिण	5. होम्नाबाद तालुक (भाग) 4. निरना और 6. बेमलखेड सर्किल। 4. बीदर तालुक (भाग) 2. कामथाना, 3. बगदाल, 4. मनहल्ली, और 6. बीदर (दक्षिण) सर्किल।
50.	50. बीदर	4. बीदर तालुक (भाग) 1. जनवाडा और 5. बीदर (उत्तर) सर्किल बीदर सी एम सी
51.	51. भाल्की	2. भाल्की तालुक
52.	52. औराद (अ.जा.)	औराद तालुक
6—रायचूर जिला		
53.	53. रायचूर ग्रामीण (अ.जजा.)	रायचूर तालुक (भाग) 2. येरगेरा, 3. गिल्लेसुगुर, 4. कालमाला, 6. चन्द्रबन्द्रा और 5. देवसुगुर सर्किल।

		शक्तीनगर (सी टी) मानवी तालुक (भाग) 2. कुरदी सर्किल
54.	54. रायचूर	3. रायचूर तालुक (भाग) 1. रायचूर सर्किल रायचूर सी एम सी
55.	55. मानवी (अ.ज.जा.)	4. मानवी तालुक (भाग) 1. मानवी, 3. हिरेकोटनाकाल, 5. मालात, 7. कविथाल, 8. सिरवार और 9. कल्लूर सर्किल। मानवी टी एम सी
56.	56. देवदुर्ग (अ.ज.जा.)	2. देवदुर्ग तालुक
57.	57. लिंगसुगुर (अ.जा.)	1. लिंगसुगुर तालुक (भाग) लिंगसुगुर सर्किल भाग कल्ली लिंगसुगुर, बूपुर, रामपुरा, होनाकुन्टे, काराडकाल (आर), मानवीनाभावी, गुण्डासागरा, काचापुरा, मारगटनाला, चित्रानाला, हनुमानगुड्डा, धितापुरा, हिरेजावुरा, रोदालबन्दा, कमालादिन्ने, नवाली, चिक्काजायवुर, अनाहोसुरु, नन्धिहाल, बेनडोना, जुलागुड्डा, नाराकालादिन्ने, एचानाला, नीरलाकेरा, चिक्काउप्पेरी, सुनकाल, हिरेउप्पेरी, तोरालाबिनचि, जंगीरामपुरा, अदाविमावी, यारागुंटा, कलापुरा, गोरेबाला, हालाभावी, मिनचेरी, यालागलादिन्ने, जायलिबेची, केसरहट्टी, और इदिनाल गांव। 4. मुदगल और 2. गुरुगुंटा सर्किल। लिंगसुगुर टी पी मुदगल टी पी हट्टी गोल्ड माइंस एन ए सी
58.	58. सिन्धनूर	5. सिन्धनूर तालुक (भाग) 1. सिन्धनूर (ग्रामीण), 2. सलगुंडा, 3. हुडा, 4. गोरेबाल, 5. जालीहाल, 10. बलगानूर, 11. जबालगेरा, 12. वात्कामदिन्नि, 13. हेडगिनाल और 14. बादरली सर्किल। सिन्धनूर टी एम सी
59.	59. मास्की (अ.ज.जा.)	5. सिन्धनूर तालुक (भाग) 6. गुंजाहल्ली, 7. तुरविहाल, 8. कुन्नाटागी और 9. गुडाडुर सर्किल। 4. मानवी तालुक (भाग) 4. हालापुर और 6. पामनकल्लुर सर्किल। 1. लिंगसुगुर तालुक (भाग) 3. मास्की सर्किल लिंगसुगुर सर्किल (भाग) सानबल, बुड्डीन्नी, हुविनाबानी, जांगमाराहल्ली, बासापुर, गोनवार, अमरावती, कुप्पीगुड्डा और सरिजापुरा गांव।

7—कोप्पल जिला		
60.	60. कुश्तागी	2. कुश्तागी तालुक
61.	61. कनकगिरी (अ.जा.)	3. गंगावटी तालुक (भाग) 3. मरालि, 4. सिंहपुरा, 5. करटागी, 6. कनकगिरी, 7. नवाली और 8. हुलिहैदर सर्किल
62.	62. गंगावटी	4. कोप्पल तालुक (भाग) 3. इकालगदा सर्किल 3. गंगावटी तालुक (भाग) 1. गंगावटी और 2. वेंकटगिरी सर्किल।
63.	63. येल्वर्गा	1. येल्वर्गा तालुक
64.	64. कोप्पल	4. कोप्पल तालुक (भाग) 1. कोप्पल, 2. अल्वान्डी (कवालुर) और 4. हितनल सर्किल।
8—गदाग जिला		
65.	65. शिराहट्टी (अ.जा.)	4. शिराहट्टी तालुक 5. मुण्डारगी तालुक (भाग) 1. मुण्डारगी सर्किल मुण्डारगी टी पी
66.	66. गदाग	3. गदाग तालुक (भाग) 1. गदाग, 2. गदाग ग्रामीण और 3. मुल्गुण्ड ग्रामीण सर्किल। गदाग बेटागेरि सी एम सी मुल्गुण्ड टी एम सी
67.	67. रोन	2. रोन तालुक (भाग) 2. नरेगल सर्किल (भाग), अब्बीगेरि जीपी, अब्बीगेरि, गोगेरि जी पी, गोगेरि, मातारंगी, नगराशिकोप्पा, हालकेरि जी पी, हालकेरि, जक्कालि जी पी, बुदिहल, जक्काली, कुन्टोजी जी पी, बेनाचामट्टी, गोउडागेरी, जिगेरि, कुन्टोजी, मयाकलजेरी, वाडेगोल, लक्कालकट्टी जी पी, अमरागट्टी, लक्कालगट्टी, नगेन्द्रागड, रूद्रपुर, निदागुण्डी जी पी, कालकापुर, निदागुण्डी, राजूर जी पी, भैरापुर, दिडुर, राजोर, रामपुर जी पी, चिलझेरी, हिरेकोप्पा, कोडागनुर, पुर्थागेरी, रामपुर, वीरापुर, सुडी जी पी और कलारहल। रोन टीपी नरेगल टी पी 2. रोन तालुक (भाग) 1. रोन सर्किल गजेन्द्रगढ़ टी एम सी 3. गदाग तालुक (भाग) 4. बेटागेरि सर्किल (भाग) हरलापुर जी पी, हरलापुर, तिम्लापुर, कानगिनाहल जी पी,

		कानागेनाहल, कोदुमचागी जी पी, कोदुमचागी। 5. मुन्डारगी तालुक (भाग) 2. डमबल सर्किल
68.	68. नारगुंड	1. नारगुंड तालुक 2. रोन तालुक (भाग) 3. होलेअलुर सर्किल 2. नारेगल सर्किल (भाग) डी. एस. हाडगली जी पी, डी. एस. हाडगली, गुजमगाडी, गुरुडागी जी पी, कुरुदागी, नागराल और यारेवेलेरी। 3. गदाग तालुक (भाग) 4. वेटागेरि सर्किल (भाग) अदविसोमापुर जी पी, अदविसोमापुर, बालाजी नगर, जलशंकर नगर, पापनाशी, बालामनुर जी पी, बालागनुर, बोलहोद जी पी, बेलहोद, एच. एस. वेंकटापुर, मादगनुर, चिक्काहाण्डीगोल जी पी, चिक्काहाण्डीगोल, डुण्डुर, शगोटी, हाटलागेरि जी पी, हाटलागेरि, नरसापुर, सम्भापुर, होमबल जी पी, होमबल, हुइलगोल जी पी, हुइलगोल, चिक्कोप्पा, हेरेकोप्पा, किर्तागेरी, कदादी जी पी, कदादी, गवारावाड, लक्कुण्डी जी पी, लक्कुण्डी, लिंगाधल जीपी, लिंगाधल, नीरालागी जी पी, नीरालागी, बेनाकानकोप्पा और नागासमुद्रा गांव।
<b>9-धारवाड़ जिला</b>		
69.	69. नवलगुंड	2. नवलगुंड तालुक 3. हुबली तालुक (भाग) 3. शिरागुप्पी सर्किल
70.	70. कुण्डगोल	5. कुण्डगोल तालुक 3. हुबली तालुक (भाग) 1. हुबली और 2. चाब्बी सर्किल।
71.	71. धारवाड़	हुबली-धारवाड़ (नगर निगम) (भाग) हुबली-धारवाड़ (नगर निगम)-वार्ड सं. 3 से 10 1. धारवाड़ तालुक (भाग) 2. गराग और अम्मिनाभावी सर्किल।
72.	72. हुबली-धारवाड़-पूर्व (अ.जा.)	हुबली-धारवाड़ (नगर निगम) (भाग) हुबली-धारवाड़ (नगर निगम)-वार्ड सं. 41, 45 और 48 से 67
73.	73. हुबली-धारवाड़-केन्द्रीय	हुबली-धारवाड़ (नगर निगम) (भाग) हुबली-धारवाड़ (नगर निगम)-वार्ड सं. 24 से 34, 38 से 40, 42 से 44, 46 और 47
74.	74. हुबली-धारवाड़-पश्चिम	हुबली-धारवाड़ (नगर निगम) (भाग) हुबली-धारवाड़ (नगर निगम)-वार्ड सं. 1, 2, 11 से 23 और 35 से 37
75.	75. कालघाटगी	4. कालघाटगी तालुक 1. धारवाड़ तालुक (भाग) 4. अलनावर और 1 धारवाड़ सर्किल। अलनावर टी पी

## 10—उत्तर कन्नड जिला

76.	76. हलियाल	2. सुपा तालुक 3. हलियाल तालुक डानडेली सी एम सी
77.	77. कारवार	1. कारवार तालुक 7. अन्कोला तालुक (भाग) 1. अन्कोला, 3. भासगोड और 4. बेलेकेरी सर्किल। अन्कोला टी पी
78.	78. कुमटा	8. कुमटा तालुक 7. अन्कोला तालुक (भाग) 2. बलाले सर्किल 10. होनावार तालुक (भाग) 1. होन्नावार सर्किल होनावार टी पी
79.	79. भाटकल	11. भाटकल तालुक 10. होनावार तालुक (भाग) 3. मानकी सर्किल 2. माविनकुर्वा सर्किल (भाग) अरोल्लि—मुडागोड, कुलाकोड, माविनकुर्वे, मन्दालाकुर्वे, होसाद, बेरोल्ली, नागरे, निरवाट्टीकोडला, हादिनबाल, मुट्टा, होसगोड, चिकानकोड, खार्वा, कुडला, पादुकुली, जलवाल कारकी, केरवल्ली, जलवल्ली, गुंडाबाला, हिरैबैल, जन्ना कादकल, हेरावाली, टुम्बोल्लि, मेलिनामुदकानी, केलगिना—मुदकानी, अदकार, हेरानगाडी, उप्पोनी, माहिमे, हानेहल्लिकाब्बिनाहक्काल, हुलेगर, सारालागी, कुडरिगे, शिरकुर, खानडोडी, नगरबस्तीकेरी, बेगोडी और हादगेरी गांव।
80.	80. सिरसी	9. सिद्धापुर तालुक 6. सिरसी तालुक (भाग) 1. सिरसी (ग्रामीण) और 4. सम्पाखण्ड सर्किल। सिरसी सी एम सी
81.	81. येल्लापुर	4. येल्लापुर तालुक 5. मुन्दगोड तालुक 6. सिरसी तालुक (भाग) 2. बनवासी और 3. हुलेकाल सर्किल।

## 11—हावेरी जिला

82.	82. हानगल	3. हानगल तालुक
83.	83. शिंगाओं	1. शिंगाओं तालुक 2. सावानुर तालुक (भाग) 1. सावानुर सर्किल सावानुर टी एम सी

84.	84. हावेरी (अ.जा.)	सवानुर तालुक (भाग) 2. हट्टिमट्टुर सर्किल 4. हावेरी तालुक (भाग) 2. करजागी और 3. गुट्टसन सर्किल। हावेरी टी एम सी
85.	85. बयादगी	5. बयादगी तालुक 4. हावेरी तालुक (भाग) 1. हावेरी सर्किल 7. रानीबेन्नुर तालुक (भाग) 1. रानीबेन्नुर सर्किल (भाग) हनुमापुर, काकोल, वेंकटापुर, कज्जारी, शिदगानहाल, गुदागुदापुर, होन्नट्टी, यट्टिनहल्ली, केरिमल्लापुर, गुदादानवेरी, कुनाबेव, असुंडी, हुलिहल्ली, येरेकुप्पी, लक्ष्मापुर, सर्वान्दा, वीरापुर, उक्कुड, वेनाकनाकोण्ड, जोइसराहरालहल्ली, तिरुमालादेवराकोप्पा, सुनाकलबिडारी, गुदादाहोसाहल्ली, गुदादावेविनाहल्ली और हेडियाल गांव।
86.	86. हीरेकरूर	6. हीरेकरूर
87.	87. रानीबेन्नुर	7. रानीबेन्नुर तालुक (भाग) 2. कुप्पेलुर सर्किल 3. मेडलेरी सर्किल 1. रानीबेन्नुर सर्किल (भाग) पदमावतीपुर, श्रीनिवासपुर, मगोद, देवगोण्डानाकट्टी और रानीबेन्नुर (ग्रामीण) गांव। रानीबेन्नुर सी एम सी
<b>12—बेल्लारी जिला</b>		
88.	88. हाडागल्ली (अ.जा.)	1. हाडागल्ली तालुक 2. हगरीबोम्मानाहल्ली तालुक (भाग) 3. हमपासागारा और 2. कोगली सर्किल (माल्वी)।
89.	89. हगरीबोम्मानाहल्ली (अ.जा.)	2. हगरीबोम्मानाहल्ली तालुक (भाग) 1. हगरीबोम्मानाहल्ली और 4. थाम्ब्राहल्ली सर्किल। 3. होस्पेट तालुक (भाग) 4. मरिवाम्मनहल्ली और 1. होस्पेट सर्किल होस्पेट सी एम सी (भाग) होस्पेट (सी एम सी)—वार्ड सं. 1 से 6, 11, 12, 15 से 18, 26 से 28 और 32
90.	90. होस्पेट	3. होस्पेट तालुक (भाग) 2. कमालपुरा सर्किल 3. कामपली सर्किल (भाग)

		मुद्दापुर, रामासागर, कानविधीमालापुरा, देवसमुद्र, चिक्कैअईगानुर, हिरेईआईगानुर, हामपादेवनहल्ली, जोवकु, मेत्री, उप्पाराहल्ली, देवलपुरा, जीरिगनुरु, गोनाहल, सुगिनहल्ली, सोमालापुरम, सांकालापुरम, माविनाहल्ली और होन्नाहल्ली गांव। कमालपुरा टी. पी. टोस्पेट सी एम सी (भाग) टोस्पेट (सी एम सी)—वार्ड सं. 7 से 10, 13, 14, 19 से 25, 29 से 31 और 33 से 35
91.	91. काम्पली (अ.ज.जा.)	3. होस्पेट तालुक (भाग) 3. काम्पली सर्किल (भाग) बेलुगोदुहल, अलीहल्ली और सानापुरा गांव। मुद्दापुरा सं. 2 इतिगी कम्पली टी एम सी 5. बेल्लारी तालुक (भाग) 2. कुरुगोडु और कोलूर सर्किल।
92.	92. सिरुगुप्पा (अ.ज.जा.)	4. सिरुगुप्पा तालुक
93.	93. बेल्लारी (अ.ज.जा.)	5. बेल्लारी तालुक (भाग) 1. बेल्लारी, 4. मोका और 5. रुपानागुडी सर्किल। बेल्लारी (सी एम सी) (भाग) बेल्लारी (सी एम सी)—वार्ड सं. 23 से 30 और 32
94.	94. बेल्लारी सिटी	5. बेल्लारी तालुक (भाग) बेल्लारी (सी एम सी) (भाग) बेल्लारी (सी एम सी)—वार्ड सं. 1 से 22, 31 और 33 से 35 बेल्लारी (आर.), बिसालाहल्ली और अन्द्रालू।
95.	95. सन्दुर (अ.ज.जा.)	6. सन्दुर तालुक 7. कुडालिगी तालुक (भाग) 2. गुडेकोट सर्किल
96.	96. कुडलिगी (अ.ज.जा.)	7. कुडलिगी तालुक (भाग) 1. कुडालिगी, 3. होसाहली और 4. कोटूर सर्किल। कोटूर टी पी कुडलिगी टी पी
<b>13—चित्रदुर्ग जिला</b>		
97.	97. मौलाकाल्मुरु (अ.ज.जा.)	1. मौलाकाल्मुरु तालुक 2. चत्ताक्रे तालुक (भाग) 2. नयाकनहल्ली और 3. थालक सर्किल।

98.	98. चल्लाकरे (अ.ज.जा.)	2. चल्लाकरे तालुक (भाग) 1. कस्बा और 4. परसुरामपुरा सर्किल। चल्लाकरे टी एम सी 3. चित्रदुर्ग तालुक (भाग) 4. तुरुवानुर सर्किल।
99.	99. चित्रदुर्ग	3. चित्रदुर्ग तालुक (भाग) 1. कस्बा और 2. हीरेगुन्टानूर सर्किल। चित्रदुर्ग सी एम सी
100.	100. हीरियुर	6. हीरियुर तालुक
101.	101. होसदुर्ग	5. होसदुर्ग तालुक
102.	102. होलालकरे (अ.जा.)	4. होलालकरे तालुक (भाग) 1. कस्बा, 2. बरमननायकाना दुर्ग, 3. रामगिरी और 4. तलया सर्किल होलालकरे टी पी चित्रदुर्ग तालुक (भाग) 3. ब्रह्मसागर सर्किल
14—दावन्नोरे जिला		
103.	103. जगालुर (अ.ज.जा.)	3. जगालुर तालुक 2. हारापान्नाहल्ली तालुक (भाग) 2. अरसीकरे सर्किल (भाग) अरसीकरे जी पी— अरसीकरे, थिम्मालपुरा होसाकोटा जी पी— होसाकोटा, बुधिहलू उच्चानगिदुरा जी पी— उच्चानगिदूरा, चतनीहल्ली, रामधट्टा पुनाबागहता जी.पी.— पुनाबागहता, कल्लूगुडी तौडुरु जी पी— तौडुरु, कयारकट्टे अन्जीगेरे जी पी— अन्जीगेरे, मडीहल्ली
104.	104. हारापान्नाहल्ली	2. हारापान्नाहल्ली तालुक (भाग) 1. कस्बा, 3. तेलगी और 4. चिगतेरी सर्किल। 2. अरसीकरे सर्किल (भाग) कंचीकरे जी पी— कंचीकरे, हल्लीकरे सिंगरीहल्ली जी पी— सिंगरीहल्ली, सथुरु हेरेमगलागेरे जी पी— हेरेमगलागेरे, लक्ष्मीपुरा हारापान्नाहल्ली टी पी
105.	105. हरिहर	1. हरिहर तालुक
106.	106. दावन्नोरे उत्तर	4. दावन्नोरे तालुक (भाग) 1. कस्बा सर्किल (भाग) कक्कारागोला जी पी— 1. कक्कारागोला, 2. कोडीहल्ली कडालेबालू जी पी— 1. कडालेबालू, 2. अरसापुरा, 3. ओब्जीहल्ली, 4.

		<p>मालागोन्डनाहल्ली  अवेरेगोला जी पी— 1. अवेरेगोला, 2. देवरहट्टी, 3. चिक्काबुड्डीहाल, 4. भूसावनाहल्ली  कड्डाजी जी पी— 1. कड्डाजी, 2. नगाराकट्टे, 3. पुट्टागनाल  डोड्डाबथी जी पी— 1. डोड्डाबथी, 2. हलेबथी, 3. नेलानाहल्ली, 4. अगसानाकट्टी  बेथूर जी पी— बेथूर  कैडाला जी पी (भाग)  नयाकानहल्ली  अलुरु जी पी— मल्लापुर  बसवानाला जी पी— सिंगदाहल्ली, रामपुर  दावन्नोरे (सी एम सी) (भाग)  दावन्नोरे (सी एम सी)—वार्ड सं. 3 से 10 और 26 से 35</p>
107.	107. दावन्नोरे दक्षिण	<p>4. दावन्नोरे तालुक (भाग)  1. कस्बा सर्किल (भाग)  मुधाहाडाडी जी पी— 1. मुधाहाडाडी, 2. जरीकट्ट, 3. बिसलैरी  शिरामगोन्डानाहल्ली जी पी— 1. शिरामगोन्डानाहल्ली, 2. नगरनूरु  कन्नागोन्डनाहल्ली जी पी— 1. कन्नागोन्डनाहल्ली, 2. अडेरेहल्ली, 3. कोल्लेनाहल्ली, 4. जडागनाहल्ली, 5. बल्लूरु और 6. शिरागनाहल्ली।  बेलावानूर जी पी— 1. बेलवानूर, 2. तुरचागट्टा, 3. चन्द्रेनहल्ली  हडाडी जी पी— 1. हडाडी, 2. जवालाघट्टा, 3. भतालाकट्टे  कुकावाडा जी पी— कुकावाडा, नगरसानाहल्ली  कैडाला जी पी (भाग)  गिरियापुरा, कैडाला  कुरकी जी पी— बुल्लापुर  गोपनाला जी पी— गन्डामुकटेनहल्ली  दावन्नोरे (सी एम सी) (भाग)  दावन्नोरे (सी एम सी)—वार्ड सं. 1, 2 और 11 से 25</p>
108.	108. मायाकोन्डा (अ.जा.)	<p>6. चन्नागिरि तालुक (भाग)  2. बासवापटना—। और 3. बासवापटना—।। राकिर्ल।  4. दावन्नोरे तालुक (भाग)  2. अन्गोडु और 3. मायाकोन्डा सर्किल।</p>
109.	109. चन्नागिरी	<p>6. चन्नागिरि तालुक (भाग)  1. कस्बा, 4. सान्थेवेन्नूर—।, 5. सान्थेवेन्नूर—।। और 6. उबरानी सर्किल।  चन्नागिरि टी पी</p>
110.	110. होन्नाली	<p>5. होन्नाली तालुक</p>

15—शिमोगा जिला		
111.	111. शिमोगा ग्रामीण (अ.जा.)	<p>7. भद्रावती तालुक (भाग)</p> <p>4. होलेहन्नुर—1, 5. होलेहन्नुर—11 और 6. होलेहन्नुर—111 सर्किल।</p> <p>3. कुडलीगेरे सर्किल (भाग)</p> <p>थाल्लीकट्टे, नगथीबेलांगालू, होसाहल्ली, कल्पनाहल्ली, बीतारामपुरा, कागेकोडामगो, बबाली, गेवडारहल्ली, मज्जीगेनाहल्ली, वीरपुरा, थिप्लापुरा, अरालीहल्ली, कोमरानाहल्ली, देवराहल्ली, कघागोन्डनाहल्ली, देवरानारासीपुरा, कोरलाकोप्पा, गुड्डाडानेरालाकेरे, बसालीकट्टे, अथीगुन्डा, कुडलीगेरे, कोडीहल्ली, कोट्टाडालू और बन्डीगुड्डा गांव।</p> <p>6. शिमोगा तालुक (भाग)</p> <p>2. कस्बा—11, 3. निडीगे—1, 5. होल्लूर—1 और 6. होल्लूर—11 सर्किल।</p>
112.	112. भद्रावती	<p>7. भद्रावती तालुक (भाग)</p> <p>1. कस्बा—1 और 2. कस्बा—11 सर्किल।</p> <p>3. कुडलीगेरे सर्किल (भाग)</p> <p>गुनीनारासीपुरा, येराहल्ली, अन्तरागन्नो, बिसिलामाने, नेट्टाकल्लाहल्ली, डोडडेरी, याम्मेडोडी, बालेकट्टे, वाराविनाकेरे, केन्धमनाहल्ली, उक्कुन्डा और गन्गुरु गांव।</p> <p>भद्रावती सी एम सी</p>
113.	113. शिमोगा	<p>6. शिमोगा तालुक (भाग)</p> <p>1. कस्बा—1 सर्किल</p>
114.	114. तिरथाहल्ली	<p>5. तिरथाहल्ली तालुक</p> <p>6. शिमोगा तालुक (भाग)</p> <p>4. निडिगे—11, 7. हरनाहल्ली और 8. कुमसी सर्किल।</p>
115.	115. शिकारपुर	3. शिकारपुर तालुक
116.	116. सोराब	<p>2. सोराब तालुक</p> <p>1. सागर तालुक (भाग)</p> <p>2. कस्बा सर्किल</p>
117.	117. सागर	<p>4. होसानगर तालुक</p> <p>1. सागर तालुक (भाग)</p> <p>3. अविनाहल्ली, 4. तालागुप्पा, 6. कस्सर और 1. आमन्नपुरम सर्किल।</p>
16—उदीपी जिला		
118.	118. बैनदुर	<p>1. कुन्डापुरा तालुक (भाग)</p> <p>1. बैनदुर सर्किल</p> <p>2. वन्दसे सर्किल (पुरा)</p> <p>तरशी, होसाडू, गुज्जाडी, उप्पिनाकन्नूर, तल्लूर, हट्टीअनाडी, कन्याना,</p>

		कट्टाबेलथूर, हेम्मडी, हक्लाडी, सेनापुर, हरकूर, कुन्डाबरन्डाडी, नोजाडी, देवालकुन्डा, केन्चानूर, गुलवडी, करकुनजे, वन्डसे, अलूर, इछूरकुन्हाडी, चितूर, होसूर, केराडी, वेल्लाल, कोडलाडी, कवराडी, हलनाद, अमपुर, शंकरनारायणा, सिद्धापुर, अजरी, इडमोगे, होसन्गडी, मचाट्टू, उल्लूर 74, कुलन्जे और गंगोली गांव।
119.	119. कुन्डापुरा	1. कुन्डापुरा तालुक (भाग) 3. कुन्डापुरा सर्किल कुन्डापुरा टी एम सी 2. उदीपी तालुक (भाग) 1. कोटा सर्किल
120.	120 उदीपी	उदीपी तालुक (भाग) उदीपी सर्किल (भाग) बडानिदियूर, तेनकनिदियूर और केलारकलावेट्टू गांव। 2. बह्मबारा सर्किल (भाग) तोनसे पश्चिम, हाराडी, वरामबल्ली, कुमरागोड, हन्डाडी, मतपडे, चन्थार, 52 हेरोर, बेकेडी, टोन्से पूर्व, उप्पोर, हवान्जे, अरोर, नीलावार, चेरकाडी, हलुवल्ली, पेजामनगौर, 34 कुडी, ननचार, नालकुर, केन्जोर, 38 कलथूर और होसुर गांव। उदीपी (सी एम सी + ओ. जी.)
121.	121. कौप	2. उदीपी तालुक (भाग) 4. कौप सर्किल ब्रह्मवारा सर्किल (भाग) बेल्लामपल्ली, कुक्केहल्ली, पेरादूर, बैरामपल्ली, बेल्लारपाडी और 41 शिरोर गांव। उदीपी सर्किल (भाग) बोम्मारवेट्टू, अंजारु, कुडी, उदाथावारा, कोरंगरापाडी, अथाराडी, हीरेबेट्टू, बडगाबेट्टू, पेरनानकिली, मनीपुरा, मारने और अलेवोरु गांव।
122.	122. करकाल	3. करकाल तालुक
17-चिकमगलुर जिला		
123.	123. सिंगेरी	1. सिंगेरी तालुक 2. कोप्पा तालुक 3. नरसिंहाराजापुरा तालुक 6. चिकमगलुर तालुक (भाग) 4. कन्दया सर्किल
124.	124. मुदीगेरे (अ.जा.)	6. चिकमगलुर तालुक (भाग) 2. अम्बेले, 3. अवाथी, 6. वरथारे और 7. अलडूर सर्किल 7. मुदीगेर तालुक

125.	125. चिकमगलुर	6. चिकमगलुर तालुक (भाग) 8. लक्या, 1. कस्बा और 5. जगारा सर्किल। चिकमगलुर सी एम सी 5. कडूर तालुक (भाग) 5. सकरेपटना सर्किल।
126.	126. तारीकरे	4. तारीकरे तालुक
127.	127. काडुर	5. काडुर तालुक (भाग) 1. कस्बा, 2. हीरेनल्लूर, 3. यगती, 4. सिगातागेरे और 6. बिरुर सर्किल काडुर टी एम सी बिरुर टी एम सी
<b>18—दुमकुर जिला</b>		
128.	128. चिकनैकानाहल्ली	1. चिकनैकानाहल्ली तालुक 2. सिरा तालुक (भाग) 3. बुक्कापटना सर्किल
129.	129. टिप्पुर	8. टिप्पुर तालुक
130.	130. दुरुवेकरे	9. दुरुवेकरे तालुक 7. गुब्बी तालुक (भाग) 5. सी. एस. पुरा सर्किल 6. कडबा सर्किल (भाग) हिन्दासगेरे जी पी, बेलूर, बिट्टागोन्डनाहल्ली, चिमानाहल्ली, हरिवेसन्द्रा के., कस्बा सन्द्रा, केन्यावीरानाहल्ली, वी. कोडीहल्ली, कलूर जी पी, बेन्काना गोन्डी, बिलनन्दी, के. कल्लाहल्ली, काल्लूर, पेड्डानाहल्ली जी पी, बोचिहल्ली, कोडाबगाड्डे कवाल, कुनाघट्टा, मथीघट्टा, मेलेकल्लाहल्ली, पेड्डानाहल्ली, पेन्दारानाहल्ली, वडावाना घट्टा और वराहसन्ड्रा गांव।
131.	131. कुनिगल	10. कुनिगल तालुक
132.	132. दुमकुर शहर	6. दुमकुर तालुक (भाग) दुमकुर सी एम सी
133.	133. दुमकुर ग्रामीण	6. दुमकुर तालुक (भाग) 1. कस्बा, 2. उरडीगेरे, 3. गुलुर, 4. हेम्बुर और 5. बेलावी सर्किल।
134.	134. कोराटागेरे (अ.जा.)	5. कोराटागेरे तालुक 4. मधुगिरि तालुक (भाग) 6. पुरुवारा सर्किल 6. दुमकुर तालुक (भाग) 6. कोरा सर्किल

135.	135. गुब्बी	<p>सिरा तालुक (भाग)</p> <p>1. कस्बा, 2. चेतूर, 3. हगालावाडी और 4. नितूर सर्किल। गुब्बी टी पी</p> <p>6. कडाबा सर्किल (भाग)</p> <p>बेलावधा जी पी — अम्बारापुरा, अरेमारानाहल्ली, बी. कोडीहल्ली, बेलावधा, करीगोन्डनाहल्ली, थोगरीघट्टा।</p> <p>डोडागुनी जी पी— पेरमासन्दा</p> <p>जी होसाहल्ली जी पी — कट्टीगिनाहल्ली</p> <p>कोडाबा जी पी — अडागौन्डनाहल्ली, बईदागेरे, बईलाहल्ली, डसाराकलाहल्ली, गंगासुन्दरा, गोरजीहल्ली, के. रामपुरा, कडाबा, कडाबा अमानीकेरे, कोडासेट्टीहल्ली, कोम्मनाहल्ली, मनचिहल्ली।</p> <p>कोप्पा जी पी — बयद्रामल्लेमाहल्ली, गुलेनाहल्ली, हल्लेनाहल्ली, होन्नसेट्टीहल्ली, कोनानकेरे, कोनेमाडेनाहल्ली, कोप्पा, यादवानाहल्ली।</p> <p>कुन्नाला जी पी — चकेनाहल्ली, जीगानाहल्ली, कुन्नाला, लिंगम्मानाहल्ली, यालाचिहल्ली।</p> <p>मारासेट्टीहल्ली जी पी</p> <p>अधिकाट्टे, बी. रामापुरा, बडेनाहल्ली, बेन्नुर, चन्नावडेराहल्ली, डोन्नेरे, हारागलादेवगुड्डा कवाल, जनकदेवनाहल्ली, कोडिमल्लेनाहल्ली, मारासेट्टीहल्ली।</p>
136.	136. सिरा	<p>2. सिरा तालुक (भाग)</p> <p>1. कस्बा, 2. कल्लामवेल्ला, 4. गोवडागेरे और 5. हुलिकुन्टे सर्किल। सिरा टी एम सी</p>
137.	137. पावागाडा (अ.जा.)	3. पावागाडा तालुक
138.	138. मधुगिरि	<p>4. मधुगिरि तालुक (भाग)</p> <p>1. कस्बा, 2. डोड्डेरी, 3. मिदिगेशी, 4. आई. डी. हल्ली और 5. कोडीगेनाहल्ली सर्किल। मधुगिरि टी एम सी</p>
19—कोलार जिला		
139.	139. गौरीबिदनूर	<p>1. गौरीबिदनूर तालुक (भाग)</p> <p>1. कस्बा, 2. होस्सुर, 3. थोण्डेभावी, 5. डी. पायला और 6. नगरागेरे सर्किल। गौरीबिदनूर टी एम सी</p>
140.	140. बागेपल्ली	<p>3. गुदिवानडा तालुक</p> <p>4. बागेपल्ली तालुक</p>
141.	141. चिकबल्लापुर	<p>2. चिकबल्लापुर तालुक</p> <p>1. गौरीबिदनूर तालुक (भाग)</p> <p>4. मनचेनाहल्ली सर्किल</p>

142.	142. सिदलाघट्टा	5. सिदलाघट्टा तालुक 6. चिन्तामणि तालुक (भाग) 6. चिलाकलानेरपुर सर्किल
143.	143. चिन्तामणि	6. चिन्तामणि तालुक (भाग) 1. कस्बा, 2. मुरुगमल्ला, 3. अम्बाजीदुर्गा, 4. मुंगानाहल्ली और 5. केवारा सर्किल। चिन्तामणि सी एम सी
144.	144. श्रीनिवासपुर	7. श्रीनिवासपुर तालुक 8. कोलार तालुक (भाग) 6. होलुर और 5. सुगातुर सर्किल।
145.	145. मुलबागल (अ.जा.)	11. मुलबागल तालुक
146.	146. रॉबर्टसनपेट (अ.जा.)	10. बंगारापेट तालुक (भाग) 4. बेथामंगला और 5. क्यासमबल्ली सर्किल। रॉबर्टसनपेट सी एम सी 2. रॉबर्टसनपेट सर्किल (भाग) येरानागानाहल्ली, चिन्नापल्ली, मल्लामपल्ली—रायगादाहल्ली, नक्कानाहल्ली, कल्लिकुप्पा, थोंगल, एम. कोथुर, मरिकुप्पा, सुरापल्ली, बालीगानाहल्ली, गिददेगौडानाहल्ली, चिन्नागानाहल्ली, कीलुकामबाली, दोड्डाकामबाली, बॉयनेपल्ली, लक्ष्मीसागर और गट्टामडामंगला गांव।
147.	147. बंगारापेट (अ.जा.)	10. बंगारापेट तालुक (भाग) 1. कस्बा सर्किल 2. रॉबर्टसनपेट सर्किल (भाग) चिन्नाकोटे जी पी, चिन्नाकोटे, थम्मेनहल्ली, डोड्डावालागामघी जी पी, अज्जापल्ली, बुरागामकानाहल्ली, बॉयरागनाहल्ली, चिक्काकरिमानाहल्ली, डोड्डाचिन्नापल्ली, डोड्डावालागघी, इयमारासपुरा, डोड्डुरकारपानहल्ली जी पी, दासाराहोसाहल्ली, डोड्डुरकारपानहल्ली, डोड्डुरु कानापानाहल्ली प्लानटेशन, घाट्टाकामाडेमाहल्ली जी पी, गाट्टारायागडाहल्ली, घाट्टाकामाडेनाहल्ली, कृष्णराजापुरा, पेड्डापल्ली, हुनुकुण्डा जी पी, डोड्डाराहल्ली, गानाचारापुरा, हुनुकुण्डा, कुरुवाराहल्ली, मदामुथानहल्ली, मिट्टामालाहल्ली, पिचागुनत्राहल्ली, कामसमुद्र जी पी, मलियानगुर्की, मलियानगुर्की अमनिकेरे, काराहल्ली जी पी, कावारागनहल्ली, केसारानहल्ली जी पी, के सारानहल्ली, मावाहल्ली जी पी, अलगानाहल्ली, चलिगानहल्ली, कामनडाहल्ली, मानचेनाहल्ली, मावाहल्ली और वाडानडाहल्ली। 3. कामासमुद्र और 6. बोडीकोटे सर्किल बंगारापेट टी. एम. सी. 8. कोलार तालुक (भाग) 7. हुट्टुर सर्किल।

148.	148. कोलार	8. कोलार तालुक (भाग) 2. वोक्कालेरी, 3. नरसापुरा और 4. वेमगाल सर्किल 1. कोलार कसबा संपूर्ण सर्किल कोलार सी एम सी और (फोरेस्ट एरिया)
149.	149. मलूर	9. मलूर तालुक
<b>20—बंगलौर जिला</b>		
150.	150. बंगलौर उत्तर	1. बंगलौर उत्तर तालुक ग्रामीण (भाग) 3. दासनपुरा और 4. हेसाराघट्टा सर्किल 6. येलाहंका सर्किल (भाग) श्रीनिवासपुरा, मानचेनाहल्ली, वासुदेवपुरा, हरोहल्ली, गन्टीगानाहल्ली, रामगोण्डानाहल्ली, केन्चनाहल्ली, गोविन्दपुरा, सिंगानायकानाहल्ली, अनन्तपुरा, नागडासनहल्ली, अवालहल्ली, मुददेनाहल्ली, होन्नेनाहल्ली, जराकबन्दे कावल, डोडाबेट्टाहल्ली, चिक्काबेट्टाहल्ली, वीरासागर, बादेराहल्ली, मेडियाग्राहारा और शामाराजापुरा गांव। येलाहंका (सी एम सी) (भाग) येलाहंका (सी एम सी)—वार्ड सं. 1 से 17 और 20 से 32
151.	151. के. आर. पुरा	बंगलौर पूर्व तालुक (भाग) 1. के. आर. पुरा सर्किल के. आर. पुरा सी एम सी
152.	152. बॉयातरायानापुरा	1. बंगलौर उत्तर तालुक ग्रामीण (भाग) बॉयातरायानापुरा सी एम सी 1. बंगलौर उत्तर तालुक ग्रामीण (भाग) 5. जाला सर्किल 6. येलाहंका सर्किल (भाग) बेल्लाहल्ली, तिरुमेनाहल्ली, चोक्कानाहल्ली, सम्पिगेहल्ली, वेंकटेशपुरा और शिवपुरा गांव। येलाहंका सर्किल ओ. जी. येलाहंका (सी एम सी) (भाग) येलाहंका (सी एम सी)—वार्ड सं. 18 और 19
153.	153. यशवंतपुरा	1. बंगलौर उत्तर तालुक ग्रामीण (भाग) 2. यशवंतपुरा सर्किल (भाग) करिओबनहल्ली, हीरोल्ली, होण्ड्राहल्ली, लिंगाडीरानाहल्ली, उल्लालु, गिदादाकोनेनाहल्ली, कोडीगेहल्ली, कन्नाहल्ली, मानागनहल्ली, सीगेहल्ली, होसाहल्ली, गोल्लारापाल्या, डोड्डाबिडाराकल्लु, थिरुमलपुरा, सिदेदाहल्ली और केरेगुड्डाडाहल्ली गांव। 3. बंगलौर दक्षिण तालुक (भाग)

		<p>1. तावरेकेरे और 2. केनगेरी सर्किल उत्तरहल्ली सर्किल (भाग) कगगालिपुर जी पी- उत्तरी, कगगालिपुरा और ओ.बी. चुडाहल्ली सोमनहल्ली जी पी- वड्डारापालया, सुनकादाकाट्टे, रावागोदलु, नेट्टिगेरे, सोमनहल्ली, नेल्लागुली, के. चुडाहल्ली और नागनायकनहल्ली। तरालु जी पी- गुलकामले, तरालु, अलकाबेलापुरा और थाट्टागुप्पे तालाघट्टापुरा जी पी- 1. तालाघट्टापुरा, 2. मल्लासन्दा, 3. वजराहल्ली, 4. होसाहल्ली, 5. रघुवनहल्ली और 6. उत्तरहल्ली मानवारथे कावल।</p>
154.	154. पट्टानागरे	<p>1. बंगलौर उत्तर तालुक ग्रामीण (भाग) पट्टानागरे सी एम सी दसराहल्ली (सी एम सी + ओ जी) (भाग) दसराहल्ली (सी एम सी)-वार्ड सं. 26 और 30 से 32 बंगलौर (नगर निगम + ओ जी) (भाग) बंगलौर (नगर निगम)-वार्ड सं. 1 से 3 और 11</p>
155.	155. दसराहल्ली	<p>1. बंगलौर उत्तर तालुक ग्रामीण (भाग) 2. यशवन्तपुरा सर्किल (भाग) चिक्काबनावारा, गनियाराहल्ली, चिक्कासन्दा, अब्बिगेरे, सोमाशेट्टिहल्ली, लक्ष्मीपुरा, शेट्टिहल्ली और मेदाराहल्ली। दसराहल्ली (सी एम सी + ओ जी) (भाग) दसराहल्ली (सी एम सी)-वार्ड सं. 1 से 25, 27 से 29 और 33 से 35</p>
156.	156. बंगलौर शहर 1	<p>बंगलौर (नगर निगम+ओ जी) (भाग) बंगलौर (नगर निगम)-वार्ड सं. 10, 12 से 14, 16 और 17</p>
157.	157. बंगलौर शहर 2	<p>बंगलौर (नगर निगम+ओ जी) (भाग) बंगलौर (नगर निगम)-वार्ड सं. 4, 5, 7 से 9 और 99</p>
158.	158. बंगलौर शहर 3	<p>बंगलौर (नगर निगम+ओ जी) (भाग) बंगलौर (नगर निगम)-वार्ड सं. 96 से 98 और 100</p>
159.	159. बंगलौर शहर 4 (अ.जा.)	<p>बंगलौर (नगर निगम+ओ जी) (भाग) बंगलौर (नगर निगम)-वार्ड सं. 90, 91, 93 और 95</p>
160.	160. बंगलौर शहर 5	<p>बंगलौर (नगर निगम+ओ जी) (भाग) बंगलौर (नगर निगम)-वार्ड सं. 86 से 89 और 94</p>
161.	161. बंगलौर शहर 6	<p>बंगलौर (नगर निगम+ओ जी) (भाग) बंगलौर (नगर निगम)-वार्ड सं. 72 से 74 और 82 से 84</p>
162.	162. बंगलौर शहर 7	<p>बंगलौर (नगर निगम+ओ जी) (भाग) बंगलौर (नगर निगम)-वार्ड सं. 78 से 81, 85 और 92</p>
163.	163. बंगलौर शहर 8	<p>बंगलौर (नगर निगम+ओ जी) (भाग) बंगलौर (नगर निगम)-वार्ड सं. 69 से 71 और 75 से 77</p>

164.	164. बंगलौर शहर 9	बंगलौर (नगर निगम+ओ जी) (भाग) बंगलौर (नगर निगम)—वार्ड सं. 6, 25 से 29 और 31
165.	165. बंगलौर शहर 10	बंगलौर (नगर निगम+ओ जी) (भाग) बंगलौर (नगर निगम)—वार्ड सं. 15, 18 से 20 और 22 से 24
166.	166. बंगलौर शहर 11	बंगलौर (नगर निगम+ओ जी) (भाग) बंगलौर (नगर निगम)—वार्ड सं. 21 और 35 से 39
167.	167. बंगलौर शहर 12	बंगलौर (नगर निगम+ओ जी) (भाग) बंगलौर (नगर निगम)—वार्ड सं. 32 से 34 और 40 से 42
168.	168. बंगलौर शहर 13 (अ.जा.)	बंगलौर (नगर निगम+ओ जी) (भाग) बंगलौर (नगर निगम)—वार्ड सं. 30 और 43 से 46
169.	169. बंगलौर शहर 14	बंगलौर (नगर निगम+ओ जी) (भाग) बंगलौर (नगर निगम)—वार्ड सं. 47 से 50, 61 और 62
170.	170. बंगलौर शहर 15	बंगलौर (नगर निगम+ओ जी) (भाग) बंगलौर (नगर निगम)—वार्ड सं. 51 से 54
171.	171. बंगलौर शहर 16	बंगलौर (नगर निगम+ओ जी) (भाग) बंगलौर (नगर निगम)—वार्ड सं. 55, 56 और 59
172.	172. बंगलौर शहर 17	बंगलौर (नगर निगम+ओ जी) (भाग) बंगलौर (नगर निगम)—वार्ड सं. 63 और 65 से 68
173.	173. बंगलौर शहर 18	बंगलौर (नगर निगम+ओ जी) (भाग) बंगलौर (नगर निगम)—वार्ड सं. 57, 58, 60 और 64
174.	174. बंगलौर पूर्व (अ.जा.)	बंगलौर पूर्व तालुक (भाग) बिदराहल्ली सर्किल (चन्नासन्द्रा (ओ जी)—वार्ड सं. 33 को छोड़कर) 2. वारथुर सर्किल महादेवपुरा सी एम सी चन्नासन्द्रा (ओ जी)—वार्ड सं. 33
175.	175. बोम्मानहल्ली	बंगलौर दक्षिण तालुक और अनेकाल तालुक (भाग) बोम्मानहल्ली सी एम सी
176.	176. बंगलौर दक्षिण	3. बंगलौर दक्षिण तालुक (भाग) 4. बेगुर सर्किल 3. उत्तरहल्ली सर्किल (भाग) सुब्रामणियापुरा जी पी— 1. सुब्रामणियापुरा, 2. वसन्तपुरा, 3. गुब्बालालु और 4. वाददारापालय। उत्तरहल्ली जी पी— 1. उत्तरहल्ली, 2. अरेहल्ली और 3. तुरल्ली अनजानपुरा जी पी— 1. अनजानपुरा, 2. प्रिल्लागनहल्ली, 3. केमबाथहल्ली, 4. गोल्लाहल्ली और 5. थिप्पासन्द्रा। गोट्टीगेरे जी पी— 1. गोट्टीगेरे कोट्टानूर जी पी— 1. कोट्टानूर और 2. रघुवनपालया।

		डोडडाकलां सन्द्रा जी पी— 1. डोडडाकलां सन्द्रा और 2. अलाहल्ली। कोनानाकुन्टे जी पी— 1. कोनानाकुन्टे (सी टी) और 2. चुन्चागट्टा। 4. अनेकल तालुक (भाग) 2. जिगनी सर्किल पाट्टनागेरे सी एम सी (भाग) पाट्टनागेरे सी एम सी— वार्ड सं. 28 से 31 और 32 (ओ जी)।
177.	177. अनेकल (अ.जा.)	4. अनेकल तालुक (भाग) 1. कस्बा, 3. अट्टीबेले और 4. सरजापुरा सर्किल। अनेकल टी एम सी
21—बंगलौर ग्रामीण जिला		
178.	178. होसाकोट	4. होसाकोट तालुक
179.	179. देवनाहल्ली (अ.जा.)	3. देवनाहल्ली तालुक 2. डोड बेल्लापुर तालुक (भाग) 5. थुबगेरे सर्किल
180.	180. डोड बेल्लापुर	2. डोड बेल्लापुर तालुक (भाग) 2. मडुरे, 3. डोडाबेलावनामला, 4. सासालू और 1. कस्बा सर्किल। डोडाबेल्लापुरा सी एम सी
181.	181. नेलामंगला (अ.जा.)	5. मगडी तालुक (भाग) 5. सोलुर सर्किल 1. नेलामंगला तालुक
182.	182. मगदी	6. रामनगरम तालुक (भाग) 2. बिदादी और 4. कुटागल सर्किल। 5. मगदी तालुक (भाग) 1. कस्बा, 2. मडाबल, 3. थिप्पासन्द्रा और 4. कुडुर सर्किल। मगदी टी एम सी
183.	183. रामनगरम	8. कनकपुरा तालुक (भाग) 2. हारोहल्ली और 3. डोडामरालावाडी सर्किल। 6. रामनगरम तालुक (भाग) 1. कस्बा और 3. क्यलांचा सर्किल। रामनगर सी एम सी
184.	184. कनकपुरा	8. कनकपुरा तालुक (भाग) 1. कस्बा, 4. कोडीहल्ली, 5. उयामबल्ली और 6. साथनूर सर्किल। कनकपुरा टी एम सी
185.	185. चन्नापटना	7. चन्नापटना तालुक

22—माण्ड्या जिला		
186.	186. मालावल्ली (अ.जा.)	7. मालावल्ली तालुक
187.	187. मड्डुर	6. मड्डुर तालुक (भाग) 1. कस्बा-1, 2. कस्बा-11, 5. कोप्पा-111, 6. अथागुर, 7. सी.के. केरे-1, 8. सी.के.केरे-11, और 9. सी.के.केरे-111 सर्किल। मड्डुर टी एम सी
188.	188. पाण्डवपुरा	3. पाण्डवपुरा तालुक 5. माण्ड्या तालुक (भाग) 7. डुडा सर्किल-1 8. डुडा सर्किल-11 (भाग) गुनायकनाहल्ली, मरडीपुरा, शामबुनाहल्ली, एच.मल्लीगेरे, शिवहल्ली, गनादालू, मल्लनायाकानाकट्टे, सम्पल्ली, बीरेगौडानाहल्ली, बी. होसाहल्ली, होललू, चनागालू, बिलागुली, मोडाचकनाहल्ली और टी मल्लीगेरे गांव।
189.	189 माण्ड्या	5. माण्ड्या तालुक (भाग) 1. कस्बा-1, 2. केरागोडू-1, 3. केरागोडू-11, 4. कस्बा-11, 5. बसारालू-1 और 6. बसारालू-11 सर्किल माण्ड्या सी एम सी
190.	190. श्री रंगापट्टनम	4. श्रीरंगापट्टनम तालुक 5. माण्ड्या तालुक (भाग) दुड्डा सर्किल-11 (भाग) किरागन्दुर गांव 5. कोथाथी-1 और 6. कोथाथी-11 सर्किल
191.	191. नागमंगला	2. नागमंगला तालुक 6. मड्डूर तालुक (भाग) 3. कोप्पा-1, और 4. कोप्पा-11 सर्किल
192.	192. कृष्णराजपेट	1 कृष्णराजपेट तालुक
23—हसन जिला		
193.	193. श्रवणबेलागोला	8. चन्नारायापटना तालुक (भाग) 1. कस्बा, 2. हीरीसावे, 3. श्रवणबेलागोला, 4. नुगगेहल्ली और 5. बगुर सर्किल। चन्नारायापटना टी एम सी

194.	194. अरसीकेरे	3. अरसीकेरे तालुक (भाग) 1. कस्बा, 2. कन्नाकट्टे, 3. बनावरा और 4. गन्डासी सर्किल। अरसीकेरे टी एम सी
195.	195. बेलुर	2. बेलुर तालुक 3. अरसीकेरे तालुक (भाग) 5. जावगल सर्किल
196.	196. हसन	4. हसन तालुक (भाग) 1. कस्बा और 5. सालागमे सर्किल हसन (सी एम सी + ओ जी)
197.	197. होले नरसीपुर	4. हसन तालुक (भाग) 3. शांतिगरमा और 4. डुडा सर्किल। 8. चन्नारायापटना तालुक (भाग) 6. डन्डीगानाहल्ली सर्किल 7. होले नरसीपुर तालुक (भाग) 1. कस्बा और 2. होलेकोट सर्किल होले नरसीपुर टी एम सी
198.	198. अरकलगुड	6. अरकलगुड तालुक 7. होलेनरसीपुर तालुक (भाग) 3. हल्लीमैसूर सर्किल
199.	199. सकलेशपुर (अ.जा.)	1. सकलेशपुर तालुक 5. अलूर तालुक 4. हसन तालुक (भाग) 2. कट्टया सर्किल
24—दक्षिण कन्नड जिला		
200.	200. बेलटंगडी	3. बेलटंगडी तालुक
201.	201. सूरथकल	1. मंगलूर तालुक (भाग) 2. सूरथकल, 4. मोडाबिद्री और 5. मुलकी सर्किल मोडाबिद्री टी एम सी मुल्की टी पी
202.	202. मंगलूर शहर उत्तर	1. मंगलूर तालुक (भाग) 3. गुरुपुरा सर्किल मंगलूर (नगर निगम) (भाग) मंगलूर (नगर निगम)—वार्ड सं. 1 से 20, 22 और 23
203.	203. मंगलूर शहर दक्षिण	1. मंगलूर तालुक (भाग) मंगलूर (नगर निगम) (भाग) मंगलूर (नगर निगम)—वार्ड सं. 21 और 24 से 60

204.	204. मंगलोर	<p>1. मंगलोर तालुक (भाग)</p> <p>1. मंगलोर-बी सर्किल उल्लाल टी पी</p> <p>2. बन्तवाल तालुक (भाग)</p> <p>2. पनेमंगलोर सर्किल (भाग)</p> <p>मेरेमाजालु, कोडमन, सजिपानाडु (नाडुपाडु), सजिपापाडु, चेलूर, कुरनाड, फजेर, कैरंगाला, नरिंगाना, बालेपुनी और इरा गांव।</p> <p>पुडु (सी टी)</p> <p>थुम्बे (सी. टी.)</p>
205.	205. बन्तवाल	<p>2. बन्तवाल तालुक (भाग)</p> <p>1. बन्तवाल सर्किल</p> <p>2. पनेमंगलोर सर्किल (भाग)</p> <p>करियनगाला, बडगा बेल्लूर, तेन्काबेल्लूर, अम्मुन्जे, कल्लीगे, मुन्नुरु, सजीपामुडा, अम्तूर, नारीकोम्बू, शामभूर, मन्ची, गोलथामाजल, बलथिला, बरीमार और कडेश्वालया गांव।</p> <p>3. वित्ताल सर्किल (भाग)</p> <p>बोलानथूरु, वीरकम्बा, अन्नथाडी, मानी, पेराजे, नटेलामुडनूर, कोलनाडु, वित्तालपडनूर, सलेथूर, कारोपाडी और कन्याना गांव।</p> <p>बन्तवाल टी. पी.</p>
206.	206. पुत्तुर	<p>2. बन्तवाल तालुक (भाग)</p> <p>3. विटाल सर्किल (भाग)</p> <p>बिलियुर, पेरने, केडिला, विटाल, पेरुवाई, मनीला, अलीके, इडकिडू, कुला, वित्तलमुडनूर, केपु और पुनाचा गांव।</p> <p>4. पुत्तुर तालुक (भाग)</p> <p>3. पुत्तुर सर्किल</p> <p>1. उप्पिनानगडे सर्किल (भाग)</p> <p>कबका (ग्रामीण), कुडीपाडी, पडनूर (ग्रामीण), बन्नूर (ग्रामीण), कोडिमबाडी, चिक्कमुडनूर (ग्रामीण), बेल्लीपाडी, नेक्कीलाडी, हीरेबन्डडी, उप्पिनानगडे और बजाथुरु गांव।</p> <p>पुत्तुर टी एम सी</p>
207.	207. सुल्लिया (अ.जा.)	<p>6. सुल्लिया तालुक</p> <p>4. पुत्तुर तालुक (भाग)</p> <p>2. कडबा सर्किल</p> <p>1. उप्पिनानगडी सर्किल (भाग)</p> <p>गोलीथाट्टु, अलानथाया, कोनालू, नेलयाडी, कोवकराडी, इचलामपाडी, कोनाजे, शिराडी और शिरीबागीलू गांव।</p>

25—कोडागु जिला		
208.	208. मडीकेरी	2. सोमवारपेट तालुक -1. मडीकेरी तालुक (भाग) 1. मडीकेरी सर्किल मडीकेरी सी एम सी
209.	209. विराजपेट	3. विराजपेट तालुक 1. मडीकेरी तालुक (भाग) 2. सामपाजे, 3. भागमनडाला और 4. नपोकलू सर्किल।
26—मैसूर जिला		
210.	210. पिरियापटना	1. पिरियापटना तालुक
211.	211. कृष्णराजानगर	कृष्णराजानगर तालुक
212.	212. हुनसुर	2. हुनसुर तालुक
213.	213. हेगाडादेवनकोटे (अ.ज.जा.)	5. हेगाडादेवनकोटे तालुक
214.	214. ननजनगुड (अ.जा.)	6. ननजनगुड तालुक (भाग) 1. कस्बा और 2. हुल्लाहल्ली सर्किल। 5. डोड्डाकोवलन्डे सर्किल (भाग) हेडाथाले, बसावातीगै, देवानूर, चिक्काकोवलन्डे, नेराले, हेम्मारगला, कुम्बाराहल्ली, होसापुरा, कोडलापुरा, बागुरु, थाराडाले, मल्लाहल्ली, हमापापुरा, हालेपुरा, घटावाडीपुरा, हरागनापुर, घटावाडी और डोड्डाकोवलन्डे गांव। ननजनगुड टी एम सी
215.	215. चामुंडेश्वरी	4. मैसूर तालुक (भाग) 3. इलवाला, 4. कस्बा और 1. जयपुरा सर्किल। मैसूर नगर निगम (भाग) मैसूर (नगर निगम)—वार्ड सं. 19
216.	216. कृष्णराजा	4. मैसूर तालुक (भाग) मैसूर नगर निगम (भाग) मैसूर (नगर निगम)—वार्ड सं. 1 से 18, 20, 62 और 63
217.	217. चामराजा	4. मैसूर तालुक (भाग) मैसूर नगर निगम (भाग) मैसूर (नगर निगम)—वार्ड सं. 21 से 43 और 61
218.	218. मैसूर पूर्व	4. मैसूर तालुक (भाग) मैसूर नगर निगम (भाग) मैसूर (नगर निगम)—वार्ड सं. 44 से 60, 64 और 65

219.	219. वरुना	<p>4. मैसूर तालुक (भाग)</p> <p>2. वरुना सर्किल</p> <p>6. ननजनगुड तालुक (भाग)</p> <p>3. चिककैहना-चात्रा और 4. बिलिगेरे सर्किल।</p> <p>5. डोड्डाकोवलन्डे सर्किल (भाग)</p> <p>वराहल्ली, कक्काराहट्टी, बनूरु, हदया, करेपुरा, करया, चुनचन्नाहल्ली, कोनानूर, कोनानापुरा, पाडुवलामाराहल्ली, रामसेतीपुरा, हनुमानपुरा, पडुवाला अगराहारा, दसनोरु, डोड्डाहोम्मा, चिककाहोम्मा, थोरावल्ली गांव।</p> <p>7. तिरुमाकुडाल नरसीपुर तालुक (भाग)</p> <p>1. कस्बा सर्किल</p>
220.	220. टी. नरसीपुर (अ.जा.)	<p>7. तिरुमाकुडाल नरसीपुर तालुक (भाग)</p> <p>2. मुगुर, 3. तालाकाड, 4. सोसाले और 5. बन्नूर सर्किल।</p> <p>बन्नूर टी पी</p> <p>तिरुमकुडल-नरसीपुर टी पी</p>
<b>27-चामराजनगर जिला</b>		
221.	221. हनूर	<p>4. कोल्लेगल तालुक (भाग)</p> <p>2. पालया, 3. हनूर, 4. रामपुरा और 5. लोककानाहल्ली सर्किल।</p> <p>हनूर टी पी</p>
222.	222. कोल्लेगल (अ.जा.)	<p>3. येलन्दुर तालुक</p> <p>4. कोल्लेगल तालुक (भाग)</p> <p>1. कस्बा सर्किल</p> <p>कोल्लेगल टी एम सी</p> <p>चामराजनगर तालुक (भाग)</p> <p>4. संधेमाराहल्ली सर्किल</p>
223.	223. चामराजनगर	<p>2. चामराजनगर तालुक (भाग)</p> <p>1. कस्बा, 2. हारादानाहल्ली और 5. चन्दाकवाडी सर्किल।</p> <p>3. हारावे सर्किल (भाग)</p> <p>नन्जेडेवानापुरा, कलानाहुन्डी, वीरानपुरा, हन्नारेपुरा, उडीगाला, देवालापुरा, मदुवीनाबीडु, उगनेडाहुन्डी, बडागालापुर, कटनावाडी, कोथलावाडी, कगालीपुरा और थोम्मडाहल्ली गांव।</p> <p>चामराजनगर सी एम सी</p> <p>रामसमुन्द्र ग्रामीण</p>

224.	224. गुन्दलुपेट	<p>1. गुन्दलुपेट तालुक</p> <p>2. चामराजनगर तालुक (भाग)</p> <p>3. हरावे सर्किल (भाग)</p> <p>सनेगाला, हेग्गावाडी, बुजगनापुरा, कैरेहल्ली, अरालीकट्टे, केब्बेपुरा, चिक्काबेगुर, हीरेबेगुर, किलालीपुरा, मुक्काडाहल्ली, गोविन्दवाडी, हरावे, मलीयुरु, कुलागाना, मुदनाकोडु, बेटाडापुरा, सगाडे, केथाहल्ली, केन्गाकी और कुमाचाहल्ली गांव।</p>
------	-----------------	---

**सारणी-ख**  
**संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और उनका विस्तार**

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं० व नाम	नए वि.स.नि.क्षे. के रूप में विस्तार
1. चिकोडी	1-सदालगा, 2-चिकोडी, 3-अथनी, 4-कागवाड, 5-कुडाचि (अ.जा.), 6-रायबाग (अ.जा.), 7-हुकरी, 10-येम्कानमौरडी (अ.ज.जा.)
2. बेलगाम	8-अरामावी, 9-गोकाक, 11-बेलगाम उत्तर, 12-बेलगाम दक्षिण, 13-बेलगाम ग्रामीण, 16-बेलहोनाल, 17-सौन्दट्टी येल्लाम्मा, 18-रामदुर्ग।
3. बागलकोट	19-मुधोल (अ.जा.), 20-टेरडाल, 21-जामखन्डी, 22-बिल्गी, 23-बादामी, 24-बागलकोट, 25-हुन्नुड, 68-नारगुंड।
4. बीजापुर	26-मुड्डेबिहाल, 27-देवार हिप्पारगी, 28-बासवाना बागेवाडी, 29-बाबालेश्वर, 30-बीजापुर सिटी, 31-नागथान (अ.जा.), 32-इन्डी, 33-सिन्डगी।
5. गुलबर्गा (अ.जा.)	34-अफजलपुर, 35-जेवार्गी, 39-गुर्मीत्कल, 40-चितापुर (अ.जा.), 41-सेडम, 43-गुलबर्गा ग्रामीण (अ.जा.), 44-गुलबर्गा दक्षिण, 45-गुलबर्गा उत्तर।
6. रायचूर (अ.ज.जा.)	36-शोरापुर (अ.ज.जा.), 37-शाहपुर, 38-यादगीर, 53-रायचूर ग्रामीण (अ.ज.जा.), 54-रायचूर, 55-मानवी (अ.ज.जा.), 56-देवदुर्ग (अ.ज.जा.), 57-लिंगसुगुर (अ.जा.)।
7. बीदर (अ.जा.)	42-चिन्चोली (अ.जा.), 46-आलन्द, 47-बासवकल्याण, 48-होम्नाबाद, 49-बीदर दक्षिण, 50-बीदर, 51-भाल्की, 52-औराद (अ.जा.)।
8. कोप्पल	58-सिन्धनूर, 59-मास्की (अ.ज.जा.), 60-कुश्तागी, 61-कनकगिरी (अ.जा.), 62-गंगावटी, 63-येल्बर्गा, 64-कोप्पल, 92-सिरुगुप्पा (अ.ज.जा.)।
9. बेल्लारी (अ.ज.जा.)	88-हाडागल्ली (अ.जा.), 89-हगरीबोम्मानाहल्ली (अ.जा.), 90-होस्पेट, 91-काम्पली (अ.ज.जा.), 93-बेल्लारी (अ.ज.जा.), 94-बेल्लारी सिटी, 95-सन्डुर (अ.ज.जा.), 96-कुडलिगी (अ.ज.जा.)।
10. हावेरी	65-शिराहट्टी (अ.जा.), 67-रोन, 82-हानगल, 83-शिग्गाओं, 84-हावेरी (अ.जा.), 85-बयादगी, 86-हीरेकेरूर, 87-रानीबेन्नूर।
11. धारवाड़	66-गदाग, 69-नवलगुंड, 70-कुण्डगोल, 71-धारवाड़, 72-हुबली-धारवाड़-पूर्व (अ.जा.), 73-हुबली-धारवाड़-केन्द्रीय, 74-हुबली-धारवाड़-पश्चिम, 75-कालघाटगी,।

12. खानापुर	14-खानापुर, 15-कैटदूर, 76-हलियाल, 77-कारवार, 78-कुमटा, 79-भाटकल, 80-सिरसी, 81-येलापुर।
13. जगलूर	103-जगलूर (अ.ज.जा.), 104-हारापान्नाहल्ली, 105-हरिहर, 106-दावन्गरे उत्तर, 107-दावन्गरे दक्षिण, 108-मायाकोन्डा (अ.जा.), 109-चन्नागिरी, 110-होन्नाली।
14. शिमोगा	111-शिमोगा ग्रामीण (अ.जा.), 112-भद्रावती, 113-शिमोगा, 114-तिरथाहल्ली, 115-शिकारपुर, 116-सोराब, 117-सागर, 126-तारीकेरे।
15. कुन्डापुरा	118-बैनदुर, 119-कुन्डापुरा, 120-उदीपी, 121-कोप, 122-करकाल, 123-सिंगेरी, 124-मुदीगेरे (अ.जा.), 125-चिकमगलूर।
16. अरसीकेरे	127-काडुर, 193-अवणबेलागोला, 194-अरसीकेरे, 195-बेलूर, 196-हरसन, 197-होले नरसीपुर, 198-अरकलगुड, 199-सकलेशपुर (अ.जा.)।
17. मंगलूर	200-बेलटंगडी, 201-सूराथकल, 202-मंगलूर शहर उत्तर, 203-मंगलूर शहर दक्षिण, 204-मंगलूर, 205-बन्तवाल, 206-पुत्तुर, 207-सुल्लिया (अ.जा.)।
18. चित्रदुर्ग (अ.जा.)	97-मौलाकाल्मुरु (अ.ज.जा.), 98-चल्लाकेरे (अ.ज.जा.), 99-चित्रदुर्ग, 100-हीरियुर, 101-होसदुर्ग, 102-होलालकेरे (अ.जा.), 136-सिरा, 137-पावागाडा (अ.जा.)।
19. टुमकूर	128-चिकनैकानाहल्ली, 129-टिप्पुर, 130-दुरुवेकेरे, 132-टुमकूर शहर, 133-टुमकूर ग्रामीण, 134-कोराटागेरे (अ.जा.), 135-गुब्बी, 138-मधुगिरि।
20. माण्डया	131-कुनिगल, 186-मालावल्ली (अ.जा.), 187-मड्डुर, 188-पाण्डवपुरा, 189-माण्डया, 190-श्री रंगापट्टनम, 191-नागमंगला, 192-कृष्णराजपेट।
21. विरगुड	208-मडीकेरी, 209-विराजपेट, 210-पिरियापटना, 211-कृष्णराजनगर, 212-हुनसुर, 213-हेगाडादेवनकोटे (अ.ज.जा.), 214-ननजनगुड (अ.जा.), 224-गुन्दलुपेट।
22. चामराज	215-चामुंडेश्वरी, 216-कृष्णराजा, 217-चामराजा, 218-मैसूर पूर्व, 219-वरुना, 220-टी. नरसीपुर (अ.जा.), 222-कोल्लेगल (अ.जा.), 223-चामराजनगर।
23. मगदी	154-पट्टानागरै, 176-बंगलौर दक्षिण, 177-अनेकल (अ.जा.), 182-मगदी, 183-रामनगरम, 184-कनकपुरा, 185-चन्नापटना, 221-हनूर।
24. बंगलौर	151-के. आर. पुरा, 152-बॉयातरायानापुरा, 153-यशवंतपुरा, 155-दससहल्ली, 156-बंगलौर सिटी 1, 157-बंगलौर सिटी 2, 158-बंगलौर सिटी 3, 159-बंगलौर सिटी 4 (अ.जा.)।
25. बंगलौर	160-बंगलौर सिटी 5, 161-बंगलौर सिटी 6, 162-बंगलौर सिटी 7, 163-बंगलौर सिटी 8, 164-बंगलौर सिटी 9, 165-बंगलौर सिटी 10, 166-बंगलौर सिटी 11, 167-बंगलौर सिटी 12

26. बंगलौर—III	168—बंगलौर सिटी 13 (अ.जा.), 169—बंगलौर सिटी 14, 170—बंगलौर सिटी 15, 171—बंगलौर सिटी 16, 172—बंगलौर सिटी 17, 173—बंगलौर सिटी 18, 174—बंगलौर पूर्व (अ.जा.), 175—बोम्मानहल्ली।
27. बंगलौर—IV (अ.जा.)	139—गौरीबिदनूर, 140—बागेपल्ली, 141—चिकबल्लापुर, 150—बंगलौर उत्तर, 178—होसाकोट, 179—देवनाहल्ली (अ.जा.), 180—डोड बल्लापुर, 181—नेलामंगला (अ.जा.)।
28. कोलर (अ.जा.)	142—सिदलाघट्टा, 143—चिन्तामणि, 144—श्रीनिवासपुर, 145—मुलबागल (अ.जा.), 146—रॉबर्टसनपेट (अ.जा.), 147—बंगारापेट (अ.जा.), 148—कोलार, 149—मलूर।

सह सदस्यों के विसम्मत प्रस्ताव

[1]

डॉ. वीरबासबन्धा रेड्डी मुदनल  
एम.एस.

विधायक  
यादगिरी निर्वाचन क्षेत्र  
ज़िला गुलबर्गा

कमरा नं. 187  
लेजिस्लेटिव हाऊस  
बंगलौर—560001  
फोन : 22359187  
(08473) 252549  
सैल : 94481 — 49305

दिनांक : 24.02.07

सेवा में,

अध्यक्ष  
भारत परिसीमन आयोग  
निर्वाचन सदन  
अशोक रोड  
नई दिल्ली—110001

महोदय,

संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में दिनांक 16.2.2007 के आपके पत्र के उत्तर में, मैं अपना विसम्मत प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

“गुलबर्गा (अ.जा.), रायचूर (अ.ज.जा.) तथा बीदर (अ.जा.) के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में”

मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक अकेले खण्ड में 3 (तीन) निकटवर्ती निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित करने से अन्य खण्ड आरक्षण से वंचित हो जाएंगे।

इसलिए, एक अनुसूचित जाति आरक्षण को हटा कर अन्य खण्ड में स्थानांतरित करने पर विचार किया जा सकता है।

मैं चाहूंगा कि आयोग के प्रारूप प्रस्ताव के साथ मेरा विसम्मत प्रस्ताव प्रकाशित किया जाए।

धन्यवाद, श्रीमान।

आपका,

ह0/-

डॉ. वीरबासबन्धा रेड्डी मुदनल  
विधायक  
कर्नाटक राज्य से सह सदस्य

[2]

## एच०डी० देवे गौड़ा

दिनांक : 25.02.07

सेवा में,

श्री गोपालास्वामी जी,  
मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा माननीय सदस्य  
परिसीमन आयोग  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,  
नई दिल्ली – 110001

महोदय,

विषय : सदस्यों को परिचालित किए गए प्रारूप पेपर के सम्बन्ध में मेरा उत्तर/सुझाव ।  
सन्दर्भ : आपका पत्र सं. 282/कर्ना०/2007, दिनांक 16.02.2007.

\*\*\*\*\*

### कर्नाटक के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में सुझाव

मुझे आपका प्रारूप प्रस्ताव मिला है तथा मैंने उसकी विषय-वस्तु अच्छी तरह पढ़ी है। मुझे बहुत निराशा हुई है कि सदस्यों द्वारा दिए गए अधिकतर सुझावों को सम्मिलित नहीं किया गया। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ, यहाँ तक कि सदस्यों द्वारा दिए गए वास्तविक सुझावों पर भी विचार नहीं किया गया, यद्यपि उन पर सभी सदस्यों द्वारा, चाहे वे किसी भी दल से हों, सर्वसम्मति से सहमति हुई थी। इसके साथ मैं, जिला-वार मुद्दे प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिन्हें प्रारूप प्रकाशन के साथ प्रकाशित किया जाना आवश्यक है।

### जिला – बेल्लारी

बेल्लारी जिले में, नौ विधानसभा स्थानों में से 5 स्थान अ०ज०जा० के लिए, 2 स्थान अ०जा० के लिए तथा 2 स्थान सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं। यह अनुरोध किया गया था कि आरक्षित स्थानों को अन्य जिलों में वितरित कर दिया जाए, परन्तु ऐसा कुछ नहीं किया गया।

90-हौरपेट निर्वाचन क्षेत्र को विजयनगर निर्वाचन क्षेत्र कहा जाना चाहिए, क्योंकि 15वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य विकसित था।

**जिला रायचूर**

रायचूर जिले में, 7 स्थानों में से 4 (चार) स्थान अ०ज०जा० के लिए, एक स्थान अ०जा० के लिए और केवल दो स्थान सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं। यहां पर भी जिले में अधिक स्थान आरक्षित हैं तथा सामान्य के लिए बहुत कम स्थान बचे हैं। इसे ठीक करना होगा।

**जिला बीजापुर**

बीजापुर जिले में, 31-नागाथान निर्वाचन क्षेत्र भौगोलिक रूप से सघन नहीं है तथा मैंने तारीख 29.12.2008 के अपने पूर्व पत्र में इसे ठीक करने का अनुरोध किया गया था परन्तु इस पर ध्यान नहीं दिया गया।

**जिला कोलार**

141-चिक्काबल्लापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, भारत रत्न सर एम० वी० विश्वेश्वर्या का जन्म स्थान है। इसलिए, इस निर्वाचन क्षेत्र को विश्वेश्वर्या निर्वाचन क्षेत्र के नाम से पुकारा जाना चाहिए।

**जिला बंगलौर**

प्रस्तावित 152-ब्यातरायानापुरा निर्वाचन क्षेत्र सघन नहीं है, जिसे 174-बंगलौर पूर्व में जाला सर्किल में जोड़ने से तथा 152-ब्यातरायानापुरा में के० आर० पुरा सर्किल का कुछ भाग जोड़ने से, सघन बनाया जा सकता है जिससे निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या सन्तुलित हो जाए। इसी प्रकार, वारथुर सर्किल को 175-बोम्मनहल्ली निर्वाचन क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है, जिससे जनसंख्या सन्तुलित हो जाए। 150-बंगलौर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र का नाम येलाहन्का निर्वाचन क्षेत्र रखा जा सकता है, जो कि विद्यमान निर्वाचन क्षेत्र है।

**जिला बंगलौर ग्रामीण**

विद्यमान कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र में हारोहल्ली तथा डोड्डामारलावाडी सर्किलों को निकाल कर अनावश्यक रूप से इस निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ा गया है। इन दोनों सर्किलों को कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र में ही रहने दिया जाए तथा रामानगरम निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, कनकपुरा तालुक के विघटित सतनुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सतनुर सर्किल तथा कसाबा सर्किल के भाग को निकाल कर, सन्तुलित की जा सकती है।

182-मगाडी निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ गई है तथा पडौस के रामनगरम निर्वाचन क्षेत्र से जनसंख्या के अनावश्यक परिवर्तन के कारण जिला औसत का अंतर लगभग 10% हो गया है। इसे ठीक करने के लिए 182-मगाडी से कुटागल सर्किल को 183-रामानगरम में जोड़ा जा सकता है। वास्तव में, कुटागल सर्किल केवल रामनगरम तालुक से ही सम्बन्धित है।

**जिला मैसूर**

मैसूर जिले में, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। विद्यमान 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसे ही बने रहेंगे। फिर भी, विद्यमान बन्नुर निर्वाचन क्षेत्र को अनावश्यक रूप से विघटित किया गया है जिससे स्थानीय लोगों को नाराजगी है। इसलिए, बन्नुर को बने रहने दिया जाए तथा प्रस्तावित वरुना निर्वाचन क्षेत्र विघटित कर दिया जाए।

## कर्नाटक के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में सुझाव

### 16—हसन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

मैंने सुझाव दिया था कि 132—तुरुवेकेरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को 127—कादुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बजाए 16—हसन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि निर्वाचन क्षेत्र को भौगोलिक रूप से सघन रखने के लिए यह आवश्यक है।

### 22—मैसूर पूर्व

22—मैसूर पूर्व का नाम कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध देवी चामुण्डेश्वरी के सम्मान में चामुण्डेश्वरी निर्वाचन क्षेत्र रखा जा सकता है।

### 24—बंगलौर—I

मैंने निवेदन किया था कि 152—ब्यातरायानपुरा को 27—बंगलौर—4 में सम्मिलित किया था, जिस पर विचार नहीं किया गया। जबकि निर्वाचन क्षेत्र को भौगोलिक रूप से सघन रखने के लिए यह आवश्यक है।

### 23 — बंगलौर ग्रामीण

आपने सुझाव दिया था कि 221—हानुर को इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए। 221—हानुर तथा निर्वाचन क्षेत्र के बाकी हिस्से के बीच कोई सड़क मार्ग तथा संपर्क नहीं है। यहाँ तक कि हानुर तथा बाकी निर्वाचन क्षेत्र के बीच एक भी सड़क नहीं है। इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि हानुर को 20—माण्ड्या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए, जिसे ठीक किया जाना है।

### 27—बंगलौर—IV

इस निर्वाचन क्षेत्र से बंगलौर श्री कैम्पेगौड़ा के निर्माता का सम्बन्ध है और आज बंगलौर उच्चतम विकास का अन्तर्राष्ट्रीय नगर है। इस महान स्वप्नद्रष्टा को सम्मान देने के लिए इस निर्वाचन क्षेत्र का नाम कैम्पेगौड़ा निर्वाचन क्षेत्र रखने का निवेदन किया जाता है।

सादर सहित,

आपका,

ह0 /—

(एच०डी० देवे गौड़ा)

[3]

**कृष्णा**  
अध्यक्ष  
कर्नाटक विधानसभा

दूरभाष : ऑफिस : 22258171

फेक्स : 22251009

विधानसभा गृह : 22209422

विधान सुधा, बंगलौर-560001

दिनांक : 27.02.2007

सेवा में,

माननीय न्यायाधीश कुलदीप सिंह जी,  
अध्यक्ष, परिसीमन आयोग,  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,  
नई दिल्ली - 110001

महोदय,

विषय: सदस्यों को परिचालित किए गए प्रारूप पेपर के सम्बन्ध में मेरा उत्तर/सुझाव ।  
सन्दर्भ : आपका पत्र सं० 282/कर्ना०/2007, दिनांक 16.02.2007 ।

\*\*\*\*\*

मुझे आपका प्रारूप प्रस्ताव मिला है तथा मैंने उसकी विषय-वस्तु अच्छी तरह पढ़ी है तथा आयोग के साथ हुई, बैठक में सदस्यों द्वारा दिए गए अधिकतर सुझाव को सम्मिलित नहीं किया गया। उदाहरण के रूप में, यहाँ तक कि सदस्यों द्वारा दिए गए वास्तविक सुझावों पर भी विचार नहीं किया गया यद्यपि उन पर सभी सदस्यों द्वारा, चाहे वे किसी भी दल से हों, सर्वसम्मति से सहमति हुई थी। इसके साथ मैं, जिला-वार मुद्दे प्रस्तुत कर रहा हूँ जिन्हें प्रारूप प्रकाशन के साथ प्रकाशित किया जाना आवश्यक है ।

### जिला - बेल्लारी

बेल्लारी जिले में, नौ विधानसभा स्थानों में से 5 स्थान अ०ज०जा० के लिए, 2 स्थान अ०ज०जा० के लिए तथा 2 स्थान सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं। यह अनुरोध किया गया था कि आरक्षित स्थानों को अन्य जिलों में वितरित कर दिया जाए, परन्तु ऐसा कुछ नहीं किया गया।

90-होस्पेट निर्वाचन क्षेत्र को विजयनगर निर्वाचन क्षेत्र कहा जाना चाहिए, क्योंकि 15वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य विकसित था।

### जिला - रायचूर

रायपुर जिले में, 7 स्थानों में से 4 (चार) स्थान अ०ज०जा० के लिए, एक स्थान अ०जा० के लिए और केवल दो स्थान सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं। यहाँ पर भी जिले में अधिक स्थान आरक्षित हैं तथा सामान्य वर्ग के लिए बहुत कम स्थान रखे हैं। इसे ठीक करना होगा।

जिला - बीजापुर

बीजापुर जिले में, 31-नागाथान निर्वाचन क्षेत्र भौगोलिक रूप से सघन नहीं है तथा विचार विमर्श की प्रक्रिया के दौरान इसे ठीक करने का अनुरोध किया गया था परन्तु इस पर ध्यान नहीं दिया गया।

जिला - कोलार

141-चिक्काबल्लापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, भारत रत्न सर एम० विश्वेश्वर्या का जन्म स्थान है। इसलिए, इस निर्वाचन क्षेत्र को विश्वेश्वर्या निर्वाचन क्षेत्र के नाम से पुकारा जाना चाहिए।

जिला - बंगलौर

प्रस्तावित 152-ब्यातरायानापुरा निर्वाचन क्षेत्र सघन नहीं है जिसे 174-बंगलौर पूर्व में जाला सर्किल में जोड़ने से तथा 152-ब्यातरायानापुरा में के०आर० पुरा सर्किल का कुछ भाग जोड़ने से, सघन बनाया जा सकता है जिससे निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या सन्तुलित हो जाए। इसी प्रकार, वारथुर सर्किल को 175-बोम्मनहल्ली निर्वाचन क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है जिससे जनसंख्या सन्तुलित हो जाए। 150-बंगलौर उतर निर्वाचन क्षेत्र का नाम येलहंका निर्वाचन क्षेत्र रखा जा सकता है जो कि विद्यमान निर्वाचन क्षेत्र है।

जिला - बंगलौर ग्रामीण

विद्यमान कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र में हारोहल्ली तथा डोड्डामारलावाडी सर्किलों को निकाल कर अनावश्यक रूप से इस निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ा गया है। इन दोनों सर्किलों को कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र में ही रहने दिया जाए तथा रामानगरम निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, कनकपुरा तालुक के विघटित सतनुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सतनुर सर्किल तथा कसबा सर्किल के भाग को निकाल कर, सन्तुलित की जा सकती है।

182-मगाडी निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ गई है तथा पड़ोस के रामनगरम निर्वाचन क्षेत्र से जनसंख्या के अनावश्यक परिवर्तन के कारण जिला औसत का अंतर लगभग 10% हो गया है। इसे ठीक करने के लिए 182-मगाडी से कुटागल सर्किल को 183-रामानगरम में जोड़ा जा सकता है। वास्तव में कुटागल सर्किल केवल रामनगरम तालुक से ही सम्बन्धित है।

जिला - मैसूर

मैसूर जिले में, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। विद्यमान 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसे ही बने रहेंगे। फिर भी, विद्यमान बन्नुर निर्वाचन क्षेत्र अनावश्यक रूप से विघटित की गई है जिससे स्थानीय लोगों को नाराजगी है इसलिए, बन्नुर को बने रहने दिया जाए तथा प्रस्तावित वरुना निर्वाचन क्षेत्र विघटित कर दिया जाए।

सादर,

आपका

ह०/-  
(कृष्णा)

[4]

**भारतीय जनता पार्टी, कर्नाटक**

सं०. 1/1, छठीं फ़्लास, 8वीं मेन, मालेश्वरम, बंगलौर - 560003, फ़ोन. 080-23440382

सेवा में,

न्यायधीश कुलदीप सिंह,  
अध्यक्ष,  
परिसीमन आयोग, निर्वाचन सदन,  
नई दिल्ली

28 फरवरी, 2007

आदरणीय महोदय,

**विषय : कर्नाटक के विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में विसम्मत प्रस्ताव-परिसीमन आयोग के प्रारूप प्रस्तावों के साथ हमारा विसम्मत प्रस्ताव प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ।**

1. जिला शिमोगा में 115-शिकारीपुर-विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को 22.28% अ०जा० जनसंख्या के साथ आरक्षित (अ०जा०) के रूप में दर्शाया गया है। परन्तु, उसी शिमोगा जिले में 111-शिमोगा (ग्रामीण) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को, जिसकी कहीं अधिक अ०जा० जनसंख्या 23.87% है, सामान्य दर्शाया गया है। इसलिए हमारा विसम्मत प्रस्ताव यह है कि 115-शिकारीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को सामान्य रहने दिया जाए तथा 111-शिमोगा ग्रामीण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित (अ०जा०) के रूप में रखा जाए जिसकी जिले में अ०जा० जनसंख्या अधिकतम है। हमारा निवेदन है कि इसी को कृपया प्रकाशित करें।
2. 9 जून, 2006 को भारतीय जनता पार्टी, कर्नाटक ने परिसीमन आयोग के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावित प्रारूपों के सम्बन्ध में विस्तृत संशोधन प्रस्तुत किया था। हम, कर्नाटक राज्य के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में, उन्हीं संशोधनों को अपने विसम्मत प्रस्तावों के रूप में प्रस्तावित कर रहे हैं।

हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि परिसीमन आयोग के प्रारूप प्रस्तावों में, संलग्न संशोधनों को हमारे विसम्मत प्रस्तावों के रूप में कृपया प्रकाशित करें।

3. बंगलौर शहरी जिले का परिसीमन

बंगलौर-1, बंगलौर-2, बंगलौर-3 तथा बंगलौर-4 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में, परिसीमन आयोग के प्रारूप प्रस्तावों के सम्बन्ध में, विधानसभा खण्डों के साथ साथ प्रस्तावित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, दोनों में विस्तृत संशोधनों के लिए अपना प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। हम परिसीमन आयोग के प्रारूप प्रस्तावों के लिए उन्हीं संशोधनों को अपने विसम्मत प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने प्रारूप प्रस्ताव के साथ विसम्मत प्रस्तावों के रूप में संलग्न संशोधनों को प्रकाशित करें।

धन्यवाद,

सादर

ह0/-  
(अनन्त कुमार)  
सांसद, लोक सभा  
बंगलौर दक्षिण  
सह सदस्य  
परिसीमन आयोग

ह0/-  
(जगदीश शेडर)  
राजस्व मंत्री  
कर्नाटक सरकार  
सह सदस्य  
परिसीमन आयोग

(रमेश जीगाजीनागी)  
सांसद, लोक सभा  
चिक्कोडी  
सह सदस्य  
परिसीमन आयोग

ह0/-  
(बासनगोडा पाटिल यतनाल)  
सांसद, लोक सभा  
बीजापुर  
सह सदस्य  
परिसीमन आयोग

## बंगलौर-1

वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
के.आर. पुरा	बंगलौर पूर्व तालुक (भाग)	66456	19038	894
	बीदरहल्ली सर्किल (चन्नासान्द्रा (ओ.जी.) को हटाते हुए)—वार्ड सं. 33			
	के.आर. पुरा (सी एम सी)	186210	29849	2573
	कुल	252666	48887	3467
	अ.जा./अ.ज.जा का प्रतिशत		19.35	1.37
	अंतर का प्रतिशत (8.22)			
व्यातरायानापुरा	बंगलौर उत्तर तालुक ग्रामीण (भाग)			
	व्यातरायानापुरा	181744	23814	3915
	येलाहंका (सीएमसी) भाग			
	येलाहंका (सीएमसी)—वार्ड सं. 1 से 19	48379	6083	724
	येलाहंका (सीएमसी)—वार्ड सं. 23, 25, 26, 31, तथा 32	16127	1386	323
	कुल	246250	31283	4962
	अ.जा./अ.ज.जा का प्रतिशत		12.7	2.02
	अंतर का प्रतिशत (5.47)			
यशवंतपुरा	बंगलौर उत्तर तालुक ग्रामीण (भाग)			
	यशवंतपुरा सर्किल	72013	12515	2406
	दसराहल्ली (सी.एम.सी.+ओ.जी.) भाग			
	दासाराहल्ली (सी.एम.सी.)—वार्ड सं. 1 से 3	15602	3601	247
	बंगलौर (नगर निगम+ओ.जी.) भाग			
	बंगलौर (नगर निगम)—वार्ड सं. 1 (एचएमटी)	27637	6146	935
	बंगलौर (नगर निगम)—वार्ड सं. 2 जालाहल्ली	361	3153	1110
	बंगलौर (नगर निगम)—वार्ड सं. 3 यशवंतपुरा सर्किल	46677	4119	675
	बंगलौर (नगर निगम)—वार्ड सं. 11 (औद्योगिक नगर)	35403	4554	1137
	कुल	233457	36088	6510
	अ.जा./अ.ज.जा का प्रतिशत		15.46	2.79
	अंतर का प्रतिशत (-0.01)			

दसराहल्ली	बंगलौर उत्तर तालुक ग्रामीण (भाग)			
	दसराहल्ली (सी.एम.सी.+ओ.जी.) भाग			
	दसराहल्ली (सी.एम.सी.)-वार्ड सं. 4 से 35	249338	17933	4191
	कुल	249338	17933	4191
	अ.जा./अ.ज.जा का प्रतिशत		7.19	1.68
	अंतर का प्रतिशत (6.80)			
	बंगलौर सिटी-1			
वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
10	महालक्ष्मीपुरा	34702	5163	341
12	नन्दिनी लेआउट	43445	4814	655
13	गलेयारा बालागा	38743	1022	309
14	नागापुरा	36918	2622	353
16	कमालानगर	61314	7301	625
17	वृषभावतीनगर	29275	546	279
	कुल	244397	21468	2562
	बंगलौर सिटी-2			
वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
4	मतिकेरे	54704	4541	997
5	कोडनदरमपुरा	36287	2088	313
7	मल्लेश्वरम	37760	4186	274
8	गायत्रीनगर	40673	1056	249
9	सुब्रामण्यनगर	38905	1081	326
99	अरामाने नगर	32560	3930	265
	कुल	240889	16882	2424
	बंगलौर सिटी-3			
वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
96	हेब्बाला	74126	7216	1205
97	जे.सी. नगर	38042	2513	236
98	गंगा नगर	52546	4080	386
100	संजय नगर	52263	4431	672
	कुल	216977	18240	2499

बंगलौर सिटी-4				
वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
90	साग्यापुरा	43432	13347	173
91	पुलाकेशीनगर	42078	7188	138
93	देवाराजीवनहल्ली	51578	8963	102
95	कावलबायरासन्द्रा	84461	13111	391
	कुल	221549	42609	804
	कुल जनसंख्या	1905523	233390	27419
बंगलौर - 2				
बंगलौर सिटी-5				
वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
86	मारुतिसेवानगर	39586	8633	109
87	लिंगराजपुरा	56530	7796	413
88	बांसवाडी	26103	2678	263
89	काचरकानाहल्ली	32889	3009	306
94	काडुगोन्डानाहल्ली	60896	7928	159
	कुल	216004	30044	1250
बंगलौर सिटी-6				
वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
72	डोमलुर	44357	6333	385
73	एअरपोर्ट	42288	8351	239
74	जीवनभीमानगर	39820	5431	289
82	होयसालानगर	33359	10497	210
83	सी.बी. रामानगर	50256	3960	881
84	बेन्नीगनाहल्ली	31985	7346	947
	कुल	242065	41918	2951
बंगलौर सिटी-7				
वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
78	वसन्तनगर	37028	4639	750
79	शिवाजीनगर	34988	1420	513
80	भारतीनगर	35681	2189	186
81	उल्सूर	39669	6638	871
85	सरबगनागर	34943	12221	261
92	जयमहल	39663	7305	131
	कुल	221972	34412	2712

बंगलौर सिटी-8				
वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
69	नीलासन्द्रा	52079	6678	2161
70	शान्तीनगर	34682	4126	668
71	आस्टिन टाऊन	39790	15542	390
75	जोगुपालया	36035	4975	611
76	रिचमोन्ड टाउन	36465	4975	126
77	सम्पांगीरम नगर	32451	1372	296
	कुल	231502	37668	4252
बंगलौर सिटी-9				
वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
6	दत्तात्रेय	38723	4714	261
25	रामचन्द्रपुरा	35411	4343	272
26	सेवाश्रम	37507	12398	516
27	गान्धीनगर	32809	6296	158
28	चिकपेट	31851	219	89
29	काटनपेट	40704	2765	305
31	विन्नीपेट	28069	2466	622
	कुल	245074	33201	2223
बंगलौर सिटी-10				
वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
15	राजाजीनगर	37005	2234	269
18	कामाक्षीपाल्या	25742	2004	321
19	वासवेश्वरनगर	23228	1207	206
20	शिवनगर	28121	680	229
22	श्रीराम मन्दिर	41471	1087	327
23	प्रकाश नगर	35465	1994	140
24	भाष्यम नगर	34595	10651	170
	कुल	225627	19857	1662
बंगलौर सिटी-13				
वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
30	के. आर. मार्केट	39521	17616	344
43	पदरायनपुरा	59933	4108	447
44	जे. जे. नगर	43892	12594	281
45	आजाद नगर	40821	2630	825
46	वामराजपेट	40725	4151	483
	कुल	224892	41099	2380

बंगलौर पूर्व (अ.जा.)	बंगलौर पूर्व तालुक (भाग)			
	के. आर. सर्किल	53707	7043	522
	वरथुर सर्किल	50686	15397	262
	महादेवपुरा सीएमसी	135794	25008	1564
42011000	चन्नासन्द्रा (ओ.जी.)-वार्ड सं. 33	5867	819	91
	कुल	246054	48267	2439
<b>बंगलौर - 3</b>				
<b>बंगलौर सिटी-11</b>				
वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
21	इन्डस्ट्रियल टाऊन	47682	5061	730
35	मारेनहल्ली	40131	1759	669
36	गोविन्दराजनगर	56340	3216	689
37	अमरज्योतिनगर	21896	647	464
38	मुदालयापालया	15597	890	237
39	चन्द्रा लेआउट	40478	4397	484
	कुल	222124	15970	3273
<b>बंगलौर सिटी-12</b>				
वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
32	केम्पापुरा अग्रहारा	40047	1354	1078
33	विजयनगर	40867	1534	282
34	आर.पी.सी. लेआउट	44368	4668	460
40	अट्टीगुप्पे	25619	1288	231
41	गली अन्जानेया	51746	2790	512
42	बापूजी नगर	43223	3314	481
	कुल	245870	14948	3044
<b>बंगलौर सिटी-14</b>				
वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
47	धर्मार्या स्वामी टेम्पल	32938	2036	108
48	सुदाम नगर	42919	10099	346
49	के. जी. नगर	41075	2162	352
50	वी. वी. पुरम	31893	1676	78
61	मावाल्ली	39505	4037	191
62	एच.जी. नगर	53934	6312	394
	कुल	242264	26322	1469

<b>बंगलौर सिटी-15</b>				
वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
51	बासवनगुडी	39484	1002	216
52	हनुमन्तनगर	35660	903	296
53	श्रीनगर	62163	654	272
54	श्रीनिवासनगर	82630	2725	640
	<b>कुल</b>	<b>219937</b>	<b>5284</b>	<b>1424</b>
<b>बंगलौर सिटी-16</b>				
वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
55	पद्मनाभनगर	112407	5371	1041
56	गणेश मन्दिर	87307	5438	1084
59	येदीयुर	34613	1448	134
	<b>कुल</b>	<b>234327</b>	<b>12257</b>	<b>2259</b>
<b>बंगलौर सिटी-17</b>				
वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
57	जे. पी. नगर	63906	4153	750
58	जयनगर	40430	2103	198
64	गुरुप्पानापाल्या	63111	5497	252
63	लक्कासन्दा	48979	6610	669
	<b>कुल</b>	<b>216426</b>	<b>18363</b>	<b>1869</b>
<b>बंगलौर सिटी-18</b>				
वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
60	पट्टाभीरमनगर	39308	4194	119
65	बी. टी. एम. लेआउट	51545	3195	383
66	माडीवाला	65820	6499	1107
67	कोरामंगला	45929	6816	542
68	इगीपुरा	40986	5487	520
	<b>कुल</b>	<b>243588</b>	<b>26191</b>	<b>2671</b>
<b>बोम्मनहल्ली</b>				
	बंगलौर दक्षिण तालुक तथा अनेकल तालुक (भाग)			
	बोम्मनहल्ली (सी.एम.सी.)	210963	19815	2198
	<b>कुल</b>	<b>210963</b>	<b>19815</b>	<b>2198</b>
	<b>कुल जनसंख्या</b>			

[5]

## भारतीय जनता पार्टी—कर्नाटक

दिनांक : 9.06.2006

न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह,  
अध्यक्ष,  
भारत परिसीमन आयोग  
नई दिल्ली

आदरणीय महोदय,

दिनांक 11.05.2006 को नई दिल्ली में परिसीमन आयोग की बैठक में जो निर्णय लिया गया था उसके अनुसार कर्नाटक राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर परिचालित वर्किंग पेपर पर संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

ह0/-  
(अनन्त कुमार)  
संसद सदस्य—लोकसभा (बंगलौर दक्षिण)  
सह—सदस्य  
भारत परिसीमन आयोग

ह0/-  
(जगदीश शेड्डर)  
राजस्व मंत्री  
कर्नाटक सरकार  
सह—सदस्य  
भारत परिसीमन आयोग

ह0/-  
(रमेश जागाजीनागी)  
संसद सदस्य—लोकसभा (चिक्कोडी)  
सह—सदस्य  
भारत परिसीमन आयोग

ह0/-  
(बासनागौड आर. पाटिल)  
संसद सदस्य—लोकसभा (बीजापुर)  
सह—सदस्य  
भारत परिसीमन आयोग

## भारतीय जनता पार्टी –कर्नाटक

कर्नाटक राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में

परिसीमन आयोग के प्रस्तावित प्रारूप में संशोधन

क्रम सं.	जिला	टिप्पणी
1.	बेलगाम	—
2.	बागलकोट	संलग्नक—I
3.	बीजापुर	संलग्नक—II
4.	गुलबर्गा	संलग्नक—III
5.	बीदर	—
6.	रायचूर	संलग्नक—IV
7.	कोप्पल	संलग्नक—V
8.	गदाग	—
9.	धारवाड	संलग्नक—VI
10.	उत्तर कन्नड	संलग्नक—VII
11.	हवेली	संलग्नक—VIII
12.	बेलारी	—
13.	चित्रदुर्ग	—
14.	दावन्नोरे	संलग्नक—IX
15.	शिमोगा	संलग्नक—X
16.	उदीपी	—
17.	चिकमगलुर	संलग्नक—XI
18.	टुमकुर	—
19.	कोलर	संलग्नक—XII
20.	बंगलौर	संलग्नक—XIII
21.	बंगलौर ग्रामीण	—
22.	माण्ड्या	—
23.	हसन	संलग्नक—XIV
24.	दक्षिण कन्नड	—
25.	कोडगु	संलग्नक—XV
26.	मैसूर	—
27.	चामराज नगर	—

## बागलकोट जिला

बागलकोट जिला के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में  
परिसीमन आयोग के प्रस्तावित प्रारूप में संशोधन

### बागलकोट और हुन्गुंड निर्वाचन क्षेत्र

बागलकोट और हुन्गुंड विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों के सर्व लोक हित एवं सुविधा के लिए निम्नलिखित परिवर्तन के लिए कुछ मुख्य विषय उनके सामने दिए गए हैं

विधानसभा	जनसंख्या
1. जामखण्डी	2,228,554
2. मुधोली	2,15,353
3. बिलगी	2,45,036
4. बागलकोट	2,78,760
5. बादामी	2,46,606
6. टेरडाल	2,39,708
7. हुन्गुंड	1,97,875

(II) जनसंख्या के अनुसार संविधान को देखने से यह स्पष्ट है कि बागलकोट और हुन्गुंड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बीच असन्तुलन है। अतः सन्तुलन और प्राकृतिक न्याय रखने के लिए मैं इस तरह निम्नलिखित सुझाव रखता हूँ -

अमीनागद का राजस्व सर्किल जो हुन्गुंड राजस्व तालुक में है, को बागलकोट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल किया जाए। कृपया निम्नलिखित पंचायत को हुन्गुंड निर्वाचन क्षेत्र में शामिल किया जाए।

पंचायत	जनसंख्या
1. गुडुर	10,952
2. चिकानाल	6,192
3. सुलेभावी	8,898
4. अमीनागद	13,593
5. वाडागेरी	7,510
योग	47,143

इन पंचायतों को हुन्गुंड विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों में शामिल किया जाना है क्योंकि ये बागलकोट विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र की बजाए हुन्गुंड से भूगोलिक रूप से सुसम्बद्ध है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अमीनागद के वही राजस्व सर्किल के बाकी पंचायतों को दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संतुलन को देखते हुए सिफारिशों के अनुसार बागलकोट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल किया जाए।

पंचायत	जनसंख्या
1. कमतागी	14,380
2. मुगानुर	6,765
3. केलूर	6,033
4. हीरेमगी	6,022
5. अहोली	7,509
योग	40,709

(III) दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के जनसंख्या आंकड़ों की तुलना करने पर, बागलकोट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 47,143 को छोड़कर, जनसंख्या निम्नरूप से परिवर्तनशील है।

#### विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

1. बागल	2,31,617
2. हुगुड	2,38,584

## बीजापुर जिला

बीजापुर जिला के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में  
परिसीमन आयोग के प्रस्तावित प्रारूप में संशोधन

### बीजापुर शहर और नाघटन (अ.जा.) निर्वाचन क्षेत्र

नाघटन के परिसीमन में आपकी प्रारूप प्रति में आप ने बीजापुर से वार्ड सं. 12, 15, 16, 17 को नाघटन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बदला है। यह भौगोलिक रूप से टेढ़ा-मेढ़ा है। नाघटन निर्वाचन क्षेत्र पहले ही बड़ा है, अगर आप इसे संशोधित करें तो यह एक तरफ हो जाएगा और लोगों को सहायता करेगा।

यदि आप वार्ड सं. 12, 15, 16 को बीजापुर शहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जोड़ने का अनुरोध करते हैं। साथ में वार्ड सं. 12, 15, 16 को भी बीजापुर शहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जोड़ा जाए। वार्ड सं. 17, 19, 20, 24, 25 को नाघटन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जोड़ा जाए। थोड़ा संशोधन करने से यह एक तरफ हो जाएगा और बीजापुर शहर और नाघटन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए सुविधाजनक होगा।

निम्नलिखित सारणी वार्ड और उनकी जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसे हम संशोधित करने का अनुरोध करते हैं।

बीजापुर शहर में वार्डों को जोड़ने का अनुरोध		नाघटन में वार्डों को जोड़ने का अनुरोध	
वार्ड सं.	जनसंख्या	वार्ड सं.	जनसंख्या
12	7,326	19	5,050
15	5,281	20	7,624
16	10,249	24	6,702
		25	5,636
योग	22856	योग	25,012

संशोधन के बाद बीजापुर शहर और नाघटन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या में कुल 2142 का हल्का बदलाव होगा

परिवर्तन के बाद बीजापुर शहर और नाघटन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल जनसंख्या निम्नलिखित रूप से दर्शाई जाएगी।

कुल जनसंख्या	
बीजापुर शहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र	नाघटन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
2,20,225	2,34,099

## गुलबर्गा जिला

गुलबर्गा जिला के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में  
परिसीमन आयोग के प्रस्तावित प्रारूप में संशोधन

### गुलबर्गा ग्रामीण (अ.जा.) निर्वाचन क्षेत्र

परिसीमन आयोग द्वारा तैयार परिसीमन प्रस्ताव के प्रारूप में विद्यमान 8-कमालपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को हटाया गया है और एक नया गुलबर्गा (ग्रामीण) अ.जा. नामक निर्वाचन क्षेत्र का अब प्रस्ताव आया है जिसमें कुछ क्षेत्रों को हटाया गया है और चितापुर तालुक की गुन्डागुर्थी सर्किल और शाहाबाद सर्किल भाग जैसे क्षेत्रों को समाविष्ट किया गया है। गुलबर्गा तालुक के पाटन सर्किल को भी नये रूप में समाविष्ट किया गया है। गुलबर्गा ग्रामीण में गुन्डागुर्थी सर्किल का भौगोलिक समाविष्ट और आलन्द तालुक से नारोना सर्किल को हटाया जाना व्यवहारिक नहीं है। इसको ध्यान में रखकर अफजलपुर, आलन्द, गुलबर्गा (ग्रामीण) यादगीर, सेदाम और चितापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को प्रभावी करने वाले संशोधित प्रस्ताव हम प्रस्तुत कर रहे हैं।

## गुलबर्गा जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का परिशीलन

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित		अब संशोधित प्रस्ताव	
	कुल जनसंख्या	अ. ज. जनसंख्या	अ. ज. जनसंख्या
34. अफजलपुर	180071	32103	3720
	69558	16288	1841
	249629	48391	5561
46. आलन्द	79759	16154	1718
	42028	8336	638
	47218	10485	954
	58573	16389	1043
	227578	51364	4353
43. गुलबर्गा ग्रामीण (अ. ज.)	43677	14681	1071
	36482	10309	1539
	47093	20342	1282
	41566	9720	973
	24902	8700	153
	38386	9542	627
	517	127	0
	9009	2553	38
	638	465	0
	2043	885	84
	1533	419	0
	980	288	0
	1262	278	0
	4462	1237	18
	252550	79546	5785
	43677	14681	1071
	36482	10309	1539
	47093	20342	1282
	41566	9720	973
	24902	8700	153
	38386	9542	627
	517	127	0
	9009	2553	38
	638	465	0
	2043	885	84
	1533	419	0
	980	288	0
	1262	278	0
	4462	1237	18
	231171	76673	5228

41	सेढाम	सेढाम तालुक चिन्वोली तालुक भाग 1 सुलेपेठ सर्किल	196154 47844 243888	50686 10366 81072	5072 1070 8142	सेढाम तालुक चित्तापुर तालुक भाग 1 गुडगुर्था	196154 38386 234540	50686 9542 80228	5072 627 5889
42	चिन्वोली (ख.जा.)	4 चिन्वोली तालुक भाग 1 चिन्वोली सर्किल 2 एनापुर सर्किल 3 कोडली सर्किल चित्तापुर तालुक भाग 1 कलगी सर्किल	75131 55660 45011 55160	27158 23165 13648 16290	1808 1749 526 604	चिन्वोली तालुक भाग 1 चिन्वोली सर्किल 2 एनापुर सर्किल 3 कोडली सर्किल 4 सुलेपेठ सर्किल चित्तापुर तालुक भाग कलगी सर्किल (भाग) 1 अरानकाल 2 रेवाई 3 मवीनपुर 4 सुगुर 5 वेदसूर	75131 55660 45011 47844 4070 857 109 1246 2393 232321	27158 23165 13648 10386 1987 117 92 1162 1359 79074	1808 1749 526 1070 3 0 0 0 0 5156
40	चित्तापुर	चित्तापुर तालुक भाग 1 चित्तापुर सर्किल 2 नलवार सर्किल शाहाबाद सर्किल भाग 1 शाहाबाद टीएमसी 2 शाहाबाद एससी एनएसी 3 गोला (के) 4 शंकरवाडी 5 बालवाडीगी 6 कोनचूर 7 इन्गलेगी	65191 100908 50562 6979 2946 1186 2755 2013 5122	15780 33661 15975 1738 929 293 1058 876 2046	1753 1793 425 57 34 1 71 0 0	चित्तापुर तालुक भाग 1 चित्तापुर सर्किल (कारडाल, डेनगांव, बानकालगा को छोड़ कर) 2 नलवार सर्किल (भाग) 1 नलवार 2 सुगुर एन 3 रामपुरहल्ली 4 हलकटा 5 कमरवाडी 6 सुलहल्ली 7 सोनथी 8 बगहटी	59118 11533 1199 1685 3909 1961 1046 1595 610	14820 4028 299 165 750 849 394 335 0	1675 298 152 0 8 398 112 0 0

8 कडहल्ली	649	99	4	9 हुलण्डगोरा	1219	628	0
9 तोन्सागहल्ली	2368	465	5	10 कगनहल्ली	869	235	1
10 चामनूर	939	127	233	11 कोल्तूर	5754	2931	9
11 कोडाबूर	1048	170	0	12 कोलकुन्डा	878	148	0
12 कुन्डानूर	2121	251	39	13 तुरनूर	591	325	7
13 हुना गुन्था	5141	905	0	14 मराडगी	657	227	0
14 मालागट्टी	2884	949	3	15 मलाग एन.	480	209	14
				16 कोनचूर	2013	876	0
				17 वाडी जंक्शन	34714	12948	438
				18 देवपुर	566	560	0
				19 शिवनगर	724	724	0
				20 तारकासपेट	2041	274	0
				शाहाबाद सर्किल भाग			
				1 शाहाबाद टीएमसी	50562	15975	425
				2 शाहाबाद एसीसी एमएसी	6979	1738	57
				3 गोला (के)	2946	929	34
				4 शंकरवाडी	1186	293	1
				5 बलवाडी	2755	1058	71
				6 कोनचूर	2013	876	0
				7 इनालगी	5122	2046	0
				8 कडहल्ली	649	99	4
				9 तोनसनहल्ली	2368	465	5
				10 चामनूर	939	127	233
				11 कोडाबूर	1048	170	0
				12 कुन्डानूर	2121	251	39
				13 हुनागुन्टा	5141	905	0
				14 मालगट्टर	2884	949	3
				कलागी सर्किल (अरानकल, रेवई, बेडसुर, भवीनसुर, सुगुर को छोड़ कर)	46468	11573	601
	252812	75322	4418		288363	79179	4585



## रायचूर जिला

रायचूर जिला के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित  
प्रस्तावित परिसीमन आयोग प्रारूप में संशोधन

### सिंधनूर और मसकी निर्वाचन क्षेत्र

परिसीमन समिति के अनुसार गोरेबाल और जालीहाल सर्किल को मसकी निर्वाचन क्षेत्र में शामिल किया गया है। भौगोलिक रूप से यह सही नहीं है और लोगों के लिए असुविधाजनक है। अतः हमारी नीचे की विवरणी के अनुसार छोटी-छोटी तब्दीलियां की जाएं जो मसकी और सिंधनूर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए सुविधाजनक होंगी।

क्रम सं.	सिंधनूर	हमारा प्रस्ताव	परिसीमन के अनुसार	मसकी	हमारा प्रस्ताव	परिसीमन के अनुसार
1.	सिंधनूर ग्रामीण सर्किल	17738	17738	4. हालापुर सर्किल	24909	—
2.	सालगुन्डा सर्किल	19253	19253	6. पमानकल्लूर सर्किल	19611	—
3.	हुडा सर्किल	16692	16692	6. गुन्जाहल्ली सर्किल	24760	24760
10.	बलगानूर सर्किल	21171	21171	7. तुरवीहल सर्किल	33479	33497
11.	जवालगेरा सर्किल	16470	16470	8. कन्नातागी सर्किल	27617	27617
12.	वालकामडिन्नी सर्किल	17057	17057	9. गुडाडूर सर्किल	24608	24608
13.	हेडगीनाल सर्किल	10924	10924	1. लिंगासूर तालुक भाग		
14.	बडारली सर्किल	15381	15381	3. मसकी सर्किल	64846	64846
15.	सिंधनूर टी एम सी	61262	61262	4. गोरेबाल सर्किल		27988
4.	गोरेबाल सर्किल	27988		5. जालीहाल सर्किल		25746
5.	जालीहाल सर्किल	25746				
4	हालापुर सर्किल		24909			
6	पमानकल्लूर सर्किल		19611			
	योग	249682	240468	योग	219848	229062

स्वीकृत औसत — 214684 से 262391

## कोप्पाला जिला

### कोप्पाला जिला के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में परिसीमन आयोग के प्रस्तावित प्रारूप में संशोधन

- कनकगिरी एक विधानसभा खण्ड है पर संपूर्ण कनकगिरी सर्किल गंगावती से जुड़ा है जो अवैज्ञानिक है।
- आप ने कोप्पाला निर्वाचन क्षेत्र का इरकालगाड सर्किल को गंगावती में शामिल किया है जो कि पश्चिम भागों के गांवों से आने वालों के लिए बहुत दूर है। यह पश्चिम भागों के गांवों से आने वालों के लिए असुविधाजनक है।
- आप ने कोप्पाला और गंगावती में ज्यादा लोगों को जोड़ा है पर कनकगिरी से घटाया है जो सामाजिक रूप से दबे लोगों के लिए अन्याय होगा।

परिसीमन समिति के अनुसार

जनसंख्या 2001						
	योग	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.जा. का प्रतिशत	अ.ज.जा का प्रतिशत	अन्तर का प्रतिशत
कुस्तागी	239331	32078	31514	13.40	13.17	0.05
कनकगिरी (अ.जा.)	215095	37196	35201	17.29	16.37	-10.08
गंगावती	253694	40030	27382	15.78	10.19	6.05
येलबर्गा	236373	34744	24836	14.70	10.51	-1.19
कोप्पाला	251596	41161	19655	16.36	7.81	5.17

संशोधन के अनुसार

जनसंख्या 2001						
	योग	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.जा. का प्रतिशत	अ.ज.जा का प्रतिशत	अन्तर का प्रतिशत
कुस्तागी	239331	32078	31514	13.4	13.17	0.05
कनकगिरी (अ.जा.)	236299	37800	41041	15.99	17.36	—
गंगावती	247860	43185	23790	17.42	9.59	—
येलबर्गा	236373	34744	24836	14.7	10.51	1.19
कोप्पाला	236223	37402	17407	15.83	7.36	—

## धारवाड़ जिला

### धारवाड़ जिला के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में परिसीमन आयोग के प्रस्तावित प्रारूप में संशोधन

1. धारवाड़ जिला में आने वाले उन सात विधानसभा खण्डों के प्रस्तावित परिसीमन के संबंध में नीचे दी गई टिप्पणियां उठाई गई हैं।
2. नवलगुड और कुंडागोल विधानसंख्या खण्डों के लिए प्रस्तावित परिवर्तनों के लिए की गई सिफारिश पर सहमति हो गई है।
3. फिर भी, धारवाड़ हुबली-धारवाड़ (पश्चिम), हुबली-धारवाड़ (पूर्व) हुबली-धारवाड़ (केन्द्रीय) और कालघाटगी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित परिवर्तनों की गणना उत्तरवर्ती पैराग्राफ में निर्वाचन क्षेत्र अनुसार की गई है।

(क) धारवाड़ (विद्यमान धारवाड़ ग्रामीण) और हुबली-धारवाड़ पश्चिम (विद्यमान शहर) प्रस्तावित परिवर्तन के अनुसार इस निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 2,26,336 है। उपरोक्त विद्यमान निर्वाचन क्षेत्र में से आधा भाग कालघाटगी निर्वाचन क्षेत्र में विलय हो गया है जो कि भौगोलिक रूप से सही नहीं है। अतः विद्यमान धारवाड़ ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र को बिना परिवर्तन के रखने की सिफारिश की जाती है पर हुबली-धारवाड़ नगर निगम अर्थात् वार्ड सं. एक और तीन को धारवाड़ ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में जोड़ा जाए। इस परिवर्तन पर धारवाड़ ग्रामीण (प्रस्तावित धारवाड़) और धारवाड़ शहर (प्रस्तावित हुबली-धारवाड़ (पश्चिम) स्वीकृत जनसंख्या सीमा में आएगा।

#### (ख) हुबली धारवाड़ केन्द्रीय (विद्यमान हुबली ग्रामीण)

प्रस्तावित परिवर्तन के अनुसार जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार जिला औसत जनसंख्या और पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। अतः हुबली धारवाड़ नगर निगम की वार्ड सं. 35,36,37 को कालघाटगी निर्वाचन क्षेत्र में जोड़ने की सिफारिश की जाती है। उपरोक्त वार्ड कालघाटगी निर्वाचन क्षेत्र से सटे हैं। उससे क्षेत्र के साथ-साथ कालघाटगी की जनसंख्या बराबर हो जाएगी।

हुबली धारवाड़ नगर निगम के तीन वार्ड 42,45,47 को भी हुबली शहर में जोड़ा जाए। (प्रस्तावित हुबली)

#### 2. (ग) हुबली धारवाड़ पूर्व (विद्यमान हुबली शहर)

इस निर्वाचन क्षेत्र से हुबली-धारवाड़ नगर निगम के तीन वार्ड अर्थात् 62,63,64 को पड़ोसी कालघाटगी निर्वाचन क्षेत्र में जोड़ा जाए।

उपरोक्त उप-पैरा (ख) में पहले ही गणना की गई है कि अतिरिक्त हुबली धारवाड़ केन्द्रीय (विद्यमान हुबली ग्रामीण) को हुबली-धारवाड़ पूर्व (विद्यमान हुबली शहर) में स्थानांतरण किया जाना प्रस्तावित है।

- (ग) कालघाटगी- कालघाटगी निर्वाचन-क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या 1,37,016 है। इस जिला को स्थानांतरित करने के लिए वार्ड सं. 35, 36, 37, 62, 63 और 64 को कालघाटगी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र खंड में विलय करने की सिफारिश की जाती है। इससे कालघाटगी निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 2,18,960 हो जाएगी जो कि उपरोक्त पैराग्राफ में पहले ही उचित ठहराई जा चुकी है।

आगे, यह सूचित किया जाता है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः नाम रखने पर सहमति नहीं हुई है। निर्वाचन क्षेत्रों के नाम परिवर्तन की जरूरत नहीं है। ये नाम निम्नरूप से जारी रह सकते हैं—

प्रस्तावित नाम

- 1) हुबली-धारवाड़ पूर्व (हुबली शहर)
- 2) हुबली-धारवाड़ केन्द्रीय (हुबली ग्रामीण)
- 3) हुबली-धारवाड़ पश्चिम (हुबली शहर)
- 4) धारवाड़ (धारवाड़ ग्रामीण)
- 5) नवलगुण्ड (नवलगुण्ड)
- 6) कालघाटगी (कालघाटगी)
- 7) कुण्डगोल (कुण्डगोल)

सिफारिश किए गए नाम

- हुबली दक्षिण  
हुबली उत्तर  
धारवाड़ शहर  
धारवाड़ ग्रामीण  
नवलगुण्ड  
कालघाटगी  
कुण्डगोल

धारवाड़ जिला					
निर्वाचन क्षेत्र	कुल जनसंख्या	अ.जा. जनसंख्या	अ.ज.जा. जनसंख्या	अ.जा. प्रतिशत	अ.ज.जा. प्रतिशत
हुबली दक्षिण	207450	20390	4333	9.83	2.09
हुबली उत्तर	216672	17313	5417	7.99	2.50
धारवाड़ शहर	251877	19303	9961	7.66	3.95
धारवाड़ ग्रामीण	247213	15477	16161	6.26	6.54
कुण्डगोल	219666	18971	14151	8.64	6.44
कालघाटगी	218960	22484	9423	10.27	4.30
नवलगुण्ड	242415	18031	10996	7.44	4.54
	1604253	131969	70442	8.23	4.39

हुबली दक्षिण (हुबली-धारवाड़ पूर्व)					
वार्ड सं.	कुल जनसंख्या	अ.जा. जनसंख्या	अ.ज.जा. जनसंख्या	अ.जा. प्रतिशत	अ.ज.जा. प्रतिशत
42	11636	1421	83	12.21	0.71
45	7037	9	257	0.13	3.65
47	13240	2494	244	18.84	1.84
48	7864	2227	318	28.32	4.04
49	12527	2839	150	22.66	1.20
50	9125	1542	98	16.90	1.07
51	9380	414	46	4.41	0.49
52	8232	85	79	1.03	0.96
53	9370	286	44	3.05	0.47
54	8612	512	104	5.95	1.21
55	9827	896	152	9.12	1.55
56	7664	43	10	0.56	0.13
57	8687	119	23	1.37	0.26
58	9581	3	22	0.03	0.23
59	7195	17	18	0.24	0.25
60	13659	2202	527	16.12	3.86
61	8986	50	104	0.56	1.16
65	17480	381	244	2.18	1.40
66	12123	4270	1099	35.22	9.07
67	15225	580	711	3.81	4.67
	207450	20390	4333	9.83	2.09

हुबली उत्तर (हुबली-धारवाड़ केन्द्रीय)					
वार्ड सं.	कुल जनसंख्या	अ.जा. जनसंख्या	अ.ज.जा. जनसंख्या	अ.जा. प्रतिशत	अ.ज.जा. प्रतिशत
24	13603	469	444	3.45	3.26
25	11258	451	172	4.01	1.53
26	11652	761	273	6.53	2.34
27	12533	1646	295	13.13	2.35
28	10300	682	395	6.62	3.83
29	15651	2493	472	15.93	3.02
30	14732	1687	261	11.45	1.77

31	10149	722	989	7.11	9.55
32	10107	624	209	6.17	2.07
33	9045	678	184	7.47	2.03
34	16067	966	345	6.01	2.15
38	15707	1078	276	6.86	1.76
39	12280	1509	141	12.29	1.15
40	11501	453	82	3.94	0.71
41	10509	323	210	3.07	2.00
43	10923	2162	300	19.79	2.75
44	11283	359	178	3.18	1.58
46	9372	252	211	2.69	2.25
	216872	17313	5417	7.9904	2.5001

### हुबली शहर (हुबली-धारवाड़ पश्चिम)

वार्ड सं.	कुल जनसंख्या	अ.जा. जनसंख्या	अ.ज.जा. जनसंख्या	अ.जा. प्रतिशत	अ.ज.जा. प्रतिशत
2	11202	627	352	5.60	3.14
4	11759	608	140	5.17	1.19
5	10930	392	112	3.59	1.02
6	11218	149	93	1.33	0.83
7	11862	521	113	4.39	0.95
8	9686	476	136	4.91	1.40
9	8692	101	454	1.16	5.22
10	10523	1661	563	15.84	5.35
11	10439	80	129	0.77	1.24
12	9112	801	141	8.79	1.55
13	10446	1150	195	11.01	1.87
14	12746	1218	602	9.56	4.72
15	10179	982	223	9.65	2.19
16	14534	2570	231	17.68	1.59
17	13825	1008	506	7.29	3.66
18	12722	1446	551	11.37	4.33
19	14254	1824	949	12.8	6.66
20	14031	1434	532	10.22	3.79
21	15963	667	2621	4.18	16.42
22	12247	774	380	6.32	3.10
23	15507	808	938	5.21	6.05
कुल	251877	19303	9961	7.66	3.95

**धारवाड ग्रामीण (धारवाड)**

निर्वाचन क्षेत्र	कुल जनसंख्या	अ.जा. जनसंख्या	अ.ज.जा. जनसंख्या	अ.जा. प्रतिशत	अ.ज.जा. प्रतिशत
गराग सर्किल	74754	4285	4337	5.73	5.8
अम्मिनभावी सर्किल	64431	3984	2332	6.18	3.62
अलनावार सर्किल	39285	2083	3588	5.3	9.13
धारवाड सर्किल	24201	1766	3416	7.3	14.12
एचडीएमसी वार्ड सं. 1	15771	1204	670	7.63	4.25
एचडीएमसी वार्ड सं. 3	12481	1194	1594	9.57	12.53
<b>कुल</b>	<b>247213</b>	<b>15477</b>	<b>16161</b>	<b>6.26</b>	<b>6.54</b>

**नवलगुन्ड**

निर्वाचन क्षेत्र	कुल जनसंख्या	अ.जा. जनसंख्या	अ.ज.जा. जनसंख्या	अ.जा. प्रतिशत	अ.ज.जा. प्रतिशत
नवलगुन्ड तालुक	176648	14477	8720	8.2	4.94
शिरागुप्पी सर्किल	65767	3554	2276	5.4	3.46
	<b>242415</b>	<b>18031</b>	<b>10996</b>	<b>7.44</b>	<b>4.54</b>

**कुन्डगोल**

निर्वाचन क्षेत्र	कुल जनसंख्या	अ.जा. जनसंख्या	अ.ज.जा. जनसंख्या	अ.जा. प्रतिशत	अ.ज.जा. प्रतिशत
कुन्डगोल	157053	13428	10243	8.55	6.52
हुबली सर्किल	2254	397	551	17.61	24.45
छब्बी सर्किल	60359	5146	3357	8.53	5.56
	<b>219666</b>	<b>18971</b>	<b>14151</b>	<b>8.64</b>	<b>6.44</b>

कालघाटगी					
	कुल जनसंख्या	अ.जा. जनसंख्या	अ.ज.जा. जनसंख्या	अ.जा. प्रतिशत	अ.ज.जा. प्रतिशत
कालघाटगी	137016	14796	7272	10.80	5.31
एचडीएमसी वार्ड सं. 35	13860	1189	431	8.58	3.11
एचडीएमसी वार्ड सं. 36	13888	1432	294	10.31	2.12
एचडीएमसी वार्ड सं. 37	17372	851	652	4.90	3.75
एचडीएमसी वार्ड सं. 62	10948	1300	367	11.87	3.35
एचडीएमसी वार्ड सं. 63	14330	616	264	4.30	1.84
एचडीएमसी वार्ड सं. 64	11546	2300	143	19.92	1.24
	218960	22484	9423	10.27	4.30

## उत्तर कन्नड जिला

उत्तर कन्नड जिला के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध  
में परिसीमन आयोग के प्रस्तावित प्रारूप में संशोधन

### येल्लापुर और भाटकल निर्वाचन क्षेत्र

1. येल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र येल्लापुर तालुक (73497), मुन्डगोड तालुक (90738), सिरसी तालुक (भाग) बनवासी सर्किल (43771) और हुलेकल सर्किल (29695) से बना है। इसमें अधिकांश जनसंख्या मुन्डगोड तालुक से है इसलिए इस निर्वाचन क्षेत्र का नाम "येल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर मुन्डगोड निर्वाचन क्षेत्र रखा जाए"।
2. मवीनकुरवा सर्किल का एक अंश भाटकल निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित है। संपूर्ण मवीनकुरवा सर्किल को भाटकल निर्वाचन क्षेत्र में बनाए रखने का अनुरोध है।

Figure 1

संशोधन विभाग के विद्यार्थियों का निषाघन क्षेत्रों में प्रयोग

आचार्य प्रारूप २

प्रभाषित राजस्व के अतिरिक्त, जहाँ जहाँ भी आवश्यक हो, हावेरी के जिले के जमीन के प्रारूप प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित प्रारूप को जिला सभा खण्ड में, हावेरी के जिले के जमीन के प्रारूप प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए प्रस्तावित किया गया है।

1. बिहार के जल संयंत्रों में से एक है।
2. बिहार के जल संयंत्रों में से एक है।
3. बिहार के जल संयंत्रों में से एक है।
4. बिहार के जल संयंत्रों में से एक है।

प्रशासनिक के भीतर जा रहे हैं।

7. **विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन**—विधानसभा खण्ड में शामिल यह अध्यादेश, 1974, के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन विधानसभा खण्डों से सम्बन्धित है।

इस संदर्भ में मानचित्र और निर्धारित सीमा के लिए संश्लेष है। संश्लेष केवल केवल जिला के सम्बन्धित जनसंख्या

हावेरी जिला के विधानसभा खण्ड की कुल जनसंख्या अ.जा. 1,83,300 में जनसंख्या और अ.जा./अ.ज.जा. जनसंख्या के प्रतिशत आपके तत्काल संदर्भ के लिए सलग्न है। वहीं राम सनेबेन्नुर विधानसभा खण्ड का नुसाब दिए गए हैं। ये टिउनहल्ली गांव और सनेबेन्नुर ग्रामीण सनेबेन्नुर विधानसभा खण्ड में शामिल चाहिए और सनेबेन्नुर तालुक के वाईटी होन्नाहल्ली (हल्लापुर) गांव को ब्यादगी स्थानांतरित किया जाना चाहिए। नुकापुर, रामपुर, हल्लाल्ली गांव का ब्यादगी विधानसभा खण्ड में शामिल चाहिए क्योंकि नुकापुर और रामपुर, हनुमानपुर ग्राम पंचायत के हिस्से हैं, हल्लाट्टी, नुकापुर का भाग है। इसी प्रकार सनेबेन्नुर (ग्रामीण), कुसाबहल्ली पंचायत का एक हिस्सा है। कुसापुर, बेनाम का हिस्सा है। ये सुझाव प्रशासनिक सुकाईयों, जिन पर पंचायतों के विभाजन को आधारित किया जाएगा, दिए गए हैं। ये सभी आंकड़े हावेरी जिला के सभी विधानसभा खण्डों की जनसंख्या सूची में दर्शित हैं।

यदि ये सुझाव स्वीकार लिए जाते हैं तो इकाईयों (राइटकों) के संबंध में कोई भी अतिक्रमण नहीं होगा।

## दावन्गोरे जिला

दावन्गोरे जिला के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित  
प्रस्तावित परिसीमन आयोग प्रारूप में संशोधन

### दावन्गोरे दक्षिण तथा उत्तर निर्वाचन क्षेत्र

पूर्व में निर्वाचन आयोग ने, शिरामागोंडानाहल्ली, काकारागोल्ला, कोडिहल्ली, बेथुर, पुटागनाल, कैडाहलु, जावलघट्टा, गिरियापुरा, होसानायकनहल्ली, अवारगोल्ला, चिक्काबुडिहाल, डोड्डावाथी, हालेबाथी, नीलानहल्ली, अगासानकाट्टे, बेलावानुर, तुरचाघट्टा, डांडामुट्टेनाहल्ली, बुल्लापुरा, चन्द्रेनाहल्ली, कादलेबालु, मालगोंडानाहल्ली, देवरहट्टी, बसव्वानहट्टी, ओबाज्जीहल्ली, जडागनहल्ली, कनावागोंडानहल्ली, कोलेनाहल्ली, अनेकोन्डा, रामपुरा, केंचाम्मानाहल्ली, बासापुरा, लिंगडाहल्ली, मुडाहाडाडी, बल्लूर, सिरागनाहल्ली, वाडेराहल्ली, कडाज्जी, मल्लापुरा, नगराकाट्टे कसबा गांव जो कि उत्तर दावन्गोरे में आते हैं, इनको शामिल करते हुए वार्ड सं. 12 और 25 से, वार्ड 1 से 11 और वार्ड 26 से 35 को दक्षिण दावन्गोरे बनाया है। यह भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से और जनसंख्या की समता की दृष्टि से सही नहीं है।

यदि हम वार्ड 1 से 22 को उत्तर दावन्गोरे और कसबा गांवों को शामिल करते हुए वार्ड 23 से 35 को दक्षिण दावन्गोरे के रूप में परिवर्तित करते हैं तो शहरों के लिए नाम दिए जाने में अत्यंत सुविधा होगी और वह भौगोलिक रूप से, सामाजिक न्याय और जनसंख्या की समता के संदर्भ में सही होगा।

टिप्पणी : आपको चन्नागिरी, होन्नाल्ली, हरिहास, मायाकोन्डा और हरपानाहल्ली को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है।

#### जनसंख्या :

##### दावन्गोरे (उत्तर)

वार्ड सं. 1 से 22 = 2,24,834

##### दावन्गोरे (दक्षिण)

वार्ड सं. 23 से 35 = 1,39,689

+ +

कासबा गांव = 84,314

2,24,003

#### कसाबा गांव

शिरामागोंडानाहल्ली, काकारागोल्ला, कोडिहल्ली, बेथुर, पुटागनाल, कैडाहलु, जावलघट्टा, गिरियापुरा, होसानायकनहल्ली, अवारगोल्ला, चिक्काबुडिहाल, डोड्डावाथी, होलेबाथी, नीलानहल्ली, अगासानकाट्टे, बेलावानुर, तुरचाघट्टा, डांडामुट्टेनाहल्ली, बुल्लापुरा, चन्द्रेनाहल्ली, कादलेबालु, मालगोंडानाहल्ली, देवरहट्टी, बसव्वानहट्टी, ओबाज्जीहल्ली, अरासापुरा, नागानुर, बिसिलेरी, जरीकाट्टे, कुक्कुवाड़ा, नागरसनाहल्ली, जडागनहल्ली, कनावागोंडानाहल्ली, कोलेनाहल्ली, अनेकोन्डा, रामपुरा, केनचाम्मानाहल्ली, बासापुरा, लिंगडाहल्ली, मुडाहाडाडी, बाल्लूर, सिरागनाहल्ली, वाडेराहल्ली, कडाज्जी, मल्लापुरा, नागरकाट्टे।

## हावेरी जिला

जनसंख्या	1439116	विद्यमान और प्रस्तावित विधानसभा सीट (स्थान)					
अ.जा.			कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.		
अ.ज.जा.	127163	विद्यमान	6				
		प्रस्तावित	6				
जिला और	239853						
स्वीकृत सीटें	15867-263838						
-या + 10							
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार तहसील/रा.नि.म. और पटवार सर्किल का नाम	जनसंख्या 2001			अ.जा. का प्रतिशत	अ.ज.जा. का प्रतिशत	विचलन का प्रतिशत
		कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.			

82. हानागल	3. हानागल तालुक निर्वाचन क्षेत्र का महायोग	230750	30633	18246			
		230750	30633	18246	13.41	7.91	3.80
83. शिंगांव	1. शिंगांव तालुक 2. सावानुर तालुक (भाग) 1. सावानुर सर्किल सावानुर टी एम सी निर्वाचन क्षेत्र का महायोग	166742	17104	9943			
		48454	6093	4641			
		35563	2913	263			
		250759	26110	14852	10.41	5.92	4.55
84. हावेरी	सावानुर तालुक (भाग) 2. हिट्टिमाट्टुर सर्किल 4. हावेरी (तालुक भाग) 2. करजागी सर्किल हावेरी सर्किल हावेरी टी एम सी निर्वाचन क्षेत्र का महायोग	59868	10960	6473			
		63904	6524	6151			
		55818	5914	5348			
		55913	6467	2919			
		235503	29865	21091	12.68	8.95	
85. ब्यादगी	5. ब्यादगी तालुक 4. हावेरी तालुक (भाग) 3. गुट्टाल सर्किल 7. रानेबेन्नूर तालुक (भाग) 1. रानेबेन्नूर सर्किल (भाग) 00874100 हनुमानपुरा वेदालेरी सर्किल (भाग) नकापुर रागापुर	127944	14452	17164			
		76712	10731	8345			
		2814	456	69			
		1260	417	—			
		1292	1276	—			

	वाई.टी. होन्नाट्टी	1811	316	131		
	योग	4363	2009	131		
	00878500 हुल्लादटी	706	462	158		
	00880800 कुसागुर	1587	333	37		
	00877500 काकोला	4559	425	271		
	00877600 वेंकटपुर	1227	1210	—		
	00877700 कज्जारी	4543	842	858		
	00877800 शिदागनाल	430	15	131		
	00877900 गुड्डागुड्डापुर	4184	829	201		
	00878100 होन्नाट्टी	2874	445	024		
	00878300 कैरे मल्लापुवा	1254	211	071		
	00878400 गुड्डाडा अनवैरी	1362	126	181		
	00878600 कोनाबेवु	1468	333	050		
	00878700 असुन्दी	3560	335	877		
	00878800 हुलिहल्ली	2242	232	0.20		
	00879300 यैरेकुप्पी	1553	288	041		
	00879400 लक्ष्मापुर	133	—	—		
	00879500 सरवोन्दा	1245	206	376		
	00879600 वीरापुर	225	133	—		
	00879700 उक्कुन्डा	2444	99	613		
	00880000 बेनाकानाकोन्डा	3415	449	144		
	00879800					
	जोईसाराहारालाहल्ली	3431	316	325		
	00879800 तिरुमालादेवरा					
	कोप्पा	821	145	081		
	00880100 सुनाकालबिदारी	3376	524	010		
	00880200 गुड्डाडाहोसाहल्ली	1606	139	123		
	00880300 गुड्डाडाबेविनाहल्ली	942	220	068		
	0080400 यादियाला	2546	191	439		
	<b>निर्वाचन क्षेत्र का महायोग</b>	<b>263566</b>	<b>36156</b>	<b>30261</b>	<b>13.71</b>	<b>11.48</b>
<b>86. हीरेकेरूर</b>	6. हीरेकेरूर तालुक	212458	26914	22338		
	<b>निर्वाचन क्षेत्र का महायोग</b>	<b>212458</b>	<b>26914</b>	<b>22338</b>	<b>12.67</b>	<b>10.51 11.42</b>
<b>87. रानेबेन्नुर</b>	7. रानेबेन्नुर तालुक (भाग)					
	2. कुप्पेलुर सर्किल	79218	8888	9771		
	3. मेदलेरी सर्किल	75365	11487	7128		
	1. रानेबेन्नुर सर्किल (भाग)					
	99767899 पद्मावतीपुरा	1908	1906			
	00879100 श्रीनिवासपुरा	2232	2157	9		
	00880500 मगोदा	2284	371	180		
	00880700 देवगोंडानाकट्टी	797	37	116		
	रानेबेन्नुर सी एम सी	89618	4949	2680		
	00878200 येदिटनाहल्ली	842	41	277		
	00879200 रानेबेन्नुर (ग्रामीण)	410	404			
	<b>निर्वाचन क्षेत्र का महायोग</b>	<b>246062</b>	<b>25436</b>	<b>19835</b>	<b>10.33</b>	<b>8.06</b>

## शिमोगा जिला

### शिमोगा जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित प्रस्तावित परिसीमन आयोग प्रारूप में संशोधन

शिमोगा जिले में आठ (8) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। आयोग के द्वारा जारी प्रारूप के बाद, अब हमारा जिला सात निर्वाचन क्षेत्रों के बीच-विभाजित किया जाएगा। जिले की जनसंख्या 16,42,522 है तथा औसत जनसंख्या सीमा 2,11,184 और 2,58,114 के बीच है। 2,11,184 की रजिस्ट्रार की सीमा के लिए जिले के आठ निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं। कम जनसंख्या मात्र 47000 है, अतः इसे भी हमारे उत्तर पूर्वी जिले (मलनाड) के विशेष समझा जा सकता है। प्रारूप में व्यवस्थित किए गए निर्वाचन क्षेत्र अधिक वैज्ञानिक नहीं हैं। इन्हें हमारे प्रस्ताव के अनुसार पुनः विभाजित किया जा सकता है। इन्हें हमारे प्रस्ताव के अनुसार विभाजित किए जाने पर मलनाड तथा ड्राईलैण्ड की संस्कृति तथा निर्वाचन क्षेत्रों के बीच पहुँच आसान बन जाती है। अतः हम निर्वाचन क्षेत्रों का निम्नानुसार पुनः विभाजन प्रस्तावित कर रहे हैं (विवरण तथा मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है)

### प्रस्ताव के लिए कारण

1. नगरीय पुरा को जैसे का तैसा रखा जा सकता है।
2. शहरी क्षेत्र को जैसे का तैसा रखा जा सकता है।
3. शिमोगा ग्रामीण :

#### शिमोगा ग्रामीण का क्षेत्र निम्नानुसार परिवर्तित किया गया है

- क) 4 निर्वाचन क्षेत्र I सर्किल, 5 होलालुर II सर्किल 6 होलेहॉनर III सर्किल को यथावत बनाए रखा गया है।  
ख) 3 निर्वाचन क्षेत्र I सर्किल, 5 होलालुर I सर्किल तथा होलालुर II सर्किल को यथावत बनाए रखा गया है।  
ग) 3 निर्वाचन क्षेत्र I सर्किल को शिमोगा कसबा II सर्किल के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है क्योंकि यह क्षेत्र प्रस्तावित शिमोगा ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों से लगा हुआ है।

#### 4. 112 निर्वाचन क्षेत्र :

- क) 1 निर्वाचन क्षेत्र I सर्किल, 2 कसाबा II सर्किल तथा भद्रावती सी एम सी को यथावत रखा गया है।  
ख) संपूर्ण शिमोगा जिले को सम्मिलित किया गया है क्योंकि यह संपूर्ण क्षेत्र प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्र के अन्य भागों से लगा हुआ है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में है, स्पष्टतः यह घनी आबादी वाला है, अतः कुल योग एक निर्वाचन क्षेत्र है।

#### 5. 113 निर्वाचन क्षेत्र :

प्रस्तावित शिमोगा निर्वाचन क्षेत्र एक शहरी निर्वाचन क्षेत्र है। अतः 1 कसबा I सर्किल सम्मिलित किया गया है तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र II सर्किल निर्वाचन क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित किया गया है क्योंकि यह कसबा I सर्किल से अलग लगा हुआ है।

**6.114 थिरथाहल्ली**

क) थिरथाहल्ली तालुक को यथावत रखा गया है।

ख) होसानगर तालुक I हुमचा सर्किल का भाग तथा 2 नागर सर्किल को शिमोगा तालुक (भाग) 4 निडिगे II सर्किल 7 हरनाहल्ली सर्किल तथा 8 कुमसी सर्किल के स्थान पर सम्मिलित किया गया है क्योंकि थिरथाहल्ली तालुक पश्चिमी 9 हाट में स्थित एक मलनाड क्षेत्र है। थिरथाहल्ली की संस्कृति निडिगे, हरनाहल्ली तथा कुमसी से अत्यधिक भिन्न है। प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्र भी अधिक लंबा है। यह लगभग 150 कि.मी. लंबा है। इसमें गतिशीलता बहुत कठिन होगी यदि इसे जैसे का तैसा रखा जाता है। अतः नया प्रस्ताव है।

**7.117 सागर**

सागर तालुक को यथावत बनाए रखा गया है।

होसानगर तालुक (भाग) 1. कसाबा सर्किल तथा 2. करेहल्ली सर्किल को यथावत बनाए रखा गया है। होसानगर तालुक, हुमचा सर्किल तथा नागर सर्किल के अन्य भागों को थिरथाहल्ली निर्वाचन-क्षेत्र में सम्मिलित करना प्रस्तावित है। अतः जनसंख्या में और कमी के लिए यह प्रस्तावित किया गया है कि 6 शिमोगा तालुक (भाग) 8 कुमसी सर्किल तथा 7 हरनाहल्ली सर्किल सम्मिलित किए जायें। सागर तालुक क्षेत्र का 1/3 भाग सारावती पावर प्रोजेक्ट में मिला लिया गया है। अतः जनसंख्या भी कम है तथा इस जिले का क्षेत्र जनसंख्या औसत को प्राप्त करने के लिए इस निर्वाचन क्षेत्र में मिला लिया जाना चाहिए। स्पष्टतः निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़ा तथा लंबा है तथा तीन तालुकों में फैला हुआ है।

शिमोगा ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से तीन गांव हटाए जाने हैं

परिसीमन अधिनियम 2002— प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए औसत राज्य जनसंख्या 2,59,534 के औसत पर स्वीकृत है 2,35,940 है जो 2001 की जनसंख्या के अनुसार 212,346 के बीच स्वीकृत औसत पर है।

अब 2001 के अनुसार शिमोगा जिले की जनसंख्या 16,42,545 है। जिले का औसत 2,34,649 है परंतु जिले का औसत 2,11,184 से 2,58,114 के बीच है।

निम्नलिखित शिमोगा ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रस्तावित अधिसूचना में भद्रावती के तीन स्थानों को हटाया जाना है अर्थात्

क्रम सं.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार तहसील/पीसी का नाम	2001 की जनसंख्या		
			कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.
01	शिमोगा ग्रामीण	01283400—कागेकोडामागे	2158	279	9
		01283500—बाबाली (पंचायत केन्द्र)	1121	112	0
	(डोड्डेरी पंचायत)	01283800—बन्दीगुड्डा	284	39	25
		कुल	3563	430	34
		महायोग 3563+430+34 =			

अब प्रस्तावित जनसंख्या = 2,25,086 - 4,027 = 2,21,059

फिर भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ उक्त पंचायत तथा जनसंख्या के आधार पर पुनः खींची जानी होगी। इन तीन स्थानों के हटाए जाने से जनसंख्या के स्वीकृत औसत के अनुसार औसत प्रभावित नहीं होगा। जिले की जनसंख्या 2,11,184 हटाए जाने के बाद निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 2,21,059 होगी। उक्त हटाए गए तीन स्थानों को सम्मिलित किया जाना होगा।

हटाए जायेंगे। उक्त तीन ग्रामों को शिमोगा ग्रामीण निर्वाचन-क्षेत्र को भद्रावती निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित करना तथा साथ ही साथ भद्रावती नगर के मुख्यालय से निकट (20 कि.मी.) तथा अन्य सभी प्रशासनिक सुविधाएँ तथा जनता के लिए सहायक है अतः इसे भद्रावती के निर्वाचन-क्षेत्र में सम्मिलित किया जायेगा। 2001 की जनसंख्या 4027 है।

जनसंख्या के आधार पर ग्रामों में उक्त परिवर्तन स्वीकृत जनसंख्या औसत तथा अन्य निर्वाचन क्षेत्र पर भी कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

क्रम सं.	पंचायत का नाम	ग्राम कोड	ग्राम का नाम
01.	कागकोदामगे पंचायत	01283400	1. कागकोदामगे I
			2. कागकोदामगे II
		01283500	3. बाबाली
			4. थिपलापुरा
02.	डोक्डरे पंचायत		1. डोक्डरे
			2. बेल्लिगरे
		01285800	3. बन्डीगुड्डा
			4. गंगोरु

### शिमोगा जिला के विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रस्तावित योजना

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रम सं. और नाम	निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार महसील / रा.नि.म. / पटवार सर्किल का नाम	2001 की जनसंख्या			अ.जा. का प्रतिशत	अ.ज.जा. का प्रतिशत	विचलन का प्रतिशत
		कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.			
111. शिमोगा ग्रामीण	भद्रावती तालुक (भाग)						
	होलेहोन्नुर I सर्किल	28095	4193	2168			
	होलेहोन्नुर II सर्किल	21342	5430	969			
	होलेहोन्नुर III सर्किल	29377	8802	3084			
	शिमोगा तालुक (भाग)						
	निडिगे I सर्किल	63107	14426	2997			
	होलालुर I सर्किल	31363	8684	2580			
	होलालुर II सर्किल	17405	4594	500			
	कसाबा II सर्किल	28049	5720	1376			
	निर्वाचन क्षेत्र का महायोग	2,18,738	51,849	13,666			

112. भद्रावती	7 भद्रावती (भाग)			
	1 कसाबा I सर्किल	27315	4075	361
	2 कसाबा II सर्किल	29676	8388	451
	3 कुडलीगेरे सर्किल	41942	11197	1391
	भद्रावती सी एम सी	160662	25664	4272
	निर्वाचन क्षेत्र का महायोग	2,59,595	49,324	6,475
113. शिमोगा	6 शिमोगा तालुक (भाग)			
	1 कसाबा I सर्किल	224106	24746	5794
	4 निडिगे II सर्किल	24507	5677	1128
	निर्वाचन क्षेत्र का महायोग	2,48,613	30,423	6,922
114. थिरथाहल्ली	5 थिरथाहल्ली तालुक	143207	13779	2326
	4 होसानागर तालुक (भाग)			
	हुमाचा सर्किल			
	नागरा सर्किल	70603	3807	1547
	निर्वाचन क्षेत्र का महायोग	2,13,810	17,576	3,873
115. शिकारीपुरा	3 शिकारीपुर तालुक	213590	47591	11988
	निर्वाचन क्षेत्र का महायोग	2,13,590	47,591	11,988
116. सोराब	2 सोराब तालुक	185572	35073	6785
	1 सागर तालुक (भाग)			
	2 कसाबा सर्किल	59192	4848	565
	निर्वाचन क्षेत्र का महायोग	2,44,764	39,921	7,350
112. सागर	1 सागर तालुक (भाग)			
	3 अविनाहल्ली सर्किल	36532	3041	537
	4 तालागुप्पा सर्किल	30195	2214	831
	5 भरांगी सर्किल	21590	2594	1216
	6 कारूर सर्किल	14452	863	421
	1 आनंदपुरम सर्किल	39034	5748	401
	4 होसानगर तालुक (भाग)			
	करेहल्ली सर्किल			
	कसाबा सर्किल	44357	7266	250
	6 शिमोगा तालुक (भाग)			
	7 हरनाहल्ली सर्किल	36468	8917	1770
	8 कुमसी सर्किल	20187	2248	1201
	निर्वाचन क्षेत्र का महायोग	2,42,8215	32,891	6,627

## चिकमगलूर जिला

चिकमगलूर जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित  
प्रस्तावित परिसीमन आयोग प्रारूप में संशोधन

### श्रंगेरी निर्वाचन क्षेत्र

- श्रंगेरी निर्वाचन क्षेत्र से श्रंगेरी, कोप्पा तथा नरसिम्हाराजापुरा तालुक पहले से ही पूर्णतः जुड़े हुए हैं अतः भौगोलिक दृष्टि से यह निर्वाचन क्षेत्र पहले ही बहुत बड़ा है, अब पुनः जगारा हुबली को जोड़कर इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रबंध करना अत्यधिक कठिन होगा तथा दूरी के कारण यह आम जनता के लिए असुविधाजनक होगा अतः जगारा हुबली को चिकमगलूर निर्वाचन क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है जो कि इस निर्वाचन क्षेत्र तथा क्षेत्र के हिसाब से सुगठित है तथा इसकी जनसंख्या पूर्णतः सीमा के भीतर है।

क्रम सं.		हमारा प्रस्ताव	परिसीमन के अनुसार	चिकमगलूर	हमारा प्रस्ताव	परिसीमन के अनुसार
				6. चिकमगलूर तालुक (भाग)		
1.	श्रंगेरी	36930	36930	8. लक्या सर्किल	41001	41001
2.	कोप्पा	87780	87780	1. कसाबा सर्किल	36957	36957
3.	नरसिम्हाराजापुरा तालुक	65639	65639	चिकमगलूर सी एम सी	101251	101251
6	चिकमगलूर तालुक (भाग)			5. काडर तालुक (भाग)		
4	कान्हाण सर्किल	16146	16146	5. सकरे पटना सर्किल	52387	52387
5.	जगारा सर्किल		17079	5. जगारा सर्किल	17079	
	निर्वाचन क्षेत्र का महायोग	206495	223574		248675	231596

जिला निर्वाचन सीमा 205363 से 250999

परिसीमन अनुसार: श्रंगेरी : 206495

चिकमगलूर : 248675

## प्रस्ताव सं. 147, बंगारपेट, (अ.जा.) निर्वाचन-क्षेत्र

निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार तहसील का नाम	2001 की जनसंख्या		
	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा
बंगारपेट तालुक (भाग)			
कसाबा सर्किल	53801	20314	901
कामसमुद्र सर्किल	25577	6227	1098
बूदी कोटे सर्किल	31256	7272	2154
बंगारपेट टी.एम.सी.	38703	8051	296
राबर्टसन पेट सर्किल भाग			
मनचानाहल्ली	510	58	89
अलगानाहल्ली	469	47	57
चलगानाहल्ली	560	28	32
मावाहल्ली	1060	428	20
कामन्दाहल्ली	393	58	20
वादन्दाहल्ली	433	198	
भित्ता मालाहल्ली	476	56	16
पिचागुत्राहल्ली	213	57	
हुनुकुन्दा	1221	259	142
गनचारापुरा-बी			
मादामुष्टानाहल्ली	1183	258	148
डोड्डाराहल्ली	802	261	199
कुरुबाराहल्ली	298	43	215
डी.के. हल्ली	2766	557	382
कावारागनाहल्ली	822	467	33
धाम्मेनाहल्ली	600	330	
अजाप्पाल्ली	615	369	
मलायानगुरकी	665	274	
केसरानाहल्ली	1233	290	14
चिक्काकारिमानाहल्ली	320	131	
डोड्डाचिन्नापल्ली	1007	199	14
इयमारासापुरा	294	22	
डोड्डावालागामाडी	1283	373	
बूरागामाकालाहल्ली	323	68	
बाइरागानाहल्ली	340	339	
कृष्णराजापुरा	911	413	07
गट्टाकामादेनाहल्ली	2938	1131	
गट्टारागिदाहल्ली	309	291	17
पेड्डापल्ली	1276	657	99

चिन्नाकोटा ओ.जी. वार्ड 37	3674	908	04
दसराहोसाहल्ली ओ.जी. वार्ड 39	3262	1208	178
डी.के. हल्ली ओ.जी. वार्ड 40	3410	845	17
01	02	03	04
येरानागनहल्ली	494	56	54
चेन्नापल्ली	663	258	.
<b>बेथामगला सर्किल भाग</b>			
थामबारलाहल्ली	232	71	.
जयमगला	636	306	.
माडिडगायकनाहल्ली	502	40	.
चिन्नापनाहल्ली	104	88	.
कालिकुप्पा	796	456	.
कोगिलाहल्ली	274	39	.
नाथा	256	55	.
थिम्मासान्द्रा	386	184	.
गोल्लाहल्ली	879	617	.
आई. मिट्टुर	711	228	30
आई. अमानिकेरे बी			.
इयापल्ली	406	323	.
नल्लुर	687	223	.
अनकाथाट्टी हल्ली	532	92	.
चिगारापुरा	289	137	.
के. जी. कोटे	781	188	196
रेड्डी हल्ली	393	73	.
पेडामपल्ली	291	29	22
थामपल्ली बी			.
काम्मासान्द्रा	1178	223	199
चिमालाबान्दाहल्ली	280	117	106
कातामपल्ली बी			.
नागाशेट्टीहल्ली	560	53	83
कागिलाहल्ली	71	20	19
गोरलाचिन्नापल्ली	191	40	35
बोम्मान्दाहल्ली	311	63	61
बाइतारायनाहल्ली	955	88	66
<b>कोलार तालुक भाग</b>			
हुट्टुर सर्किल भाग	23716	8812	432
(हुट्टुर जी.पी. ग्राम को छोड़कर)			.
<b>योग</b>	<b>219577</b>	<b>66367</b>	<b>7455</b>

**विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र का पुनर्गठन – विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र  
सं. 146, 147, 148 और 149 के सन्दर्भ में प्रस्ताव**

विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	विधानसभा खण्डों का प्रस्तावित पुनर्गठन				जनसंख्या	विधानसभा खण्डों का प्रस्तावित पुनर्गठन		
	जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा. का प्रतिशत		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा. का प्रतिशत
146 राबर्टसनपेट (अ.जा.)	238484	101145	2883	42.41	225599	97366	1709	43.15
147 बंगारपेट (अ.जा.)	243443	70897	8735	29.12	219577	66367	7455	30.22
148 कोलार	227478	44700	8444	19.65	233688	46118	8444	73
149 मालुर	207009	50797	18988	24.54	237573	55964	21013	23.55

**प्रस्ताव सं. 147, बंगारपेट, (अ.जा.) निर्वाचन-क्षेत्र  
निकाले गए गांव**

हुट्टुर सर्किल भाग			
हुट्टुर जी.पी. गांव	1164	239	—
हुट्टुर	—	—	—
गुट्टलुर	—	—	—
होल्लाली	1008	126	—
होसुर	—	—	—
विट्टापानाहल्ली	1052	249	—
नेरनाहल्ली	449	132	—
रामासान्द्रा	585	309	—
बेलागनाहल्ली	762	217	—
बोम्माबुसापुरा	—	—	—
येनाडाहल्ली	531	104	—
थाम्बिहल्ली	659	52	—
एम. थाम्बिहल्ली	2	—	—
वाक्कालेरी सर्किल	30564	5167	2025
<b>योग</b>	<b>36774</b>	<b>6585</b>	<b>2025</b>

**कोलार जिला**

कोलार जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित  
प्रस्तावित परिसीमन आयोग प्रारूप में संशोधन

**बंगारपेट (अ.जा.) निर्वाचन क्षेत्र**

1. वोक्कालेरी हुबली, जो कि बंगलौर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित है, कोलार तालुक में आता है तथा यह मालुर नगर जाते हुए रास्ते पर पड़ता है। यदि इस हुबली सर्किल को बंगलौर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है तो आम जनता को बंगारपेट (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पहुंचने के लिए कोलार शहर होते हुए 30 कि.

- की यात्रा करने की असुविधा का सामना करना पड़ेगा। यदि इस वोक्कालेरी हुबली सर्किल को मालुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए क्योंकि यह केवल 12 कि.मी. दूर है। इसकी वास्तव तस्वीर संलग्न मानचित्र में दर्शाई गई है। तब वोक्कालेरी सर्किल को सम्मिलित करने के बाद मालुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या 2.37 लाख होगी।
2. हुथुर सर्किल को बंगारपेट (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। हुथुर सर्किल राष्ट्रीय राजमार्ग 4 (बंगलूर-चेन्नई रोड) पर स्थित है। यह कोलार शहर से मात्र 8 कि. मी. है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 हुथुर होबली के एक भाग को विभाजित करता है अर्थात् हुथुर की ग्राम पंचायत का संपूर्ण क्षेत्र जो कोला शहर से लगा हुआ है को जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कोलार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो कोलार की जनसंख्या 2.33 लाख होगी।
3. गंगामंगला सर्किल का भाग अर्थात् टी गोल्लाहल्ली तथा कम्मासन्द्रा ग्राम पंचायतों को नंगारपेट (अ.जा.) में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है क्योंकि वे बंगारपेट (अ.जा.) के बहुत अधिक पास हैं। इन दोनों ग्राम पंचायतों को आम जनता के हितों के लिए रॉबर्टसनपेट (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से हटाना होगा।

उक्त प्रस्ताव का ध्यान में रखते हुए विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 146, 147, 148 तथा 149 की जनसंख्या इस प्रस्ताव के अन्तर्गत वितरण के अनुसार निम्नानुसार होगी।

1.	146-रॉबर्टसनपेट (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	2.25 लाख
2.	147-बंगारपेट (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	2.19 लाख
3.	148-कोलार वि.स.नि.क्षे.	2.33 लाख
4.	149-मालुर वि.स.नि.क्षे.	2.37 लाख

उक्त प्रस्ताव आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए दाखिल किया गया है तथा सुचारु प्रशासन तथा सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों के संचालन की दृष्टि से भी सुविधाजनक होगा। यह अनुरोध है कि इस प्रस्ताव पर आम जनता के हितों को ध्यान रखकर विचार करें तथा अनुग्रहित करें।

## बंगलौर शहरी जिला

बंगलौर शहरी जिला के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित  
प्रस्तावित परिसीमन आयोग प्रारूप में संशोधन

यह प्रस्ताव बंगलौर जिला में विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन के पुनर्संरक्षण (पुनर्सिमांकन) के लिए है।

बंगलौर पूर्व के.आर. पुरा निर्वाचन-क्षेत्रों को, प्रशासनिक रूप से सुगम और व्यावहारिक बनाने के लिए पुनर्सिमांकित करने की आवश्यकता है।

1. निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन में के. आर. पुरम सी एम सी के वार्ड सं. 20 से 29, के. आर. पुरम निर्वाचन-क्षेत्र में हैं; जिन्हें बंगलौर पूर्व निर्वाचन-क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए था।

2. जबकि, के. आर. पुरम सर्किल, बंगलोर पूर्व में शामिल किया गया है जिसे के. आर. पुरम निर्वाचन-क्षेत्र में होना चाहिए था। के. आर. पुरम सर्किल और बंगलोर पूर्व निर्वाचन-क्षेत्र के बीच कोई सम्पर्क नहीं है क्योंकि के. आर. पुरम सी एम सी के वार्ड सं. 20 से 29, के. आर. पुरम सर्किल और वास्तविक बंगलोर पूर्व निर्वाचन-क्षेत्र के बीच स्थित हैं। अतः इस विसंगति को दूर करने के लिए के. आर. पुरा सर्किल (हागादुर ओ जी को छोड़कर) को के. आर. पुरा निर्वाचन-क्षेत्र में शामिल करना और के. आर. पुरम सी एम सी के वार्ड सं. 20 से 29 को बंगलोर पूर्व निर्वाचन-क्षेत्र में शामिल करना बुद्धिमतापूर्ण होगा।
3. अन्य परिवर्तन जो किया जाना था वह यह था कि महादेवपुरा सी एम सी के वार्ड सं. 12, 13 और 15 को के. आर. पुरा विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र में रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र के. आर. पुरा निर्वाचन-क्षेत्र के पास में स्थित हैं, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग के एक तरफ स्थित हैं जो कि के. आर. पुरा और बंगलोर पूर्व विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों को विभाजित करता है।

वार्ड का नाम	के. आर. पुरा - 151					
	कुल जनसंख्या	अ.जा. की जनसंख्या	अ.ज.जा. की जनसंख्या			
1 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 1	3289	283	119			
2 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 2	3208	169	37			
3 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 3	4116	706	130			
4 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 4	3799	255	76			
5 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 5	2842	312	83			
6 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 6	4364	1047	36			
7 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 7	4482	678	72			
8 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 8	5394	1185	103			
9 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 9	7743	1025	127			
10 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 10	7425	1472	286			
11 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 11	4128	1107	62			
12 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 12	4542	191	16			
13 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 13	3401	568	11	249388	233469	15919
14 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 14	4980	1996	78			
15 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 15	5156	1124	135			
16 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 16	6562	206	59			
17 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 17	9725	540	142			
18 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 18	2483	282	0			
19 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 19	5319	353	118			
30 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 30	6080	807	27			
31 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 31	10302	2179	39			
32 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 32	5235	1076	44			
33 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 33	5332	931	3			
34 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 34	2999	921	63			

35 कृष्णराजपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 35	3439	769	42			
बिदराहली सर्किल	66456	19038	894			
के. आर. पुरा सर्किल	41145	5341	444			
हागदुर ओ.जी. 32 को छोड़कर						
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 12	7201	1249	85			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 13	5198	1698	171			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 15	3043	775	23			
	249388	48283	3525	19.3606	1.41346	6.818464

### बंगलौर पूर्व - 174

नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा. की जनसंख्या	अ.ज.जा. की जनसंख्या			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 1	5842	483	83			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 2	5264	428	83			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 3	4368	716	49			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 4	6974	1396	62			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 5	3524	382	6			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 6	3257	450	8			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 7	3736	1708	29			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 8	2564	200	0			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 9	3451	1059	8			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 10	2260	356	32			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 11	2565	410	62			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 14	2752	666	38			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 16	5065	1358	19			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 17	2879	124	4			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 18	3346	1133	77			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 19	6541	636	17			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 20	4430	330	44			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 21	6938	1252	132	249332	233469	15863
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 22	2443	141	16			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 23	5767	1038	40			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 24	5431	1620	99			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 25	4282	531	23			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 26	3715	297	41			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 27	4541	1452	92			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 28	2366	270	67			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 29	7737	1092	91			
महादेवपुरा (सीएमसी)-वार्ड सं. 30	4887	733	25			

महादेवपुरा (सीएमसी)—वार्ड सं. 31	3427	1025	38		
हागदुर ओ.जी.	12562	1702	78		
चेनासान्द्रा ओ.जी.	5867	819	91		
वारथुर सर्किल	50686	15397	262		
कृष्णराजपुरा (सीएमसी)—वार्ड सं. 20	8336	1704	70		
कृष्णराजपुरा (सीएमसी)—वार्ड सं. 21	9282	493	156		
कृष्णराजपुरा (सीएमसी)—वार्ड सं. 22	11084	841	61		
कृष्णराजपुरा (सीएमसी)—वार्ड सं. 23	5506	346	45		
कृष्णराजपुरा (सीएमसी)—वार्ड सं. 24	6843	3003	52		
कृष्णराजपुरा (सीएमसी)—वार्ड सं. 25	1481	151	29		
कृष्णराजपुरा (सीएमसी)—वार्ड सं. 26	3642	784	74		
कृष्णराजपुरा (सीएमसी)—वार्ड सं. 27	2380	491	88		
कृष्णराजपुरा (सीएमसी)—वार्ड सं. 28	2708	542	54		
कृष्णराजपुरा (सीएमसी)—वार्ड सं. 29	8603	1312	36		
	249332	48871	2381	19.601	0.955 6.7945

## बंगलौर शहरी

बंगलौर जिला के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित  
प्रस्तावित परिसीमन आयोग प्रारूप में संशोधन

### यशवंतपुरा और दसराहल्ली निर्वाचन-क्षेत्र

1. यशवंतपुरा गांव, पूर्वकाल में बंगलौर उत्तर तालुक में होबली मुख्यालयों में से एक था। 1962 में होबली मुख्यालय के रूप में साथ के अन्य गांवों के साथ, यशवंतपुर गांव बंगलौर शहर में शामिल किया गया था।
2. 1995 में पुनः यशवंतपुरा होबली के शेष मुख्य गांवों में से लगभग 13 बी एम पी वार्डों को बंगलौर शहर के विद्यमान 100 वार्डों में शामिल किया गया था।
3. तुरंत बाद, पुनः 1995 में ही, यशवंतपुरा होबली शेष के बड़े ग्रामों को साथ में मिलाकर (क) दसराहल्ली सी एम सी के 35 वार्ड तथा (ख) पट्टामागेरे सी एम सी के 13 वार्ड बनाए गए।

यद्यपि वर्तमान में ग्राम पंचायतों के अधीन आने वाले ग्रामों की संख्या केवल 10 प्रतिशत है। उक्त 20 बंगलौर निगम वार्ड तथा 2 सी एम सी के 48 वार्ड यशवंतपुरा होबली के ग्रामों में से बनाए गए हैं। बंगलौर शहर में इसके विलय के 34 वर्षों बाद भी, अब तक यशवंत पुरा का मुख्यालय होबली रहा है। सभी अन्य होबली मुख्यालयों की तरह, यहां तक कि एक भी पब्लिक रिलेशन लोअर ऑफिसर का मुख्यालय यशवंतपुरा में नहीं है। यशवंत पुरा के आस पास के क्षेत्रों को छोड़कर तथा इससे ग्राम पंचायतों के अधीन आने वाले दूर दराज के ग्रामों को जोड़ना अनुचित तथा अनचाहा है।

दिन तक, प्रस्तावित यशवंतपुरा तथा दसराहल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का संपूर्ण क्षेत्र या होबली के अंतर्गत आता है। ऐसा मानना कि होबली का गठन केवल ग्राम पंचायतों के आने वाले ग्रामों से हुआ है तथा न कि निगमों तथा सी एम सी क्षेत्रों के अन्य ग्रामों से, यद्यपि वे भी अंतर्गत आते हैं, सही नहीं है।

यह क्षेत्र के साथ भौगोलिक अस्तित्व :-

किसी क्षेत्र का एक क्षेत्र/वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र के रूप में सीमा निर्धारण हो चुका है, उसे के साथ भौगोलिक अस्तित्व होना चाहिए। मानचित्र-I में जिसे प्रस्तावित कहा गया है भौगोलिक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उसके तीन (3) भाग (खंड) 9 (1) के रूप में चिह्नित हैं। इनमें से इसमें कोई सुगठितता नहीं है।

अब के प्रस्तावित (क) यशवंतपुरा तथा (ख) दसराहल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए यशवंतपुरा होबली में हैं, कृपया उन्हें जग हिल तथा सुभेक को देखते हुए मानचित्र-II पर दर्शाएं।

जनसंख्या का विवरण निम्नानुसार है :-

		विद्यमान मानचित्र - I			हमारे संशोधन मानचित्र - I		
1.		यशपुरा					
	क)	सार्किल अर्थात्					
	5	पंचायतें	72,013	क)	बगलौर (नगर निगम) वार्ड सं. 1 से 3 तथा 11	1,45,842	
	ख)	दसराहल्ली सी एम सी वार्ड सं. 1	15,602	ख)	दसराहल्ली सी एम सी वार्ड सं. 24 से 31 तथा 34 व 35	1,12,893	
	ग)	बगलौर (नगर निगम) वार्ड सं. 1 से 11	1,45,842				
		कुल	2,33,457		कुल	2,58,735	

2.		दसराहल्ली					
	क)	दसराहल्ली सी एम सी वार्ड सं. 4	2,49,338	क)	दसराहल्ली सी एम सी वार्ड सं. 1 से 23	1,52,047	
				ख)	यशवंतपुरा होबली की 5 ग्राम पंचायतें	72,013	
		कुल	2,49,338		कुल	2,24,060	

हम अनुरोध है कि मानचित्र-II के संशोधनों पर विचार करें, जो कि बहुत सुविधाजनक तथा सुसम्बद्ध है।

## बंगलौर सिटी

बंगलौर सिटी के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित  
प्रस्तावित परिसीमन आयोग प्रारूप में संशोधन

### बंगलौर सिटी निर्वाचन-क्षेत्र

परिसीमन आयोग के द्वारा प्रस्तावित परिसीमन गैरवैज्ञानिक, गैर भौगोलिक तथा जनसंख्या की विषमता भी है। अ.जा. तथा अ.ज.जा. के लिए आरक्षण अन्यायपूर्ण है। इन श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षण जनसंख्या के अनुसार नहीं है।

इस संबंध में हम परिसीमन में संशोधन का सुझाव देते हैं जैसा कि संलग्न किया गया है।

### भारतीय जनता पार्टी से परिसीमन प्रस्ताव

बंगलौर शहर - 1				
वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
10	महालक्ष्मीपुरा	34702	5163	341
12	नन्दीनीलाउट	43445	4814	655
13	गलेयारा बलगा	38743	1022	309
16	कमलानगर	61314	7301	625
17	वरुशाभावाथीनगर	29275	546	279
18	कामाक्षीपाल्या	25742	2004	321
	योग	233221	20850	2530
बंगलौर शहर - 4				
वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
89	कचराकानाहल्ली	32889	3009	306
93	देवराजीवनाहल्ली	51578	8963	102
94	काडूगोन्डानाहल्ली	60896	7928	159
95	कवालबाईरासन्दा	84461	13111	391
	योग	229824	33011	958

## बंगलौर शहर — 5

वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
63	सी.वी. रमन नगर	50256	3960	881
64	बेन्नीगनाहल्ली	31985	7346	947
65	मारुतिसेवानगर	39586	8633	109
66	लैंगाराजपुरा	56530	7796	413
67	बसवाडी	26103	2678	263
	<b>योग</b>	<b>204460</b>	<b>30413</b>	<b>2613</b>

## बंगलौर शहर — 6

वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
68	नीलसन्द्रा	52079	6678	2161
69	अस्टिन टाऊन	39790	15542	390
70	डोम्मालूर	44357	6333	385
71	एयर पोर्ट	42288	8351	239
72	जीवनबीमानगर	39820	5431	289
73	होयसलानगर	33359	10497	210
	<b>योग</b>	<b>251693</b>	<b>52832</b>	<b>3674</b>

## बंगलौर शहर — 7

वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
74	शान्तिनगर	34682	4126	668
75	जोगुपाल्या	36035	6194	611
76	रिचमंड टाऊन	36465	4975	126
77	समपनगिराम नगर	32451	1372	296
78	उलसूर	39669	6638	871
79	सरवागनानगर	34943	12221	261
	<b>योग</b>	<b>214245</b>	<b>35526</b>	<b>2833</b>

## बंगलौर शहर — 8

वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
80	वसन्तनगर	37028	4639	750
81	शिवाजीनगर	34988	1420	513
82	नारदीनगर	35681	2189	186
83	अन्नापुरम	43432	13347	173
84	कैफ़ीनगर	42078	7188	138
85	भगवत	39663	7305	131
	<b>योग</b>	<b>232870</b>	<b>36088</b>	<b>1891</b>

## बंगलौर शहर - 9

वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
6	दत्तात्रेय	38723	4714	261
25	रामचन्द्रपुरा	35411	4343	272
47	धर्मराय स्वामी टेम्पल	32938	2036	108
27	गांधीनगर	32809	6296	158
28	चिकपेट	31851	219	89
29	काटनपेट	40704	2765	305
31	बिन्नीपेट	28069	2466	622
	योग	240505	22839	1815

## बंगलौर शहर - 10

वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
14	नागपुरा	36918	2622	353
15	राजाजीनगर	37005	2234	269
19	बासवेश्वर नगर	23228	1207	206
20	शिवनगर	28121	680	229
22	श्रीराम मंदिर	41471	1087	327
23	प्रकाश नगर	35465	1994	140
24	भाश्याम नगर	34595	10651	170
	योग	236803	20475	1694

## बंगलौर शहर - 12

वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
26	सेवाशर्मा	37507	12398	516
32	केम्पापुरा आगराहरा	40047	1354	1078
33	विजयनगर	40867	1534	282
34	आर.पी.सी. लेआउट	44368	4668	460
40	अट्टीगुप्पे	25619	1288	231
42	बापूजी नगर	43223	3314	481
	योग	231631	24556	3048

## बंगलौर शहर - 13

वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
30	के. आर. मार्केट	39521	17616	344
31	गली अन्जैया	51746	2790	512
32	पडरायनापुरा	59933	4108	447
33	जे. जे. नगर	43892	12594	281
34	आजाद नगर	40821	2630	825
	योग	235913	39738	2409

## बंगलौर शहर - 14

वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
47	चामराजपेट	40725	4151	483
48	सुदामा नगर	42919	10099	346
49	के. जी. नगर	41075	2162	352
50	वी. वी. पुरम	31893	1676	78
51	मवाली	39505	4037	191
52	एच. जी. नगर	53934	6312	394
	योग	250051	28437	1844

## बंगलौर शहर - 16

वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
55	पद्मानाभनगर	112407	5371	1041
56	गणेश मंदिर	87307	5438	1084
57	येदीयुर	34613	1448	134
	योग	234327	12257	2259

## बंगलौर शहर - 17

वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
57	जे. पी. नगर	63906	4153	750
58	जयनगर	40430	2103	198
60	पट्टाभीरामनगर	39308	4194	119
63	लक्कासन्द्रा	48979	6610	669
65	बी टी एम लेआउट	51545	3195	383
	योग	244168	20255	2119

बंगलौर शहर - 18				
वार्ड सं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
64	गुराप्यानपल्या	63111	5497	252
66	मडिववाला	65820	6499	1107
67	कोरामनगाला	45929	6816	542
68	एगीपुरा	40986	5487	520
	योग	215846	24299	2421

## हसन जिला

### हसन जिला के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बंधित प्रस्तावित परिसीमन आयोग प्रारूप में संशोधन

- (1) हसन निर्वाचन-क्षेत्र : जैसा कि आयोग के द्वारा सुझाव दिया गया था, होलेनरसीपुर तालुक से हल्लीमैसूर सर्किल को हटाकर, हसन तालुक के डुड्डा सर्किल को होलेनरसीपुर में शामिल किया गया है। डुड्डा सर्किल, अपने हसन राजस्व तालुक से भौगोलिक रूप से निकट है। इसलिए डुड्डा सर्किल को, होलेनरसीपुर के स्थान पर हसन निर्वाचन-क्षेत्र में शामिल किया जाएगा।
- (2) होलेनरसीपुर निर्वाचन-क्षेत्र : जैसा कि आयोग के द्वारा सुझाव दिया गया था, होलेनरसीपुर राजस्व तालुक को अनावश्यक रूप से, हल्लीमैसूर सर्किल को हटाकर और इसे एक अन्य अरकलगुडु तालुक में जोड़कर, विभाजित कर दिया गया है, और यह भौगोलिक रूप से सही नहीं है। हल्लीमैसूर सर्किल, होलेनरसीपुर शहर से केवल 12 कि.मी. दूर है जबकि यह अरकलगुडु से 40 कि.मी. दूर है। अतः हसन तालुक के डुड्डा सर्किल को हटाकर, हल्लीमैसूर सर्किल को होलेनरसीपुर निर्वाचन क्षेत्र में ही रहना होगा।
- (3) अरकलगुडु निर्वाचन-क्षेत्र : जैसा कि आयोग के द्वारा सुझाव दिया गया था, अलुर-सकलेशपुर निर्वाचन-क्षेत्र से हटाकर, कट्टाया सर्किल जो कि अरकलगुडु निर्वाचन-क्षेत्र से केवल 15 कि.मी. दूर है, इसके स्थान पर होलेनरसीपुर तालुक के हल्लीमैसूर सर्किल को अरकलगुडु निर्वाचन-क्षेत्र में जोड़ा गया है, जो कि इससे 45 कि.मी. दूर है।
- (4) अलुर-सकलेश्वरपुर निर्वाचन क्षेत्र : जैसा कि आयोग के द्वारा सुझाव दिया गया था, हसन तालुक का कट्टाया सर्किल, अलुर-सकलेश्वरपुर निर्वाचन-क्षेत्र में शामिल किया गया है, जो कि इससे लगभग 75 कि.मी. दूर है। इसके स्थान पर हसन तालुक का सालागा में सर्किल अलुर तालुक से भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ है अतः इसे अलुर-सकलेश्वरपुर निर्वाचन-क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है।

**हसन जिला के विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र की  
अधिसूचना वापस लेने के लिए प्रस्तावित परिवर्तन**

**हसन जिला की बी जे पी द्वारा दिये गए वैकल्पिक सुझाव**

विधानसभा की क्र. और नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार	कुल जनसंख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.	आयोग द्वारा प्रस्तावित जनसंख्या
193. श्रवणबेलगोला	आयोग द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं।	2,35,016	24,900	1757	2,35,016
194. आरसीकेरे	आयोग द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं।	2,50,448	50,275	7824	2,50,448
195. बेलुर	आयोग द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं।	2,36,351	56,229	4661	2,36,351
196. हसन (डुड्डा सर्किल को हटाकर सालागामे सर्किल को जोड़ा गया है)	हसन तालुक भाग 1. कसाबा सर्किल हसन सी एम सी+ओजी 4. डुड्डा सर्किल	67531 121874 51502	7709 7906 5779	204 816 301	
	महायोग	2,40,907	21,394	1321	2,23,559
197. होलेनरसीपुर (डुड्डा सर्किल को हटाकर हल्ली मैसूर सर्किल को जोड़ा गया है)	हसन तालुक भाग 3. शांतिग्राम सी.आर. पटना तालुक भाग 6. डांडीगनहल्ली सर्किल एच.एन.पुरा तालुक (पूर्ण)	46548 43089 1,66,244	5666 3835 32,710	665 106 3260	
	महायोग	2,55,881	42,211	4031	2,50,144
198. अरकलगुड (हल्ली मैसूर सर्किल को हटाकर कट्टाया सर्किल को जोड़ा गया है)	अरकलगुड तालुक हसन तालुक भाग कट्टाया सर्किल	199958 39538	40937 7437	2288 307	
	महायोग	2,39,496	48,374	2595	2,66,197
199. सकलेशपुर (कट्टाया सर्किल को हटाकर सालागामे सर्किल को जोड़ा गया है)	सकलेशपुर तालुक अलुर तालुक हसन तालुक भाग सालागामे सर्किल	134345 86071 34154	36992 21894 9457	1638 1720 904	
	महायोग	2,54,570	68,343	4262	2,59,954

उपरोक्त प्रस्ताव अरकलगुड निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या की अधिकता और होलेनरसीपुर तालुक के अनामत-क्षेत्र विभाजन की उपेक्षा करता है।

हसन जिला के भौगोलिक रूप से समायोजित मानचित्र एतद्वारा संलग्न है।

## कोडागु जिला

### कोडागु जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बंधित प्रस्तावित परिसीमन आयोग के प्रारूप में संशोधन

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन— कर्नाटक राज्य के कोडागु जिले में वर्तमान 3 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए प्रार्थना

ब्रिटिश शासन के बाद, कोडागु जिला 24 सदस्यों की विधानसभा तथा 2 सांसदों (1 लोकसभा तथा 1 राज्यसभा सदस्य) के साथ एक "ग" राज्य था इस "ग" राज्य के समामेलन तथा पुर्नगठन के बाद इसके भौगोलिक रूप में कोई परिवर्तन किए बिना तीन तालुकों के साथ इसे कर्नाटक राज्य का एक जिला बना दिया गया। यह भौगोलिक रूप से जिला 4102 वर्ग कि.मी. भूमि प्रदेश के साथ एक पर्वतीय भूमि प्रदेश है। जब राज्यों के अन्य भागों से तुलना की जाती है तो कोडागु जिले के लोगों की परंपरागत संस्कृति तथा रीति रिवाज अलग है।

कोडागु जिले में तीन तालुक तथा 3 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हैं अर्थात् 126—विराजपेट, 127—मडिकेरी तथा 128—सोमवारपेट। 2001 की जनगणना के अनुसार कोडागु जिले की जनसंख्या 5,48,561 है। विराजपेट तालुक की जनसंख्या 200628, मडिकेरी तालुक की 142012 तथा सोमवारपेट तालुक की 205921 है। तीन तालुकों के लिए कोडागु जिले की औसत जनसंख्या 1,82,853 है। एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए औसत जनसंख्या की प्रस्तावित सिफारिश 274281 (246852 से 301709) है।

उक्त पक्ष को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कोडागु जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की विद्यमान संख्या को निम्नलिखित कारणों से यथावत् बनाए रखा जाए :-

1. राज्य औसत जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को कम करना अवैज्ञानिक है, शहर तथा समतल क्षेत्र घने बसे हैं तथा एक मतदाता (या अन्य किसी व्यक्ति) तक पहुंचना आसान है जबकि पर्वतीय क्षेत्रों (पश्चिमी घाट क्षेत्र) विरले बसे हैं, घर दूर-दूर बिखरे हुए हैं, अधिकाधिक या जन प्रतिनिधियों को अधिक क्षेत्र में घूमना पड़ता है, जनता तक पहुंचने में अधिक समय लगता है।
2. कोडागु जिले के अनुशासित तथा कानून का पालन करने वाले शिक्षित लोगों ने प्रमाणित आर्थिक तथा सामाजिक कारणों से स्वतः ही छोटे परिवारों के प्रतिमानों को अपनाया है। यद्यपि कोडागु जिले में जनसंख्या में बढ़ोतरी का प्रतिशत सबसे कम है, जब राज्य या देश के अन्य भागों से तुलना की जाती है। कोडागु जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को जनसंख्या (यदि ऐसी कोई सोच है) के आधार पर कम किया जाने से कोडागु जिले के लोगों के लिए प्रतिशत या विकास दर कम करने जैसी सजा देनी होगी। जो कि आर्थिक कारणों से जान बूझकर किया जा रहा है।
3. पंचायती राज अधिनियम के अधीन, जनसंख्या पर आधारित स्थानों की संख्या के सम्बन्ध में कर्नाटक राज्य के कोडागु जिले सहित मलनाड जिलों (घाट क्षेत्रों) को रियायत दी गई है। कोडागु जिले में, प्रत्येक जिला पंचायत स्थानों के लिए, 30,000 की राज्य औसत के मुकाबले राज्य में नियत जनसंख्या

18000 है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर विचार करते समय भी यही सिद्धान्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी लागू होना चाहिए। यदि कोडागु जिले के लिए राज्य औसत की अवधारणा अपनाई जाती है तो जिले की पहचान विघटित हो जाएगी।

4. कोडागु जिला तथा इसके 3 तालुकों (तथा विद्यमान 3 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भी) के पास जिला तथा स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रशासनिक इकाई के साथ स्पष्ट रूप से सीमांकित सीमाएं हैं। 3 तालुक पंचायतें (मादीकेरी, विराजपेट तथा सोमवारपेट) तथा जिलों के 3 स्पष्ट रूप से परिभाषित तालुक तथा समय पर परिक्षित प्रशासनिक इकाई वर्ष 1947 से लगातार विद्यमान हैं। पंचायत तथा तालुक पंचायतों की सीमाएं, एक अच्छे संचार-तंत्र तथा प्रशासनिक इकाई की निकटता के साथ स्पष्ट रूप से निर्धारित सीमाएं हैं जो परिसीमन पर विचार करते समय प्रमुख रूप से आधारभूत आवश्यकता हैं। चूंकि कोडागु जिले के पास आयोग के दिशा निदेशों के अनुसार सभी अपेक्षित तथा आधारभूत आवश्यकताएं हैं, आयोग के पास सभी 3 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को बनाए रखने में कोई कानूनी बाधा नहीं है क्योंकि यह बिना किसी परिवर्तन के है। इस सम्बन्ध में, हम, जनसंख्या शीर्षक के अन्तर्गत पैरा III की मद सं. 4 की तरफ आयोग का कृपापूर्ण ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मद सं. 4 में यह लिखा हुआ है कि "तथापि, परिसीमन आयोग ने यह आंतरिक निर्णय लिया है कि हरेक मामले में बिल्कुल समान जनसंख्या के साथ निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं किया जा सकता, अतः राज्य/जिला औसत से 10 प्रतिशत तक अधिक या कम का अंतर आयोग को स्वीकार्य होगा, यदि भौगोलिक पहलू, संचार के साधन, जन सुविधा, क्षेत्रों की निकटता और आवश्यकता पड़ने पर प्रशासनिक इकाई को तोड़ने से बचने की आवश्यकता हो।"

इस वाक्यांश के अनुसार, आयोग के पास पूरा अधिकार है कि कूर्ग जिले के मामले में, जनसंख्या के जिला औसत को और भी विशेष रूप से देखें चूंकि भौगोलिक विशेषताएं, संचार के साधन, जन-सुविधा, निकटता अथवा क्षेत्र आयोग से यह मांग करते हैं कि कोडागु जिले की स्पष्ट रूप से निर्धारित, समय पर परीक्षित तथा भली-भांति सुगठित प्रशासनिक इकाइयों को तोड़ने से बचने के लिए, आयोग, इस प्रकार का निर्णय ले।

कोडागु जिले की कुल जनसंख्या 5,48,561 है तथा 3 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए औसत जनसंख्या का आकलन 1,82,853 किया गया है। आयोग के दिशा निदेशों के मद सं. 4 के अनुसार जिला औसत जनसंख्या एक मार्गदर्शी घटक के रूप में माना जा सकता है। इस जिले के लिए विद्यमान 3 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु इस मान-दण्ड को लागू करने के लिए आयोग के पास सम्पूर्ण अधिकार है तथा इस प्रकार जिले के अस्तित्व की सुरक्षा करते हुए कोडागु जिले की जिले के रूप में विशेषताओं की भी सुरक्षा हो सकेगी, जिसके पास एकीकरण से पहले 'ग' राज्य होने का विशेषाधिकार था।

### निष्कर्ष :

उपर्युक्त पैरा में यथोक्त न्यायोचित कारणों के लिए, हम आयोग से विनम्र निवेदन करते हैं कि जहां तक 3 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में हमारे जिले का मामला है, आयोग यथापूर्ण स्थिति को बनाए रखे और ऐसा करने में जिले का अस्तित्व तथा भारत के इस महान जिले की विशेषताओं को आयोग न केवल बचाए रखेगा (एक समय में भारत का महान 'ग' राज्य) और इस प्रकार कोडागु जिले के लोगों की संवेदनाओं, भावनाओं, आकांक्षाओं का सम्मान भी करेगा।

[6]

कार्यालय : # 199ए, प्रथम तल, ब्लॉक-4,  
विधानसभा भवन, बंगलौर-560001.

पी०जी०आर० सिन्धिया शि.ई.,

घर : # 685 ए, 'मुकाम्बिका करुपा'  
100 फिट रिंग रोड, फेस-2,  
जे.पी. नगर, बंगलौर-560078  
फोन : 26586725, 26582711

सह-सदस्य  
भारत परिसीमन आयोग

दिनांक : 23-02-2007.

न्यायधीश कुलदीप सिंह जी,  
माननीय अध्यक्ष,  
भारत परिसीमन आयोग,  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,  
नई दिल्ली

महोदय,

### मीडिया के माध्यम से प्रकाशन के लिए विसम्मत टिप्पणी।

खेदपूर्वक हमने नोट किया है कि हमारे कुछ सुझावों पर, जो केवल जन-हित को ध्यान में रख कर हमारे द्वारा किए गए थे, पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया तथा इसके पीछे छिपे अच्छे उद्देश्य तथा जन-हित की प्रशंसा किए बिना सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया।

इन सुझावों को सर्वसम्मति से लोगों का समर्थन प्राप्त था तथा इन पर, न केवल जन-हित बल्कि स्थानीय सांस्कृतिक जातीयता तथा परम्परा को ध्यान में रखने के साथ-साथ लोगों की संवेदनाओं की प्रतिक्रिया को भी ध्यान रखते हुए विचार किया गया है। यह हमारा उद्देश्य था कि माननीय आयोग के ध्यान में यह लाया जाए कि कोडागु, चिकमगलूर, हसन जैसे पहाड़ी जिलों के साथ, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नियन्त्रण में उनके अच्छे निष्पादन के लिए उनके अभ्यावेदन की कमी के कारण उन को सजा दे कर उन पर अन्याय किया गया है। विशेषकर कोडागु जिला जो स्वतन्त्रता-पूर्व भारत में 'ग' राज्य था और इसमें 3 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र थे, को मैसूर राज्य में मिला दिया गया। कोडागु जिला सांस्कृतिक, जातीयता तथा भौगोलिक रूप से अपने आप में एक विशिष्ट भिन्न पहचान रखता है। सम्पूर्ण पहाड़ी क्षेत्र अथवा मालेनाडु (पश्चिमी घाट), कारावाली अथवा तटीय कर्नाटक, अपनी उच्च शिक्षा तथा परिवार नियोजन के प्रति जिम्मेदाराना तरीके से काम करने के कारण दण्डित हुआ है।

## सामाजिक न्याय की अति-मात्रा के माध्यम से अन्याय

परिणामों पर विचार किए बिना अनुसूचित जन-जाति के लिए स्थानों के आबंटन में जनसंख्या के उच्चतम प्रतिशत के मानदण्डों का अन्धाधुन्ध पालन करके अत्यधिक अनुचित तथा असन्तुलित स्थिति पैदा हो गई है। वर्तमान प्रस्ताव में, हमने बेल्लारी तथा रायचूर—केवल दो जिलों में अ०जा० स्थानों के ध्यान केन्द्रित करने पर आपत्ति की थी और गंभीर विवादों के बीच हमने निवेदन किया था कि इन अ०जा० निर्वाचन क्षेत्रों को अन्य जिलों में वितरित या स्थानान्तरित कर दिया जाए जहाँ पर वास्तव में अ०जा० जाति के लोग हैं तथा वे इस प्रावधान का लाभ उठा सकें। इस विसंगति के कारण, केवल बेल्लारी जिले में 9 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में से केवल 2 निर्वाचन क्षेत्र ही अन्य पिछड़े वर्ग तथा सामान्य वर्ग के लिए उपलब्ध हैं जहाँ उनकी जनसंख्या 65% से अधिक है।

### आरक्षित निर्वाचन — क्षेत्रों का स्थानांतरण जो परस्पर सटे हुए हैं ।

हमने अ०जा० अथवा अ०जा० निर्वाचन क्षेत्रों को, जो परस्पर सटे हुए हैं, कुछ अन्य जिलों को स्थानांतरण के लिए कहा था। उदाहरण के रूप में, प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जैसे गुलबर्गा खण्ड में, गुलबर्गा खण्ड परस्पर सटे हुए हैं। इसी प्रकार, बंगलौर खण्ड में बंगलौर-4 तथा कोलर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो परस्पर जुड़े हुए हैं, अनुसूचित जाति के लिए आवंटित किए गए हैं। इससे मैसूर तथा बेलगाम जैसे अन्य राजस्व खण्ड अ०जा० प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाते हैं जिनमें 15 जिले हैं तथा जिनकी अ०जा० जनसंख्या कुल अ०जा० जनसंख्या 85,63,930 में से 33,57,125 है।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में, निम्नलिखित जिलों में अ०जा० स्थान सटे हुए निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किए गए हैं: उदाहरण के रूप में, कोलर जिले में मुलाबागल, रॉबर्टसोनपेट तथा बंगारपेट बहुत से अन्य जिलों में भी अ०जा० स्थान एक दूसरे से सटे हुए निर्वाचन क्षेत्रों को ही देने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

आयोग द्वारा प्रस्तावित अ०जा० विधानसभा खण्डों के मामले में, 36 में से लगभग 10 विधानसभा खण्ड, वर्ष 1952 से अ०जा० के लिए निरन्तर आरक्षित किए जाते रहे हैं। अधिनियम के अनुसार, अ०जा० के लिए आरक्षित करते समय जनसंख्या का अधिकतम होना अनिवार्य नहीं है। जहाँ तक संभव हो, यह अधिक हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोग, वर्ष 1952 से आरक्षित चले आ रहे निर्वाचन क्षेत्रों को अनारक्षित कर सकता है तथा यही आरक्षण किसी अन्य विधानसभा खण्डों को प्रतिपादित किया जा सकता है जहाँ अ०जा० जनसंख्या अधिक है। उदाहरण के लिए, मण्ड्या जिले में मल्लावल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, टुमकूर जिले में पावागाडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, चिकमगलूर जिले में रॉबर्टसोनपेट तथा बंगारपेट तथा चिकमगलूर जिले में मूदीगेरे। यदि यह और 30 वर्षों तक जारी रहे तो ये निर्वाचन क्षेत्र अ०जा० के निर्वाचन क्षेत्र के रूप में ही बने रहेंगे और जिले के भीतर रहने वाले अन्य अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

माननीय आयोग परिसीमन अधिनियम की धारा 9(1) (ग) के उपबन्धों का उल्लंघन किया है जो निदेश देता है कि अ०जा० के लिए निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में वितरित किया जाना है। इसके अलावा कोलर

तथा बीदर जैसे निर्वाचन क्षेत्र पिछले 54 वर्षों अर्थात् जब से पहले साधारण निर्वाचन हुए हैं, तब से अ०जा० के लिए आरक्षित हैं और शायद कम से कम 2026 तक ऐसे ही आरक्षित रहेंगे।

जनहित तथा प्रशासनिक सुविधा के नाते से यह सुझाव दिया गया था कि अफजलपुर तथा चिन्वोली को गुलबर्गा तथा बीदर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बीच परस्पर परिवर्तन कर दिया जाए। यह सुझाव अविच्छिन्नता को ध्यान में रख कर किया गया था तथा इससे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के केन्द्र तक पहुँचने में लोगों को मदद मिलेगी।

इसी प्रकार, सिरागुप्पा तथा होस्पेट को कोप्पल तथा बेल्लारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के बीच स्थानान्तरण के सम्बन्ध में हमारा सुझाव उपर्युक्त कारणों जैसे यातायात (संसार-तन्त्र) तथा प्रशासनिक सुविधा के लिए था। इससे विधि के किसी उपबन्ध अथवा आयोग द्वारा निर्धारित कार्य-प्रणाली का उल्लंघन नहीं होता।

हमारे सुझावों में हमने, चिकमगलुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जो चिकमगलूर, उदीपी तथा हसन जिलों में कुछ विधानसभा खण्डों में छुटपुट समायोजन करते हुए तभी से विद्यमान है जब से बनाए रख कर पश्चिमी घाट को न्यायोचित प्रतिनिधित्व दिलाने के सम्बन्ध में एक निवेदन किया था। पश्चिमी घाट (मलनाड क्षेत्र) का विशिष्ट इतिहास, संस्कृति तथा जातियता तथा समस्याएँ हैं, जिसे नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता। इससे मलनाड क्षेत्र के लोगों की महत्वाकांक्षा को सन्तुष्ट करने में लम्बा समय लगेगा।

जनहित में यह सुझाव दिया गया था, कि कुछ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों बंगलौर-I तथा बंगलौर-II के बीच परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और न ही प्रारूप प्रस्तावों में जैसा था वैसा ही प्रस्ताव बने रहने देने के पीछे कोई कारण या तर्क स्पष्ट नहीं किया गया।

### संख्या तथा गैर सम्बद्ध नामों द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का नामकरण

निर्वाचन क्षेत्रों के नाम उस निर्वाचन क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उसे एक अलग पहचान देते हैं। आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए गए कुछ नाम ठीक नहीं हैं तथा बंगलौर जिले जैसे 1, 2, 3, 4 और इसी तरह ओरों में भी लोकसभा तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए संख्या के प्रयोग के मामले में भ्रमित और गुमराह करने वाले हैं। हमने बंगलौर जिलों में लोकसभा तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र दोनों के लिए उपर्युक्त नाम सुझाए थे। इसके अलावा, दक्षिण कन्नड जिले में, यह मांग की गई थी कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के नाम उनके पुराने नामों पर ही रखे जाए जिनका अपना एक इतिहास है। एक बार फिर हम जोर देते हैं कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों का उचित रूप से नामकरण किया जाए जैसा कि हमारे द्वारा सुझाव दिया गया है।

#### उदाहरणता -

1. बंगलौर-1 (लोकसभा)  
का नाम बंगलौर उत्तर किया जाए।
2. बंगलौर-2 (लोकसभा)  
का नाम बंगलौर केन्द्रीय किया जाए।

3. बंगलौर-3 (लोकसभा)  
का नाम बंगलौर दक्षिण किया जाए ।
4. बंगलौर-4 (लोकसभा)  
का नाम विक्काबल्लापुर किया जाए ।
5. प्रस्तावित 15-उडुपी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम बदलकर उदीपी चिकमगलुर रखा जाए क्योंकि नया निर्वाचन क्षेत्र 4 विधानसभा खण्डों को मिला कर बनाया गया है जो उदीपी तथा चिकमगलुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से है ।
1. बंगलौर-1 (वि०स०नि०क्षे०) का नाम माथीकेरे किया जाए ।
2. बंगलौर-2 (वि०स०नि०क्षे०) का नाम डा. राजकुमार किया जाए ।
3. बंगलौर-3 (वि०स०नि०क्षे०) का नाम मल्लेश्वरम किया जाए ।
4. बंगलौर-4 (वि०स०नि०क्षे०) का नाम देवराजीवानाहल्ली किया जाए ।
5. बंगलौर-5 (वि०स०नि०क्षे०) का नाम अम्बेडकर नगर किया जाए ।
6. बंगलौर-6 (वि०स०नि०क्षे०) का नाम इन्दिरानगर किया जाए ।
7. बंगलौर-7 (वि०स०नि०क्षे०) का नाम जयमहल किया जाए ।
8. बंगलौर-8 (वि०स०नि०क्षे०) का नाम शान्तिनगर किया जाए ।
9. बंगलौर-9 (वि०स०नि०क्षे०) का नाम गान्धीनगर किया जाए ।
10. बंगलौर-10 (वि०स०नि०क्षे०) का नाम राजाजीनगर किया जाए ।
11. बंगलौर-11 (वि०स०नि०क्षे०) का नाम ज्ञानभारती किया जाए ।
12. बंगलौर-12 (वि०स०नि०क्षे०) का नाम विजयनगर किया जाए ।
13. बंगलौर-13 (वि०स०नि०क्षे०) का नाम चामराजपेट किया जाए ।

14. बंगलौर-14 (वि०स०नि०क्षे०) का नाम कैम्पगौडनगर किया जाए।
15. बंगलौर-15 (वि०स०नि०क्षे०) का नाम बासावानागुडी किया जाए
16. बंगलौर-16 (वि०स०नि०क्षे०) का नाम येदीपुर किया जाए।
17. बंगलौर-17 (वि०स०नि०क्षे०) का नाम कोरामंगला किया जाए।
18. बंगलौर-18 (वि०स०नि०क्षे०) का नाम जे.पी. नगर किया जाए।

आपका

ह0/-

(पी०जी०आर० सिन्धिया)

प्रतिलिपि:-

श्री एम०आर० हेगड़े  
राज्य निर्वाचन आयुक्त तथा  
सदस्य, भारत परिसीमन आयोग,  
चुनीनघम रोड, बंगलौर

[7]

## कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी

“कांग्रेस भवन” संख्या 14, क्वीन रोड, बंगलौर-560 52

मल्लिकार्जुन खरगे

सह-सदस्य

भारत परिसीमन आयोग

दिनांक : 23-02-2007.

न्यायधीश कुलदीप सिंह जी,  
माननीय अध्यक्ष,  
भारत परिसीमन आयोग,  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,  
नई दिल्ली

महोदय,

**मीडिया के माध्यम से प्रकाशन के लिए विसम्मत टिप्पणी।**

खेदपूर्वक हमने नोट किया है कि हमारे कुछ सुझावों पर, जो केवल जन-हित को ध्यान में रख कर हमारे द्वारा किए गए थे, पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया तथा इसके पीछे छिपे अच्छे उद्देश्य तथा जन-हित की प्रशंसा किए बिना सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया।

इन सुझावों को सर्वसम्मति से लोगों का समर्थन प्राप्त था तथा इन पर, न केवल जन-हित बल्कि स्थानीय सांस्कृतिक जातियता तथा परम्परा को ध्यान में रखने के साथ-साथ लोगों की संवेदनाओं की प्रतिक्रिया को भी ध्यान रखते हुए विचार किया गया है। यह हमारा उद्देश्य था कि माननीय आयोग के ध्यान में यह लाया जाए कि कोडागु, चिकमगलूर, हसन जैसे पहाड़ी जिलों के साथ, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नियन्त्रण में उनके अच्छे निष्पादन के लिए उनके अभ्यावेदन की कमी के कारण उन को सजा दे कर उन पर अन्याय किया गया है। विशेषकर कोडागु जिला जो स्वतन्त्रता-पूर्व भारत में 'ग' राज्य था और इसमें 3 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र थे, को मैसूर राज्य में मिला दिया गया। कोडागु जिला सांस्कृतिक, जातियता तथा भौगोलिक रूप से अपने आप में एक विशिष्ट भिन्न पहचान रखता है। सम्पूर्ण पहाड़ी क्षेत्र अथवा मालेनाडु (पश्चिमी घाट), कांरावाली अथवा तटीय कर्नाटक, अपनी उच्च शिक्षा तथा परिवार नियोजन के प्रति जिम्मेदाराना तरीके से काम करने के कारण दण्डित हुआ है।

### **सामाजिक न्याय की अति-मात्रा के माध्यम से अन्याय**

परिणामों पर विचार किए बिना अनुसूचित जन-जाति के लिए स्थानों के आवंटन में जनसंख्या के उच्चतम प्रतिशत के मानदण्डों का अन्धाधुन्ध पालन करके अत्यधिक अनुचित तथा असन्तुलित स्थिति पैदा हो गई है। वर्तमान प्रस्ताव में, हमने बेल्लारी तथा रायचूर-केवल दो जिलों में अ०जा० स्थानों के ध्यान केन्द्रित करने पर आपत्ति की थी और गंभीर विवादों के बीच हमने निवेदन किया था कि इन अ०जा० निर्वाचन क्षेत्रों को अन्य जिलों में वितरित या स्थानान्तरित कर दिया जाए जहाँ पर वास्तव में अ०जा० जाति के लोग हैं तथा वे इस प्रावधान का लाभ उठा सकें। इस विसंगति के कारण, केवल बेल्लारी जिले में 9 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में से केवल 2 निर्वाचन क्षेत्र ही अन्य पिछड़े वर्ग तथा सामान्य वर्ग के लिए उपलब्ध हैं जहाँ उनकी जनसंख्या 65% से अधिक है।

### **आरक्षित निर्वाचन - क्षेत्रों का स्थानांतरण जो परस्पर सटे हुए हैं।**

हमने अ०जा० अथवा अ०ज०जा० निर्वाचन क्षेत्रों को, जो परस्पर सटे हुए हैं, कुछ अन्य जिलों को स्थानांतरण के लिए कहा था। उदाहरण के रूप में, प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जैसे गुलबर्गा खण्ड में, गुलबर्गा खण्ड परस्पर सटे हुए हैं। इसी प्रकार, बंगलौर खण्ड में बंगलौर-4 तथा कोलर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो परस्पर जुड़े हुए हैं, अनुसूचित जाति के लिए आवंटित किए गए हैं। इससे मैसूर तथा बेलगाम जैसे अन्य राजस्व खण्ड अ०जा० प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाते हैं जिनमें 15 जिले हैं तथा जिनकी अ०जा० जनसंख्या कुल अ०जा० जनसंख्या 85,63,930 में से 33,57,125 है।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में, निम्नलिखित जिलों में अ०जा० स्थान सटे हुए निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किए गए हैं। उदाहरण के रूप में, कोलर जिले में मुलाबागल, रॉबर्टसोनपेट तथा बंगारपेट बहुत से अन्य जिलों में भी अ०जा० स्थान एक दूसरे से सटे हुए निर्वाचन क्षेत्रों को ही देने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित अ०जा० विधानसभा खण्डों के मामले में, 36 में से लगभग 10 विधानसभा खण्ड, वर्ष 1952 से अ०जा० के लिए निरन्तर आरक्षित किए जाते रहे हैं। अधिनियम के अनुसार, अ०जा० के लिए आरक्षित करते समय जनसंख्या का अधिकतम होना अनिवार्य नहीं है। जहाँ तक संभव हो, यह अधिक हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोग, वर्ष 1952 से आरक्षित चले आ रहे निर्वाचन क्षेत्रों को अनारक्षित कर सकता है तथा यही आरक्षण किसी अन्य विधानसभा खण्डों को प्रतिपादित किया जा सकता है जहाँ अ०जा० जनसंख्या अधिक है। उदाहरण के लिए, मण्ड्या जिले में मल्लावल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, टुमकूर जिले में पावागाडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, कोलर जिले में रॉबर्टसोनपेट तथा बंगारपेट तथा चिकमगलूर जिले में मूदीगेरे। यदि यह और 30 वर्षों तक जारी रहा, तो ये निर्वाचन क्षेत्र अ०जा० के निर्वाचन क्षेत्र के रूप में ही बने रहेंगे और जिले के भीतर रहने वाले अन्य अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

माननीय आयोग ने परिसीमन अधिनियम की धारा 9(1) (ग) के उपबन्धों का उल्लंघन किया है जो निदेश देता है कि अ०जा० के लिए निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में वितरित किया जाना है। इसके अलावा कोलर तथा बीदर जैसे निर्वाचन क्षेत्र पिछले 54 वर्षों अर्थात् जब से पहले साधारण निर्वाचन हुए हैं, तब से अ०जा० के लिए आरक्षित हैं और शायद कम से कम 2026 तक ऐसे ही आरक्षित रहेंगे।

जनहित तथा प्रशासनिक सुविधा के नाते से यह सुझाव दिया गया था कि अफजलपुर तथा चिन्चोली को गुलबर्गा तथा बीदर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बीच परस्पर परिवर्तन कर दिया जाए। यह सुझाव अविच्छिन्नता को ध्यान में रख कर किया गया था तथा इससे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के केन्द्र तक पहुँचने में लोगों को मदद मिलेगी।

इसी प्रकार, सिरागुप्पा तथा होस्पेट को कोप्पल तथा बेल्लारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के बीच स्थानान्तरण के सम्बन्ध में हमारा सुझाव उपर्युक्त कारणों जैसे यातायात (संसार-तन्त्र) तथा प्रशासनिक सुविधा के लिए था। इससे विधि के किसी उपबन्ध अथवा आयोग द्वारा निर्धारित कार्य-प्रणाली का उल्लंघन नहीं होता।

हमारे सुझावों में हमने, चिकमगलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जो चिकमगलूर, उदीपी तथा हसन जिलों में कुछ विधानसभा खण्डों में छुटपुट समायोजन करते हुए तभी से विद्यमान है जब से बनाए रख कर पश्चिमी घाट को न्यायोचित प्रतिनिधित्व दिलाने के सम्बन्ध में एक निवेदन किया था। पश्चिमी घाट (मलनाड क्षेत्र) का विशिष्ट इतिहास, संस्कृति तथा जातियता तथा समस्याएँ हैं, जिसे नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता। इससे मलनाड क्षेत्र के लोगों की महत्वाकांक्षा को सन्तुष्ट करने में लम्बा समय लगेगा।

जनहित में यह सुझाव दिया गया था, कि कुछ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों बंगलौर-I तथा बंगलौर-II के बीच परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और न ही प्रारूप प्रस्तावों में जैसा था वैसा ही प्रस्ताव बने रहने देने के पीछे कोई कारण या तर्क स्पष्ट नहीं किया गया।

### संख्या तथा गैर सम्बद्ध नामों द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का नामकरण

निर्वाचन क्षेत्रों के नाम उस निर्वाचन क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उसे एक अलग पहचान देते हैं। आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए गए कुछ नाम ठीक नहीं हैं तथा बंगलौर जिले जैसे 1, 2, 3, 4 और इसी तरह ओरों में भी लोकसभा तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए संख्या के प्रयोग के मामले में भ्रमित और गुमराह करने वाले हैं। हमने बंगलौर जिलों में लोकसभा तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र दोनों के लिए उपर्युक्त नाम सुझाए थे। इसके अलावा, दक्षिण कन्नड जिले में, यह मांग की गई थी कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के नाम उनके पुराने नामों पर ही रखे जाए जिनका अपना एक इतिहास है। एक बार फिर हम जोर देते हैं कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों का उचित रूप से नामकरण किया जाए जैसा कि हमारे द्वारा सुझाव दिया गया है।

#### उदाहरणता -

1. बंगलौर-1 (लोकसभा)  
का नाम बंगलौर उत्तर दिया जाए।

1. बंगलौर-1 (वि०स०नि०क्षे०)  
का नाम माथीकरे दिया जाए।

2. बंगलौर-2 (लोकसभा)  
का नाम बंगलौर केन्द्रीय किया जाए।
3. बंगलौर-3 (लोकसभा)  
का नाम बंगलौर दक्षिण किया जाए।
4. बंगलौर-4 (लोकसभा)  
का नाम चिक्काबल्लापुर किया जाए।
5. प्रस्तावित 15-उडुपी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम बदलकर **उदीपी चिकमगलुर** रखा जाए क्योंकि नया निर्वाचन क्षेत्र 4 विधानसभा खण्डों को मिला कर बनाया गया है जो उदीपी तथा चिकमगलुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से है।
2. बंगलौर-2 (वि०स०नि०क्षे०)  
का नाम डा. राजकुमार किया जाए।
3. बंगलौर-3 (वि०स०नि०क्षे०)  
का नाम मल्लेश्वरम किया जाए।
4. बंगलौर-4 (वि०स०नि०क्षे०)  
का नाम देवराजीवानाहल्ली किया जाए।
5. बंगलौर-5 (वि०स०नि०क्षे०)  
का नाम अम्बेडकर नगर किया जाए।
6. बंगलौर-6 (वि०स०नि०क्षे०)  
का नाम इन्दिरानगर किया जाए।
7. बंगलौर-7 (वि०स०नि०क्षे०)  
का नाम जयमहल किया जाए।
8. बंगलौर-8 (वि०स०नि०क्षे०)  
का नाम शान्तिनगर किया जाए।
9. बंगलौर-9 (वि०स०नि०क्षे०)  
का नाम गान्धीनगर किया जाए।
10. बंगलौर-10 (वि०स०नि०क्षे०)  
का नाम राजाजीनगर किया जाए।
11. बंगलौर-11 (वि०स०नि०क्षे०)  
का नाम ज्ञानभारती किया जाए।
12. बंगलौर-12 (वि०स०नि०क्षे०)  
का नाम विजयनगर किया जाए।
13. बंगलौर-13 (वि०स०नि०क्षे०)  
का नाम चामराजपेट किया जाए।

14. बंगलौर-14 (वि०स०नि०क्षे०)  
का नाम कैम्पगौडनगर किया जाए।
15. बंगलौर-15 (वि०स०नि०क्षे०)  
का नाम बासावानागुडी किया जाए
16. बंगलौर-16 (वि०स०नि०क्षे०)  
का नाम येदीपुर किया जाए।
17. बंगलौर-17 (वि०स०नि०क्षे०)  
का नाम कोरामंगला किया जाए।
18. बंगलौर-18 (वि०स०नि०क्षे०)  
का नाम जे.पी. नगर किया जाए।

धन्यवाद

आपका

ह०/-

(मल्लिकार्जुन खरगे)

ह०/-

(ए. वेंकटेश नायक)

[सं. 282/कर्नाटक/2007-II]

आदेश से,

शंगारा राम, सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2007

**O.N. 47(E).**—In pursuance of Sub-section (2) of Section 9 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), the Delimitation Commission hereby publishes its proposals for the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State of Karnataka, together with the dissenting proposals of the Associate Members, and specifies 9th April, 2007 (Monday) as the date on or after which the proposals will be further considered by it.

2. Any objections or suggestions in regard to these proposals should reach the Secretary, Delimitation Commission, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001 on or before the said date.

**PROPOSALS**

(i) The territorial constituencies into which the State of Karnataka shall be divided for the purpose of elections to (a) the Legislative Assembly of the State of Karnataka, and (b) the House of the People, the extent of each such constituency and the constituencies in which the seats are reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be as shown in the **Table-A and Table-B** respectively; and

(ii) Where the name of a constituency as shown in Table A or Table B is distinguished by the brackets and letters (SC), the seat in that constituency is reserved for the Scheduled Castes; and

(iii) Where the name of a constituency as shown in Table A or Table B is distinguished by the brackets and letters (ST), the seat in that constituency is reserved for the Scheduled Tribes.

<b>TABLE - A</b>		
<b>ASSEMBLY CONSTITUENCIES AND THEIR EXTENT</b>		
<b>S.N.</b>	<b>Name of Assembly Constituency</b>	<b>Extent of the Constituency</b>
<b>1- DISTRICT: BELGAUM</b>		
<b>1.</b>	<b>1. Sadalga</b>	<b>1 Chikodi Taluk (Part)</b> 4 Sadalga Circle 3 Nippani Circle (Part) Hadnal, Sulagaon, Mattiwade, Bhatnaganur, Kurli, Appachiwadi, Koganoli, Hanabarawadi, Hanchinal (K.S.), Benadi, Bolewadi, Akkol, Padlihal, Lakhanapur, Jattrat, Adi, Bhivashi, Naganur, Yamagarni, Soundalga, Budihal, Kodni and Gayakanawadi villages. Sadalga TP
<b>2.</b>	<b>2. Athni</b>	<b>1 Chikodi Taluk (Part)</b> 1 Chikodi Circle 3 Nippani Circle (Part) Shirguppi, Pangeri (B), Budulmukh, Shendur, Gondikuppi, Yarnal, Nippani (Rural), Amalzari, Gavan and Tavadi villages. Nippani CMC Chikodi TMC
<b>3.</b>	<b>3. Athni</b>	<b>2 Athni Taluk (Part)</b> 1 Athni Circle and 4 Telsang Circle Athni TMC

4.	4. Kagawad	<b>2 Athni Taluk (Part)</b> 2 Kagawad Circle (Nagaramunolli) and 3 Anantapur Circle.
5.	5. Kudachi (SC)	<b>3 Raybag Taluk (Part)</b> 2 Kudachi Circle Kudachi TP
6.	6. Raybag (SC)	<b>3 Raybag Taluk (Part)</b> 1 Raibag Circle Raibag TP <b>Chikodi Taluk (Part)</b> Nagarmunoli Circle.
7.	7. Hukeri	<b>5 Hukeri Taluk (Part)</b> 1 Hukkeri Circle. <b>3 Sankeshwar Circle (Part)</b> Shippur, Hittani, Mattiwade, Naganur K.S., Rashing, Bugatealur, Hadalga, Bhairapur, Shekinhosu, Konankeri, Honnihalli, Kanagale, Karajage, Sollapur, Haragapur, Bad, Alur (K.M), Akkiwat, Kesti, Borgal, Amminbhavi, Handigud, Ammanagi, Nidasoshi, Ankale, Sankeshwar (R), Kamatanur and Nerli villages. Sankeshwar TMC Hukkeri TPC
8.	8. Arabhavi	<b>4 Gokak Taluk (Part)</b> 3 Koujalagi Circle <b>2 Arabhavi Circle (part)</b> <u>Arabhavi</u> , Arabhavi, Sanganakeri, <u>Lolasur</u> Lolasur, <u>Badigwad</u> Badigwad, Dandapur, Ganeshwadi, <u>Balobal</u> Balobal, Beerangaddi, <u>Dharmatti</u> Dharmatti, Patagundi, <u>Duradundi</u> Duradundi, <u>Hallur</u> Hallur, <u>Hunshyal (P.G.)</u> Hunshyal (P.G.), Kallolli, Hanamapur, <u>Kallolli</u> , Masaguppi, Gujanatti, Jekanatti, <u>Masaguppi</u> , Munyal, Kamaladinni, <u>Munyal</u> , Rangapur, <u>Naganur</u> Naganur, <u>Nallanatti</u> , Basaligundi, Nallanatti, <u>Rajapur</u> Rajapur, <u>Shivapur</u> , Gurlapur, Khanatti, Mudalgi (Rural), Shivapur, <u>Tukkanatti</u> Tukkanatti, <u>Waderatti</u> , Fulagaddi and Waderatti villages. Mudalgi TMC

9.	9. Gokak	<b>4 Gokak Taluk (Part)</b> 1 Gokak Circle <b>2 Arabhavi Circle (Part)</b> Dhupadal, Konnur (Rural), Malinatti, Shivapur, <u>Mallapur (P.G.)</u> <u>Mallapur (P.G.)</u> , <u>Nandagaon</u> , <u>Khanapur</u> , Mutnal, Nandagaon, <u>Pemaladinni</u> <u>Pamalsadinni</u> and <u>Shindikurbet</u> <u>Shindikurbet</u> villages. Gokak CMC Konnur TP Other Units In The Tehsil. Gokak Falls NAC
10.	10. Yemkanmardi (ST)	<b>5 Hukeri Taluk (Part)</b> 2 Yemkanmardi Circle <b>3 Sankeshwar Circle (Part)</b> Masarguppi, Gavanal, Gotur, Hebbal, Kochari, Chikalgud, U Khanapur, Hanchinal, Kurniwadi, Kurni and Arjunwad villages. <b>6 Belgaum Taluk (Part)</b> 3 Kakati Circle
11.	11. Belgaum Uttar	<b>6 Belgaum Taluk (Part)</b> Belgaum (CB) <b>Belgaum (M Corp) (Part)</b> Belgaum (M Corp.) - Ward No. 27 to 58.
12.	12. Belgaum Dakshin	<b>6 Belgaum Taluk (Part)</b> 1 Belgaum Circle <b>Belgaum (M Corp) (Part)</b> Belgaum (M Corp.) - Ward No. 1 to 26.
13.	13. Belgaum Rural	<b>6 Belgaum Taluk (Part)</b> 4 Bagewadi Circle <b>2 Uchagaon Circle (Part)</b> Maranhol, Gojage, Sulge (Uchagaon), Kallehol, Uchagaon, Turamari, Bachi, Kudremani, Sonoli, Belgundi, Bokanur,

		Savagaon, Mandoli, Hangarge, Bijagarni, Yalebail, Rakaskop, Dhamne S.Bailur, Belvatti, Badas (Inam), Baknur, Kiniye, Karle, Navage, Kuttalawadi, Santibastawad, Bahadarwadi, Ranakunde, Waghawade, Desur, Sulge (Yellur), Rajahansagad, Nandihalli, Nagenahatti Villages. Benakanahalli (OG) - Ward No. 63, Bekkinakeri, Attiwad, Mannur and Ambewadi Villages. Hindalgi (CT), Kangrali (KH)(CT) and Kangrali (BK) (CT).
14.	14. Khanapur	7 Khanapur Taluk
15.	15. Kittur	8 Sampgaon Taluk (Part) 2 Kittur and 3 Nesargi Circles.
16.	16. Bailhongal	8 Sampgaon Taluk (Part) 1 Bailhongal Circle Bailhongal TMC 9 Parasgad Taluk (Part) 1 Murgod Circle. 2 Saundatti Circle (Part) <u>Asundi</u> Asundi, Gurlhosur (R), Kadihalli, Mugali, Nadavinahalli, Shingarkop, <u>Badli</u> , Aladakatti K.Y, Badli, Katral, <u>Karikatti</u> Karikatti, <u>Sangreshkoppa</u> Kencharamanahal, Sangreshkoppa, Yadahalli, <u>Yakkundi</u> Bommagadikoppa, Karlakatti, Venkateshnagar and Yakkundi villages.
17.	17.Saundatti Yellamma	9-Parasgad Taluk (Part) 1 Saundatti Circle (Part) <u>Betasur</u> Betasur, Yadravi, Goravankolla, Saundatti (Rural), <u>Hanchinal</u> Hanchinal, <u>Hirekumbi</u> , Dhaderkoppa, Dugabal, Hirekumbi, <u>Inamhongal</u> , Chikkulligeri, Hireulligeri, Inamhongal, <u>Ugaragol</u> , Harlapur, Renukanagar, Ugaragol and Kenchalarkop villages. 3 Yaragatti and 4 Munoli Circles. Saundatti Yellamma TMC
18.	18. Ramdurg	10 Ramdurg Taluk

**2- DISTRICT: BAGALKOT**

<b>19.</b>	<b>19. Mudhol (SC)</b>	<b>3 Mudhol Taluk (Part)</b> 2 Lokapur Circle <b>1 Mudhol Circle (Part)</b> Belagali GP/Belagali, Halagali GP/Halgali, Melligeri, Kulali GP/Kulali, Malapur, Malali GP/Malali, Soragoan, Mantur GP/Budni (P.M), Kishori, Mantur, Mugalkhod GP/Mugalkhod, Nagaral GP/Akkimardi, Nagaral, Shirol GP/Shirol, Uttur GP/Jaliber, Ranjanagi, Rugi, Uttur, Vantigodi GP/Mallapur (P.J), Mirji, Vantigodi and Chanal villages. Mudhol TMC
<b>20.</b>	<b>20. Terdal</b>	<b>Ter 1 Jamkhandi Taluk (Part)</b> 2 Terdal Circle (Including Rabkavi Banhatti CMC & Terdal TMC) <b>3 Mudhol Taluk (Part)</b> <b>1 Mudhol Circle (Part)</b> Dhavaleshwar/Dhavaleshwar, Nandagoan, Kesrakoppa, Bisanal, Kesrakoppa, Madhabhavi/Madhabhavi, Marapur, Sanganatti and Saidapur/Saidapur villages. Mahalingapur TMC
<b>21.</b>	<b>21. Jamkhandi</b>	<b>1 Jamkhandi Taluk (Part)</b> 1 Jamkhandi and 3 Savalagi Circles.
<b>22.</b>	<b>22. Bilgi</b>	<b>2 Bilgi Taluk</b> <b>5 Bagalkot Taluk (Part)</b> 2 Kaladagi and 3 Kerur Circles.
<b>23.</b>	<b>23. Badami</b>	<b>4 Badami Taluk (Part)</b> 1 Badami, 2 Kulageri and 4 Guledagudda Circles. Guledgudda TMC Kerur TP Badami TP

24.	24. Bagalkot	<p><b>4 Badami Taluk (Part)</b></p> <p><b>5 Bagalkot Taluk (Part)</b></p> <p>1 Bagalkot and 3 Sitimani Circles.</p> <p>Bagalkot CMC</p> <p><b>6 Hungund Taluk (Part)</b></p> <p><b>4 Aminagad Circle (Part)</b></p> <p><u>Aiahole GP</u> Aiahole, Huvinahalli, Kalligudda, Mullur, Nimbalgundi, <u>Aminagad GP</u> Aminagad, <u>Hiremagi GP</u>, Bevinai, Budihal (Inam), Hiremagi, <u>Madapur</u>, <u>Kamatgi GP</u> Kamatgi, <u>Muganur GP</u>, Amblikoppa, Basarikatti, Basawanal, Budihal (S.K.), Kadiwal, Kallapur, Muganur, Ramathal, Suralikhal and Yeranaikanal villages.</p>
25.	25. Hungund	<p><b>6 Hungund Taluk (Part)</b></p> <p>1 Hunagund, 2 Ilkal and 3 Karadi Circles.</p> <p><b>4 Aminagad Circle (Part)</b></p> <p><u>Chikanal GP</u>, Benakanavari, Bhimanagad, Chikanal, Chilapur, Kyadiggeri, Siddanakolla, Upnal (S.C.), <u>Gudur GP</u>, Gudur, <u>Kelur GP</u> Kelur, Kunabenchhi, Talikeri, <u>Nagur GP</u>, Ilal, <u>Rakkasagi GP</u> Rakkasagi, <u>Sulibhavi GP</u> Sulibhavi, <u>Vadageri GP</u>, Dammur, Gandal, Gorjnal, Muradi and Vadageri villages.</p> <p>Hungund TP</p> <p>Ilkal TMC</p>
<b>3- DISTRICT: BIJAPUR</b>		
26.	26. Muddebihal	<p><b>5 Muddebihal Taluk (Part)</b></p> <p>1 Muddebihal, 3 Naltavad and 4 Davalgi Circles.</p> <p>Muddebihal TMC</p> <p><b>2 Talikoti Circle (Part)</b></p> <p>Chokavi, Hirur, Tamadaddi, Balaganur, Minajagi, Harnal, Hadaginal, Kaladevanahalli, Mukihal, Shivapur and Nagur villages.</p> <p>Talikoti TMC</p>

27.	27	Hippargi	<p><b>5 Muddebihal Taluk (Part)</b></p> <p><b>2 Talikoti Circle (Part)</b></p> <p>Tumbagi, Hosahalli, Huvinahalli, Kyatanal, Gotakhindaki, Bhantrur, Peerapur, Shellagi, Karaganur, Gadi Somanal, Bommanahalli, Bolawad, Fatepur P.Talikoti, Guttihal, Kodaganur, Belur, Lakkundi, Navadagi, Matakai Devanhalli, Salawadagi, Gundakanal, Malleshwar, Bilebhavi and Maskanal villages.</p> <p><b>3 Sindgi Taluk (Part)</b></p> <p>2 Devar Hippargi Circle.</p> <p><b>4 Basavana Bagevadi Taluk (Part)</b></p> <p>2 Huvini Hippargi Circle.</p>
28.	28	Basavana Bagevadi	<p><b>4 Basavana Bagevadi Taluk (Part)</b></p> <p>1 B.Bagevadi and 3 Kolhar Circles.</p> <p>Basavana Bagevadi TP</p>
29.	29	Bijapur	<p><b>1 Bijapur Taluk (Part)</b></p> <p>1 Tikota, 3 Baballeshwar and 5 Mamadapur Circles.</p>
30.	30	City	<p><b>1 Bijapur Taluk (Part)</b></p> <p><b>Bijapur (CMC) (Part)</b></p> <p>Bijapur (CMC) - Ward No.1 to 11, 13, 14 and 18 to 35</p> <p><b>Navarasapur (OG)(Part) Urban</b></p> <p>Toravi (OG) Urban (Part)</p> <p>Mahabhogayat W. No 1. (Part)</p> <p>Rambapur W.No-17 (Part)</p> <p>Bijapur Rural W. No-21 (Part).</p>
31.	31	Nagthan (SC)	<p><b>1 Bijapur Taluk (Part)</b></p> <p>4 Nagthan and 2 Bijapur Circles.</p> <p><b>Bijapur (CMC) (Part)</b></p> <p>Bijapur (CMC) - Ward No. 12 and 15 to 17.</p> <p><b>2 Indi Taluk (Part)</b></p> <p>3 Chadachan Circle.</p>

32.	32. Indi	<b>2 Indi Taluk (Part)</b> 2 Ballolli Circle <b>1 Indi Circle (Part)</b> Shiragur Inam (Old), Agarkhed, Gubbewad, Mannur, Hirebevanur, Alur, Mavinalli, Chickbevanur, Ingalgi, Nehrunagar, Bhuyar, Nagarhalli, Khedgi, Lalasangi, Satalagaon (P.I), Salotgi, Rugi, Tennihalli, Gornal, Masali[K.D.], Ramanagar, Naad[B.K.], Naad[K.D.], Golasar, Shivapur [K.H.], Rodagi, Miragi, Hanchinal, Arjunagi [K.H.], Arjunagi [B.K.], Marasanahalli, Tegghihalli, Shirshyad, Sangogi and Masali[B.K.] villages. Indi TMC.
33.	33. Sindgi	<b>3 Sindgi Taluk (Part)</b> 1 Sindgi and 3 Almel Circles. Sindgi TMC <b>2 Indi Taluk (Part)</b> <b>1 Indi Circle (Part)</b> Bannihatti, Tamba, Shivapur [B.K.], Kenginal, Gandhinagar, Wade and Bhanthanal villages.
<b>4- DISTRICT: GULBARGA</b>		
34.	34. Afzalpur	<b>2 Afzalpur Taluk</b> <b>1 Aland Taluk (Part)</b> 2 Nimbarga Circle.
35.	35. Jevargi	<b>7 Jevargi Taluk</b>
36.	36. Shorapur (ST)	<b>8 Shorapur Taluk (Part)</b> 3 Hunasgi, 4 Kakkera, 5 Kodekal and 1 Shorapur Circles.
37.	37. Shahpur	<b>9 Shahpur Taluk (Part)</b> 1 Shahapur and 2 Gogi Circles. <b>8 Shorapur Taluk (Part)</b> 2 Kembhavi Circle.

38.	38. Yadgir	<b>10 Yadgir Taluk (Part)</b> 1 Yadgir Circle. <b>9 Shahpur Taluk (Part)</b> 3 Dornahalli, 4 Hayyal(B) and 5 Wadagera Circles.
39.	39. Gurmitkal	<b>10 Yadgir Taluk (Part)</b> 2 Gurmitkal, 3 Balichakra, Saidapur, 5 Hattikuni and 6 Konkai Circles.
40.	40. Chitapur (SC)	<b>Chitapur Taluk (Part)</b> 1 Chitapur, 3 Gundagurti, and 4 Nalwar Circles Wadi NAC and 5 Wadi TMC <b>Shahabad Circle (Part)</b> Shankerwadi, Balwadgi, Ingalgi, Kadhalli, Chamnoor, Kadaboor, Kundanoor, Hongunta, Maigatti, Bhankur (OG) - Ward No.2, Seva Nagar, Katamdevanahalli and Mutga villages.
41.	41. Sedam	<b>5 Sedam Taluk</b> <b>4 Chincholi Taluk (Part)</b> Sulepeth Circle
42.	42. Chincholi (SC)	<b>4 Chincholi Taluk (Part)</b> Chincholi, Ainapur and Kodli Circles <b>6 Chitapur Taluk (Part)</b> 4 Kalgi Circle
43.	43. Gulbarga Rural (SC)	<b>3 Gulbarga Taluk (Part)</b> Aurad.B, Mahagaon, Kamalapur and Farhatabad Circles <b>Gulbarga Circle ( Rural) (Part)</b> Azadpur, Kesratgi, Darayapur (D), Sheik Roza (D), Hagargi, Uplaon, Nandoor (B), Nandoor (K), Dharmapur, Kusnoor (OG), Kusnoor, Panegaon and Madarasanahalli (D) villages. <b>6 Chitapur Taluk (Part)</b> <b>5 Shahabad Circle (Part)</b> <b>Marthur GP</b> - Devantegnur, Aldihal and Martur villages. <b>Tonasinahalli GP</b> - Tonsinhalli, Taranhalli, Gola (K), Shahabad TMC and Shahabad ACC NAC

44.	44. Gulbarga Dakshin	<b>3 Gulbarga Taluk (Part)</b> <b>Gulbarga (M Corp.) (Part)</b> Gulbarga (M Corp.) - Ward No.31 to 55 and Rajapur (OG) (Part) - Ward No. 57. Pattan Circle <b>Gulbarga circle (Rural) (Part)</b> Jaffarabad, <u>Nandikur GP</u> - 1. Udnor, 2. Kotnoor (OG), 3. Naganahalli, 4. Nandikur and 5. Sitnoor villages.
45.	45. Gulbarga Uttar	<b>Gulbarga Taluk (Part)</b> <b>Gulbarga (M Corp.) (Part)</b> Gulbarga (M Corp.) - Ward No.1 to 30
46.	46. Aland	<b>Aland Taluk (Part)</b> 1 Alland, 3 Madanhipparga, 4 Khajuri and 5 Narona Circles.
<b>5- DISTRICT: BIDAR</b>		
47.	47. Basavakalyan	<b>1 Basavakalyan Taluk (Part)</b> 1 Hulsoor, 2 Basavakalyan, 4 Manthal, 5 Kohinoor and 6 Mudbi Circles. Basavakalyan TMC
48.	48. Homnabad	<b>1 Basavakalyan Taluk (Part)</b> 3 Rajeshwar Circle <b>5 Homnabad Taluk (Part)</b> 1 Dubalgundi, 3 Chitguppa, 5 Humnabad and 2 Hallikhed (B) Circles. Humnabad TMC Chitguppa TMC
49.	49. Bidar South	<b>5 Homnabad Taluk (Part)</b> 4 Nirna and 6 Bemalkheda Circles. <b>4 Bidar Taluk (Part)</b> 2 Kamthana, 3 Bagdal, 4 Manhalli, and 6 Bidar (South) Circles.

50.	50. Bidar	<b>4 Bidar Taluk (Part)</b> 1 Janwada and 5 Bidar (North) Circles. Bidar CMC
51.	51. Bhalki	<b>2 Bhalki Taluk</b>
52.	52. Aurad (SC)	<b>3 Aurad Taluk</b>
<b>6- DISTRICT: RAICHUR</b>		
53.	53. Raichur Rural (ST)	<b>3 Raichur Taluk (Part)</b> 2 Yergera, 3 Gillesugur, 4 Kalmala, 6 Chandrabanda and 5 Deosugur Circles. Shakthinagar (CT) <b>Manvi Taluk (Part)</b> 2 Kurdi Circle.
54.	54. Raichur	<b>3 Raichur Taluk (Part)</b> 1 Raichur Circle Raichur CMC
55.	55. Manvi (ST)	<b>4 Manvi Taluk (Part)</b> 1 Manvi, 3 Hirekotnakal, 5 Malat, 7 Kavithal, 8 Sirwar and 9 Kallur Circles Manvi TMC
56.	56. Devadurga (ST)	<b>2 Devadurga Taluk</b>
57.	57. Lingsugur (SC)	<b>1 Lingsugur Taluk (Part)</b> <b>Lingasugur Circle (Part)</b> Kalli Lingasugur, Boopuru, Rampura, Honakunte, Karadakal (R), Manvinabhavi, Gundasagara, Kachapura, Margatanala, Chitranala, Hanumanagudda, Chitapura, Hirejaavura, Rodalabanda, Kamaladinne, Navali, Chikkajaavur, Anahosuru, Nandhihal, Bendona, Julagudda, Narakaladinne, Echanala, Neeralakera, Chikkaupperi, Sunkal, Hireupperi, Toralabinchi, Jangirampura, Adavibhavi, Yaragunta, Kalapura, Gorebala, Halabhavi, Mincheri, Yalagaladinne, Jaalibenchi,

		<p>Kesarahatti and Idinal villages.</p> <p>4 Mudgal and 2 Gurugunta Circles</p> <p>Lingsugur and Mudgal TPs</p> <p>Hatti Gold Mines NAC</p>
58.	58. Sindhnur	<p><b>5 Sindhnur Taluk (Part)</b></p> <p>1 Sindhanoor (Rural), 2 Salgunda, 3 Huda, 4 Gorebal, 5 Jaliha, 10 Balganur, 11 Jawalgera, 12 Walkamdinni, 13 Hedginal and 14 Badarli Circles.</p> <p>Sindhnur TMC</p>
59.	59. Maski (ST)	<p><b>5 Sindhnur Taluk (Part)</b></p> <p>6 Gunjahalli, 7 Turvihali, 8 Kunnatagi and 9 Gudadur Circles.</p> <p><b>4 Manvi Taluk (Part)</b></p> <p>4 Halapur and 6 Pamankallur Circles.</p> <p><b>1 Lingsugur Taluk (Part)</b></p> <p>3 Maski Circle.</p> <p><b>Lingasagur Circle (Part)</b></p> <p>Sanbal, Buddinni, Huvinabavi, Jangamarahalli, Basapur, Gonwar, Amaravathi, Kuppigudda and Sarjapura Villages.</p>
<b>7- DISTRICT: KOPPAL</b>		
60.	60. Kushtagi	<b>2 Kushtagi Taluk</b>
61.	61. Kanakagiri (SC)	<p><b>3 Gangawati Taluk (Part)</b></p> <p>3 Marali, 4 Siddapur, 5 Karatagi, 6 Kanakagiri, 7 Navali and 8. Hulihyder Circles.</p>
62.	62. Gangawati	<p><b>4 Koppal Taluk (Part)</b></p> <p>3 Irkalgada Circle</p> <p><b>3 Gangawati Taluk (Part)</b></p> <p>1 Gangavathi and 2 Venkatagiri Circles.</p>
63.	63. Yelbarga	<b>1 Yelbarga Taluk</b>
64.	64. Koppal	<p><b>4 Koppal Taluk (Part)</b></p> <p>1 Koppal, 2 Alavandi (Kavalur) and 4 Hitnal Circles.</p>

**8- DISTRICT: GADAG**

<b>65.</b>	<b>65. Shirahatti (SC)</b>	<b>4 Shirhatti Taluk</b> <b>5 Mundargi Taluk (Part)</b> 1 Mundargi Circle Mundargi TP
<b>66.</b>	<b>66. Gadag</b>	<b>3 Gadag Taluk (Part)</b> 1 Gadag, 2 Gadag Rural and 3 Mulgund Rural Circles. Gadag Betageri CMC Mulgund TMC
<b>67.</b>	<b>67. Ron</b>	<b>2 Ron Taluk (Part)</b> <b>2 Naregal Circle (Part)</b> <u>Abbigeri GP</u> Abbigeri, <u>Gogeri GP</u> Gogeri, Matarangi, Nagarashikoppa, <u>Halakeri GP</u> Halakeri, <u>Jakkali GP</u> , Budihal, Jakkali, Maranabasari, <u>Kuntoji GP</u> , Benachamatti, Goudageri, Jigeri, Kuntoji, Myakalzeri, Vadegol, <u>Lakkalakatti GP</u> , Amaragatti, Lakkalakatti, Nagendragad, Rudrapur, <u>Nidagundi GP</u> , Kalakapur, Nidagundi, <u>Rajur GP</u> , Bhairapur, Dindur, Rajur, <u>Rampur GP</u> , Chilzeri, Hirekoppa, Kodaganur, Purthageri, Rampur, Veerapur and <u>Sudi GP</u> Kalarhal villages. <b>Ron and Naregal TPs</b> <b>2 Ron Taluk (Part)</b> 1 Ron Circle Gajendragarh TMC <b>3 Gadag Taluk (Part)</b> <b>4 Betageri Circle (Part)</b> <u>Harlapur GP</u> Harlapur, Timmapur, <u>Kanaginahal GP</u> Kanaginahal and <u>Kotumachagi GP</u> Kotumachagi villages. <b>5 Mundargi Taluk (Part)</b> 2 Dambal Circle.
<b>68.</b>	<b>68. Nargund</b>	<b>1 Nargund Taluk</b> <b>2 Ron Taluk (Part)</b> 3 Holealur Circle <b>2 Naregal Circle (Part)</b>

		<p><u>D.S.Hadagali GP</u> D.S.Hadagali, Gujmagadi, <u>Kurudagi GP</u> Kurudagi, Nagaral and Yarebeleri villages.</p> <p><b>3 Gadag Taluk (Part)</b>  <b>4 Betageri Circle (part)</b>  <u>Adavisomapur GP</u> Adavisomapur, Balajinagar, Jalshankarnagar, Papanashi, <u>Balaganur GP</u> Balaganur, <u>Belahod GP</u> Belahod, H.S.Venkatapur, Madaganur, <u>Chikkahandigol GP</u> Chikkahandigol, Dundur, Shagoti, <u>Hatalageri GP</u> Hatalageri, Narasapur*, Sambhapur, <u>Hombal GP</u> Hombal, <u>Huilgol GP</u> Huilgol, Chikkoppa, Hirekoppa, Kiritageri, <u>Kadadi GP</u> Kadadi, Gavarawad, <u>Lakkundi GP</u> Lakkundi, <u>Lingadhal GP</u> Lingadhal, <u>Neeralagi GP</u> Neeralagi, Benakanakoppa and Nagasamudra villages.</p>
<b>9- DISTRICT: DHARWAD</b>		
69.	69. Navalgund	<p><b>2 Navalgund Taluk</b>  <b>3 Hubli Taluk (Part)</b>  3 Shiraguppi Circle</p>
70.	70. Kundgol	<p><b>5 Kundgol Taluk</b>  <b>3 Hubli Taluk (Part)</b>  1 Hubli and 2 Chabbi Circles.</p>
71.	71. Dharwad	<p><b>Hubli-Dharwad (M Corp.) (Part)</b>  Hubli-Dharwad (M Corp.) - Ward No. 3 to 10  <b>1 Dharwad Taluk (Part)</b>  2 Garag and 3 Amminabhavi Circles.</p>
72.	72. Hubli-Dharwad-East (SC)	<p><b>Hubli-Dharwad (M Corp.) (Part)</b>  Hubli-Dharwad (M Corp.) - Ward No.41, 45 and 48 to 67.</p>
73.	73. Hubli-Dharwad-Central	<p><b>Hubli-Dharwad (M Corp.) (Part)</b>  Hubli-Dharwad (M Corp.) - Ward No. 24 to 34, 38 to 40, 42 to 44, 46 and 47.</p>
74.	74. Hubli-Dharwad- West	<p><b>Hubli-Dharwad (M Corp.) (Part)</b>  Hubli-Dharwad (M Corp.) - Ward No.1, 2, 11 to 23 and 35 to 37.</p>

75.	75. Kalghatgi	<b>4 Kalghatgi Taluk</b> <b>1 Dharwad Taluk (Part)</b> 4 Alnavar and 1 Dharwad Circles. Alnavar TP
<b>10- DISTRICT: UTTARA KANNADA</b>		
76.	76. Haliyal	<b>2 Supa Taluk</b> <b>3 Haliyal Taluk</b> Dandeli CMC
77.	77. Karwar	<b>1 Karwar Taluk</b> <b>7 Ankola Taluk (Part)</b> 1 Ankola, 3 Bhasgod and 4 Belekeri Circles. Ankola TP
78.	78. Kumta	<b>8 Kumta Taluk</b> <b>7 Ankola Taluk (Part)</b> 2 Balale Circle. 10 Honavar Taluk (Part) 1 Honnavar Circle. Honavar TP
79.	79. Bhatkal	<b>11 Bhatkal Taluk</b> <b>10 Honavar Taluk (Part)</b> 3 Manki Circle. <b>2 Mavinkurva Circle (Part)</b> Arolli-Mundagod, Kulakod, Mavinkurva, Mandalakurve, Hosad, Berolli, Nagre, Nirwattikodla, Hadinbal, Mutta, Hosgod, Chikkankod, Kharwa, Koodla, Padukuli, Jalwal Karki, Kervalli, Jalwalli, Gundabala, Hirebail, Janna Kadkal, Heravali, Tumbolli, Melinamudkani, Kelgina-Mudkani, Adkar, Herangadi, Upponi, Mahime, Hanehallikabbinahakkal, Hulegar, Saralagi, Kudrige, Shirkur, Khandodi, Nagarabastikeri, Begodi and Hadgeri villages.

80.	80. Sirsi	<b>9 Siddapur Taluk</b> <b>6 Sirsi Taluk (Part)</b> 1 Sirsi (Rural) and 4 Sampakhand Circles. Sirsi CMC
81.	81. Yellapur	<b>4 Yellapur Taluk</b> <b>5 Mundgod Taluk</b> <b>6 Sirsi Taluk (Part)</b> 2 Banavasi and 3 Hulekal Circles.
<b>11- DISTRICT: HAVERI</b>		
82.	82. Hangal	<b>3 Hangal Taluk</b>
83.	83. Shiggaon	<b>1 Shiggaon Taluk</b> <b>2 Savanur Taluk (Part)</b> 1 Savanur Circle Savanur TMC
84.	84. Haveri (SC)	<b>Savanur Taluk (Part)</b> 2 Hattimattur Circle. <b>4 Haveri Taluk (Part)</b> 2 Karjagi and 3 Guttal Circles. Haveri TMC
85.	85. Byadgi	<b>5 Byadgi Taluk</b> <b>4 Haveri Taluk (Part)</b> 1 Haveri Circle <b>7 Ranibennur Taluk (Part)</b> <b>1 Ranebennur Circle (Part)</b> Hanumapur, Kakol, Venkatapur, Kajjari, Shidaganahal, Guddaguddapur, Honnatti, Yattinahalli, Kerimallapur, Guddadanveri, Kunabev, Asundi, Hulihalli, Yerekuppi, Laxmapur, Sarvanda, Veerapur, Ukkund, Benakanakond, Joisarahalalahalli, Tirumaladevarakoppa, Sunakalbidari, Guddadahosahalli, Guddadabevinahalli and Hediya villages.

86.	86. Hirekerur	<b>6 Hirekerur Taluk</b>
87.	87. Ranibennur	<b>7 Ranibennur Taluk (Part)</b> 2 Kuppelur and 3 Medleri Circles <b>1 Ranebennur Circle (Part)</b> Padmavathipur, Shrinivasapur, Magod, Devagondanakatti and Ranibennur (Rural) villages. Ranebennur CMC
<b>12- DISTRICT: BELLARY</b>		
88.	88. Hadagalli (SC)	<b>1 Hadagalli Taluk</b> <b>2 Hagaribommanahalli Taluk (Part)</b> 3 Hampasagara and 2 Kogali (Malvi) Circles.
89.	89. Hagaribommanahalli (SC)	<b>2 Hagaribommanahalli Taluk (Part)</b> 1 Hagaribommnahalli and 4 Thambrahalli Circles. <b>3 Hospet Taluk (Part)</b> 4 Mariyammanahalli and 1 Hospet Circles. <b>Hospet CMC (Part)</b> Hospet (CMC) - Ward No.1 to 6, 11, 12, 15 to 18, 26 to 28 and 32.
90.	90. Hospet	<b>3 Hospet Taluk (Part)</b> 2 Kamalapura Circle <b>3 Kampli Circle (Part)</b> Muddapura No.10 Ramasagara, Kanvithimmalapura, Devasamudra, Chikkajaiganur, Hirejaiganur, Hampadevanahalli, Jowku, Metri, Upparahalli, Devalapura, Jeeriganuru, Gonahal, Sugginahalli, Somalapuram, Sankalapuram, Mavinahalli and Honnahalli villages. Kamalapura TP <b>Hospet CMC (Part)</b> Hospet (CMC) - Ward No. 7 to 10, 13, 14, 19 to 25, 29 to 31 and 33 to 35.

91.	91. Kampli (ST)	<b>3 Hospet Taluk (Part)</b> <b>3 Kampli Circle (Part)</b> Belugodahal, Aarihalli and Sanapura villages. Muddapura No.2 Ittigi Kampli TMC <b>5 Bellary Taluk (Part)</b> 2 Kurugodu and 3 Kolar Circles.
92.	92. Siruguppa (ST)	<b>4 Siruguppa Taluk</b>
93.	93. Bellary (ST)	<b>5 Bellary Taluk (Part)</b> 1 Bellary, 4 Moka and 5 Rupanagudi Circles. <b>Bellary (CMC) (Part)</b> Bellary (CMC) - Ward No.23 to 30 and 32.
94.	94. Bellary City	<b>5 Bellary Taluk (Part)</b> <b>Bellary (CMC) (Part)</b> Bellary (CMC) - Ward No.1 to 22, 31 and 33 to 35. Bellary [R], Bisalahalli and Andralu.
95.	95. Sandur (ST)	<b>6 Sandur Taluk</b> <b>7 Kudligi Taluk (Part)</b> 2 Gudekote Circle.
96.	96. Kudligi (ST)	<b>7 Kudligi Taluk (Part)</b> 1 Kudligi, 3 Hosahalli and 4 Kottur Circles. Kottur TP Kudligi TP
<b>13- DISTRICT: CHITRADURGA</b>		
97.	97. Molakalmuru (ST)	<b>1 Molakalmuru Taluk</b> <b>2 Challakere Taluk (Part)</b> 2 Nayakanahatty and 3 Thalag Circles.
98.	98. Challakere (ST)	<b>2 Challakere Taluk (Part)</b> 1 Kasaba and 4 Parasurampura Circles.

		Challakere TMC <b>3 Chitradurga Taluk (Part)</b> 4 Turuvanur Circle
99.	99. Chitradurga	<b>3 Chitradurga Taluk (Part)</b> 1 Kasaba and 2 Hireguntanur Circles. Chitradurga CMC
100.	100. Hiriyur	<b>6 Hiriyur Taluk</b>
101.	101. Hosadurga	<b>5 Hosadurga Taluk</b>
102.	102. Holalkere (SC)	<b>4 Holalkere Taluk (Part)</b> 1 Kasaba, 2 Barmannanayakana, Durga 3 Ramgiri and 4 Talya Circles. Holalkere TP <b>Chitradurga Taluk (Part)</b> 3 Bharamasagara Circle.
<b>14- DISTRICT: DAVANAGERE</b>		
103.	103. Jagalur (ST)	<b>3 Jagalur Taluk</b> <b>2 Harapanahalli Taluk (Part)</b> <b>2 Arasikere Circle (Part)</b> <b>Arasikere GP-</b> Arasikere and Thimmalapura. <b>Hosakota GP-</b> Hosakota and Budihalu. <b>Uchhangidura GP -</b> Uchhangidura <b>Chatnihalli GP-</b> Chatnihalli and Ramaghatta. <b>Punabaghatta GP -</b> Punabaghatta and Kallugudi. <b>Tauduru GP-</b> Tauduru and Kayarakatte. <b>Anajigere GP-</b> Anajigere and Madihalli.
104.	104. Harapanahalli	<b>2 Harapanahalli Taluk (Part)</b> 1 Kasaba, 3 Telagi and 4 Chigateri Circle <b>2 Arasikere Circle (Part)</b> <b>Kanchikere GP -</b> Kanchikere and Hallikere. <b>Shingrihalli GP -</b> Shingrihalli and Sathuru.

		<b>Heremagalagere GP- Heremagalagere and Lakshmipura. Harapanahalli TP</b>
<b>105.</b>	<b>105. Harihar</b>	<b>1 Harihar Taluk</b>
<b>106.</b>	<b>106. Davanagere North</b>	<b>4 Davanagere Taluk (Part)</b> <b>1. Kasaba Circle (Part)</b> <b>Kakkaragolla GP-</b> 1.Kakkaragolla and 2.Kodihalli. <b>Kadalebalu GP-</b> 1. Kadalebalu, 2. Arasapura, 3. Obajjihalli and 4.Malagondanahalli. <b>Averegolla GP-</b> 1.Averegolla, 2.Devarahatti, 3. Chikkabuddihal and 4. Bhusavanahalli. <b>Kaddaji GP -</b> 1. Kaddajji, 2. Nagarakatte and 3. Puttaganal <b>Doddabathi GP-</b> 1. Doddabathi, 2. Halebathi, 3. Neelanahalli and 4. Agasanakatti. <b>Bethur GP -</b> Bethur <b>Kaidala GP (Part) -</b> Nayakanhalli <b>Aluru GP-</b> Mallapur <b>Basavanala GP -</b> Lingadahalli and Ramapur. <b>Davanagere (CMC) (Part)</b> Davanagere (CMC) - Ward No.3 to 10 and 26 to 35.
<b>107.</b>	<b>107. Davanagere South</b>	<b>4 Davanagere Taluk (Part)</b> <b>1. Kasaba Circle (Part)</b> <b>Mudhahadadi GP-</b> 1. Mudhahadadi, 2. Jarikatte and 3. Bisleri. <b>Shiramagondanahalli GP -</b> 1. Shiramagondanahalli, 2. Naganuru <b>Kannagondanahalli GP-</b> 1. Kannagondanahalli, 2. Adereahalli, 3. Kollenahalli, 4. Jadaganahalli, 5. Balluru and 6. Shiraganahalli. <b>Belavanur GP-</b> 1. Belavanur, 2. Turchagatta and 3. Chandrenahalli. <b>Hadadi GP-</b> 1. Hadadi, 2. Javalaghatta and 3. Bhatalakatte.

		<b>Kukavada GP</b> - Kukavada and Nagarasanahalli. <b>Kaidala GP (Part)</b> - Giriyapura and Kaidala. <b>Kurki GP</b> - Bullapur <b>Gopanala GP</b> - Gandamuktenhalli <b>Davanagere (CMC) (Part)</b> Davanagere (CMC) - Ward No.1, 2 and 11 to 25.
108.	108. Maya Konda (SC)	<b>6 Channagiri Taluk (Part)</b> 2 Basavapatna-I and 3 Basavapatna-II Circles. <b>4 Davanagere Taluk (Part)</b> - 2 Anagodu and 3 Mayakonda Circles
109.	109. Channagiri	<b>6 Channagiri Taluk (Part)</b> 1 Kasaba, 4 Santhebennur-I, 5 Santhebennur-II and 6 Ubrani Circles. Channagiri TP
110.	110. Honnali	<b>5 Honnali Taluk</b>
<b>15- DISTRICT: SHIMOGA</b>		
111.	111. Shimoga Rural (SC)	<b>7 Bhadravati Taluk (Part)</b> 4 Holehonnur- I, 5 Holehonnur- II and 6 Holehonnur- II Circles. <b>3 Kudligere Circle (Part)</b> Thallikatte, Nagathibelagalu, Hosahalli, Kalpanahalli, Sitaramapura, Kagekodamagge, Baballi, Gowdarahalli, Majjigenahalli, Veerapura, Thiplapura, Aralihalli, Komaranahalli, Devarahalli, Kachagondanahalli, Devaranarasipura, Koralakoppa, Guddadaneralakere, Basalikatte, Athigunda, Kudligere, Kodihalli, Kottadalu and Bandigudda villages. <b>6 Shimoga Taluk (Part)</b> 2 Kasaba- II, 3 Nidige- I, 5 Holalur- I and 6 Holalur- II Circles.

112.	112. Bhadravati	<b>7 Bhadravati Taluk (Part)</b> 1 Kasaba- I and 2 Kasaba- II Circles <b>3 Kudligere Circle (Part)</b> Guninarasipura, Yarehalli, Antaragange, Bisilamane, Nettekallahatti, Dodderi, Yammedoddi, Balekatte, Varavinakere, Kenchammanahalli, Ukkunda and Gangooru villages. Bhadravati CMC
113.	113. Shimoga	<b>6 Shimoga Taluk (Part)</b> 1 Kasaba- I Circle
114.	114. Tirthahalli	<b>5 Tirthahalli Taluk</b> <b>6 Shimoga Taluk (Part)</b> 4 Nidige- II, 7 Harnahalli and 8 Kumsi Circles.
115.	115. Shikarpur	<b>3 Shikarpur Taluk</b>
116.	116. Sorab	<b>2 Sorab Taluk</b> <b>1 Sagar Taluk (Part)</b> 2 Kasaba Circle.
117.	117. Sagar	<b>4 Hosanagara Taluk</b> <b>1 Sagar Taluk (Part)</b> 3 Avinahalli, 4 Talaguppa, 5 Bharangi, 6 Karur and 1 Anandapuram Circles.
<b>16- DISTRICT: UDUPI</b>		
118.	118. Byndoor	<b>1 Kundapura Taluk (Part)</b> 1 Byndoor Circle. <b>2. Vandse Circle (Full)</b> Trashi, Hosadu, Gujjadi, Uppinakudru, Tellur, Hattiangadi, Kanyana, Kattabelthoor, Hemmadi, Hakladi, Senapur, Harkoor, Kundabarandadi, Noojadi, Devaikunda, Kenchanoor, Gulvadi, Karkunje, Vandse, Aloor, Idurkunhadi, Chittoor, Hosoor, Keradi, Bellal, Kodladi, Kavrady, Halnad, Ampar, Shankaranarayana, Siddapur, Ajri, Edmoge, Hosangadi,

		Machattu, Ulloor 74, Kulanje and Gangolli villages.
119.	119. Kundapura	<b>1 Kundapura Taluk (Part)</b> 3 Kundapura Circle. Kundapura TMC <b>2 Udupi Taluk (Part)</b> 1 Kota Circle.
120.	120. Udupi	<b>Udupi Taluk (Part)</b> <b>Udupi Circle (Part)</b> Badanidiyoor, Tenkanidiyur and Kelarkalabettu villages. <b>2 Brahmavara Circle (Part)</b> Tonse West, Haradi, Varamballi, Kumragod, Handady, Matpady, Chanthar, 52 Heroor, Baikady, Tonse East, Uppoor, Havanje, Aroor, Neelavar, Cherkady, Haluvalli, Pejamangoor, 34 Kudi, Nanchar, Nalkur, Kenjoor, 38 Kalthur and Hosoor villages. Udupi (CMC+OG)
121.	121. Kaup	<b>2 Udupi Taluk (Part)</b> 4 Kaup Circle. <b>Brahamavara Circle (Part)</b> Bellampalli, Kukkehalli, Perdoor, Bairampalli, Bellarpadi and 41 Shiroor villages. <b>Udupi Circle (Part)</b> Bommarabettu, Anjaru, Kudi, Udyavara, Korangrapadi, Athradi, Hirebettu, Badagabettu, Pernankili, Manipura, Marne and Alevooru villages.
122.	122. Karkal	<b>3 Karkal Taluk</b>
<b>17- DISTRICT: CHICKMAGALUR</b>		
123.	123. Sringeri	<b>1 Sringeri Taluk</b> <b>2 Koppa Taluk</b> <b>3 Narasimharajapura Taluk</b> <b>6 Chikmagalur Taluk (Part)</b> 4 Kandya Circle.

124.	124. Mudigere (SC)	6 Chikmagalur Taluk (Part) 2 Amble, 3 Avathi, 6 Vasthare and 7 Aldur. 7 Mudigere Taluk
125.	125. Chikmagalur	6 Chikmagalur Taluk (Part) 8 Lakya, 1 Kasaba and 5 Jagara Circles. Chikmagalur CMC 5 Kadur Taluk (Part) 5 Sakrepatna Circle.
126.	126. Tarikere	4 Tarikere Taluk
127.	127. Kadur	5 Kadur Taluk (Part) 1 Kasaba, 2 Hirehallur, 3 Yagati and 4 Singatagere and 6 Birur Circles. Kadur TMC and Birur TMC.
<b>18- DISTRICT: TUMKUR</b>		
128.	128. Chiknayakanhalli	1 Chiknayakanhalli Taluk 2 Sira Taluk (Part) 3 Bukkapatna Circle
129.	129. Tiptur	8 Tiptur Taluk
130.	130. Turuvekere	9 Turuvekere Taluk 7 Gubbi Taluk (Part) 5 C.S. Pura Circle 6 Kadaba Circle (Part) <u>Hindasgere GP-</u> Belur, Bittagondanahalli, Chamanahalli, Harivesandra, K, Kamba Sandra, Kenchaviranahalli, V. Kodihalli, <u>Kalur GP-</u> Benkena Gondl, Billnandi, K. Kallahalli, Kallur, <u>Peddannahalli GP-</u> Bochihalli, Kadabagadde Kaval, Kunaghatta, Mathighatta, Melekallahalli, Peddannahalli, Pendaranahalli, Vadavana Ghatta and Varahasandra villages.
131.	131. Kunigal	10 Kunigal Taluk
132.	132. Tumkur City	6 Tumkur Taluk (Part) Tumkur CMC

<b>133.</b>	<b>133. Tumkur Rural</b>	<b>6 Tumkur Taluk (Part)</b> 1 Kasaba, 2 Urdigere, 3 Gulur, 4 Hebbur and 5 Bellavi Circles.
<b>134.</b>	<b>134. Koratagere (SC)</b>	<b>5 Koratagere Taluk</b> <b>4 Madhugiri Taluk (Part)</b> 6 Puruvara Circle. <b>6 Tumkur Taluk (Part)</b> 6 Kora Circle.
<b>135.</b>	<b>135. Gubbi</b>	<b>Sira Taluk (Part)</b> 1 Kasaba, 2 Chelur, 3 Hagalavadi and 4 Nittur Circles. Gubbi TP <b>6 Kadaba Circle (Part)</b> <b>Belavatha GP-</b> Ambarapura, Aremaranahalli, B. Kodihalli, Belavatha, Karigondanahalli and Thogrighatta. <b>Doddaguni GP-</b> Peramasandra <b>G Hosahalli GP -</b> Kattiginahalli <b>Kadaba GP-</b> Adagondanahalli, Bydagere, Byalahalli, Dasarakallahalli, Gangasnadra, Gorjihalli, K. Ramapura, Kadaba, Kadaba Amanikere, Kadasettyhalli, Kommanahalli and Manchihalli. <b>Koppa GP-</b> Byadaramallenahalli, Gulenahalli, Hallenahalli, Honnasettyhalli, Konanakere, Konemadenahalli, Koppa and Yadavanahalli. <b>Kunnala GP-</b> Chakenahalli, Jeeganahalli, Kunnala, Lingammanahalli and Yalachihalli. <b>Marasettyhalli GP-</b> Athikatte, B. Ramapura, Badenahalli, Bennur, Channavaderahalli, Donnere, Haragaladevgudda Kaval, Janakadevanahalli, Kodimallenahalli and Marasettyhalli.
<b>136.</b>	<b>136. Sira</b>	<b>2 Sira Taluk (Part)</b> 1 Kasaba, 2 Kallambella 4 Gowdagere and 5 Hulikunte Circles. Sira TMC

137.	137. Pavagada (SC)	3 Pavagada Taluk
138.	138. Madhugiri	4 Madhugiri Taluk (Part) 1 Kasaba, 2 Dodderi, 3 Midigeshi, 4 I.D.Halli and 5 Kodigenahalli Circles. Madhugiri TMC
<b>19- DISTRICT: KOLAR</b>		
139.	139. Gauribidanur	1 Gauribidanur Taluk (Part) 1 Kasaba, 2 Hossur, 3 Thondebhavi, 5 D.Palya and 6 Nagaragere Circles. Gauribidanur TMC
140.	140. Bagepalli	3 Gudibanda Taluk 4 Bagepalli Taluk
141.	141. Chik Ballapur	2 Chik Ballapur Taluk 1 Gauribidanur Taluk (Part) 4 Manchenahalli Circle.
142.	142. Sidlaghatta	5 Sidlaghatta Taluk 6 Chintamani Taluk (Part) 6 Chilakalanerpu Circle.
143.	143. Chintamani	6 Chintamani Taluk (Part) 1 Kasaba, 2 Murugamalla, 3 Ambajidurga, 4 Munganahalli and 5 Kaiwara Circles. Chintamani CMC
144.	144. Srinivasapur	7 Srinivasapur Taluk 8 Kolar Taluk (Part) 6 Holur and 5 Sugatur Circles.
145.	145. Mulbagal (SC)	11 Mulbagal Taluk
146.	146. Robertsonpet (SC)	10 Bangarapet Taluk (Part) 4 Bethamangala and 5 Kyasamballi Circles. Robertson Pet CMC 2 Robertsonpet Circle (Part)

		Yerranagannahalli, Chinnapalli, Mallampalli-Ryagadahalli, Nakkanahalli, Kallikuppa, Thongal M. Kothur, Marikuppa, Surapalli, Baliganahalli, Giddegowdanahalli, Chinnaganahalli, Keelukambali, Doddakambali, Byrnapalli, Lakshmisagara and Ghattamadamangala villages.
147.	147. Bangarapet (SC)	<p><b>10 Bangarapet Taluk (Part)</b></p> <p>1 Kasaba Circle</p> <p><b>2 Robertsonpet Circle (Part)</b></p> <p><u>Chinnakote GP</u> Chinkote, Thammehalli <u>Doddavalagamadhi GP</u> Ajjapalli, Buragamakenahalli, Byraganahalli, Chikkakrimanahalli, Doddachinnapalli, Doddavalagamadhi, Iymarasapura, <u>Doddurkarpanhalli GP</u>, Dasarahosahalli, Doddurkarpanhalli, Dodduru Karapanahalli Plantation, <u>Ghattakamadenahalli GP</u> Gattarayagadahalli, Ghattakamadenahalli, Krishnarajapura, Peddapalli, <u>Hunukunda GP</u>, Doddarahalli, Ganacharapura, Hunukunda, Kurubarahalli, Madamuthanahalli, Mittamalahalli, Pitchaguntrahalli, <u>Kamasamudra GP</u>, Maliyangurki, Maliyangurki Amanikere, <u>Karahalli GP</u>, Kavaraganahalli, <u>Kesaranhalli GP</u> Kesaranhalli, <u>Mavahalli GP</u>, Alaganahalli, Chaliganhalli, Kamandahalli, Manchenahalli, Mavahalli and Vadandahalli villages.</p> <p>3 Kamasamudra and 6 Boodikote Circles.</p> <p>Bangarapet TMC</p> <p><b>8 Kolar Taluk (Part)</b></p> <p>7 Huttur Circle.</p>
148.	148. Kolar	<p><b>8 Kolar Taluk (Part)</b></p> <p>2 Vokkaleri, 3 Narasapura and 4 Vemgal Circles.</p> <p>1 Kolar Kasaba Circle entire</p> <p>Kolar CMC and Forest Area</p>
149.	149. Malur	<b>9 Malur Taluk</b>

**20- DISTRICT: BANGALORE**

150.	150. Bangalore North	<b>1 Bangalore North Taluk Rural (Part)</b> 3 Dasanapura and 4 Hesaraghatta Circles <b>6 Yelahanka Circle (Part)</b> Srinivasapura, Manchenahalli, Vasudevapura, Harohalli, Gantiganahalli, Ramgondanahalli, Kenchenahalli, Govindapura, Singanayakanahalli, Ananthapura, Nagadasanhalli, Avalhalli, Muddenahalli, Honnenahalli, Jarakabande Kaval, Dodabettahalli, Chikkabettahalli, Veerasagara, Vaderahalli, Mediagrahara and Shamarajapura villages. <b>Yelahanka (CMC) (Part)</b> Yelahanka (CMC) - Ward No.1 to 17 and 20 to 32.
151.	151. K.R.Pura	<b>Bangalore East Taluk (Part)</b> 1 K.R.Pura Circle K.R.Pura CMC
152.	152. Byatarayanapura	<b>1 Bangalore North Taluk Rural (Part)</b> Byatarayanapura CMC <b>1 Bangalore North Taluk Rural (Part)</b> 5 Jala Circle <b>6 Yelahanka Circle (Part)</b> Bellahalli, Tirumenahalli, Chokkanalli, Sampigehalli, Venteshapura and Shivapura villages. Yelahanka Circle OG <b>Yelahanka (CMC) (Part)</b> Yelahanka (CMC) - Ward No.18 and 19.
153.	153. Yeshvanthapura	<b>1 Bangalore North Taluk Rural (Part)</b> <b>2 Yeshvanthapura Circle (Part)</b> Kariobanahally, Herohally, Hondrahally, Lingadeeranahally, Ullalu, Gidadakonenahally, Kodigehally, Kannahally,

		<p>Managanhally, Seegehally, Hosahally Gollarapalya, Doddabidarakallu, Thirumalapura, Sidedahally and Kereguddadahally villages.</p> <p><b>3 Bangalore South Taluk (Part)</b> 1Tavarekere and 2 Kengeri Circles. Kengeri TMC</p> <p><b>Uttarahalli Circle (Part)</b> <b>Kaggalipur GP-</b> Uttari, Kaggalipura and O.B.chudahalli. <b>Somanahalli GP-</b> Vaddarapalya, Sunkadakatte, Ravagodlu, Nettigere, Somanahalli, Nellaguli, K. Chudahalli and Naganayakanahalli. <b>Taralu GP-</b> Gulakamale, Taralu, Alakabelapura and Thattaguppe. <b>Talaghattapura GP-</b> 1. Talaghattapura, 2.Mallasandra, 3. Vajarahalli, 4. Hosahalli, 5. Raghuvarnahalli and 6. Uttarahalli manavarthe kaval.</p>
154.	154. Pattanagere	<p><b>1 Bangalore North Taluk Rural (Part)</b> Pattanagere CMC</p> <p><b>Dasarahalli (CMC+OG) (Part)</b> Dasarahalli (CMC) - Ward No.26 and 30 to 32.</p> <p><b>Bangalore (M Corp.+OG) (Part)</b> Bangalore (M Corp.) - Ward No.1 to 3 and 11.</p>
155.	155. Dasarahalli	<p><b>1 Bangalore North Taluk Rural (Part)</b> <b>2 Yeshwanthapura Circle (Part)</b> Chikkabanavara, Ganigarahally, Chikkasandra, Abbigere, Somashettihally, Laxmipura, Shettihally and Medarahally villages.</p> <p><b>Dasarahalli (CMC+OG) (Part)</b> Dasarahalli (CMC) - Ward No.1 to 25, 27 to 29 and 33 to 35.</p>
156.	156. Bangalore City 1	<p><b>Bangalore (M Corp.+OG) (Part)</b> Bangalore (M Corp.) - Ward No.10, 12 to 14, 16 and 17.</p>

157.	157 Bangalore City 2	<b>Bangalore (M Corp.+OG) (Part)</b> Bangalore (M Corp.) - Ward No.4, 5, 7 to 9 and 99.
158.	158 Bangalore City 3	<b>Bangalore (M Corp.+OG) (Part)</b> Bangalore (M Corp.) - Ward No.96 to 98 and 100.
159.	159 Bangalore City 4 (SC)	<b>Bangalore (M Corp.+OG) (Part)</b> Bangalore (M Corp.) - Ward No.90, 91, 93 and 95.
160.	160 Bangalore City 5	<b>Bangalore (M Corp.+OG) (Part)</b> Bangalore (M Corp.) - Ward No. 86 to 89 and 94.
161.	161 Bangalore City 6	<b>Bangalore (M Corp.+OG) (Part)</b> Bangalore (M Corp.) - Ward No.72 to 74 and 82 to 84.
162.	162 Bangalore City 7	<b>Bangalore (M Corp.+OG) (Part)</b> Bangalore (M Corp.) - Ward No.78 to 81, 85 and 92.
163.	163 Bangalore City 8	<b>Bangalore (M Corp.+OG) (Part)</b> Bangalore (M Corp.) - Ward No.69 to 71 and 75 to 77.
164.	164 Bangalore City 9	<b>Bangalore (M Corp.+OG) (Part)</b> Bangalore (M Corp.) - Ward No. 6, 25 to 29 and 31.
165.	165 Bangalore City 10	<b>Bangalore (M Corp.+OG) (Part)</b> Bangalore (M Corp.) - Ward No.15, 18 to 20 and 22 to 24.
166.	166 Bangalore City 11	<b>Bangalore (M Corp.+OG) (Part)</b> Bangalore (M Corp.) - Ward No.21 and 35 to 39.
167.	167 Bangalore City 12	<b>Bangalore (M Corp.+OG) (Part)</b> Bangalore (M Corp.) - Ward No.32 to 34 and 40 to 42.
168.	168 Bangalore City 13 (SC)	<b>Bangalore (M Corp.+OG) (Part)</b> Bangalore (M Corp.) - Ward No.30 and 43 to 46.
169.	169 Bangalore City 14	<b>Bangalore (M Corp.+OG) (Part)</b> Bangalore (M Corp.) - Ward No.47 to 50, 61 and 62.
170.	170 Bangalore City 15	<b>Bangalore (M Corp.+OG) (Part)</b> Bangalore (M Corp.) - Ward No.51 to 54.
171.	171 Bangalore City 16	<b>Bangalore (M Corp.+OG) (Part)</b> Bangalore (M Corp.) - Ward No. 55, 56 and 59.

172.	172 Bangalore City 17	<b>Bangalore (M Corp.+OG) (Part)</b> Bangalore (M Corp.) - Ward No.63 and 65 to 68.
173.	173 Bangalore City 18	<b>Bangalore (M Corp.+OG) (Part)</b> Bangalore (M Corp.) - Ward No.57, 58, 60 and 64.
174.	174. Bangalore East (SC)	<b>Bangalore East Taluk (Part)</b> Bidarahalli Circle (Excl.Channasandra (OG) - Ward No.33) 2 Varthur Circle <b>Mahadevapura CMC</b> Channasandra (OG) - Ward No. 33.
175.	175. Bommanahalli	<b>Bangalore South Taluk &amp; Anekal Taluk (Parts)</b> Bommanahalli CMC
176.	176. Bangalore South	<b>3 Bangalore South Taluk (Part)</b> 4 Begur Circle <b>3 Uttarahalli Circle (Part)</b> <b>SUBRAMANYAPURA GP-</b> 1.Subramanyapura, 2.Vasanthapura, 3. Gubbalalu and 4. Vaddarapalya. <b>UTTARAHALLI GP-</b> 1. Uttarahalli, 2. Arehalli and 3. Turalli. <b>ANJANAPURA GP-</b> 1. Anjanapura, 2. Prillaganahalli, 3. Kembathhalli, 4. Gollahalli and 5. Thippasandra. <b>GOTTIGERE GP-</b> 1. Gottigere <b>KOTTANOOR GP-</b> 1.Kottanoor and 2. Raghuvanapalya. <b>DODDAKALLA SANDRA GP-</b> 1. Doddakallasandra and 2. Alahalli <b>KONANAKUNTE GP-</b> 1. Konanakunte (C.T.) and 2. Chunchagatta. <b>4 Anekal Taluk (Part)-</b> 2 Jigani Circle. <b>Pattanagere CMC (Part)</b> Pattanagere CMC - Ward No.28 to 31. Pattanagere CMC - Ward No.32 (OG).

177.	177. Anekal (SC)	4 Anekal Taluk (Part) 1 Kasaba, 3 Attibele and 4 Sarjapura Circles. Anekal TMC
<b>21- DISTRICT: BANGALORE RURAL</b>		
178.	178. Hosakote	4 Hosakote Taluk
179.	179. Devanahalli (SC)	3 Devanahalli Taluk 2 Dod Ballapur Taluk (Part) 5 Thubagere Circle.
180.	180. Dod Ballapur	2 Dod Ballapur Taluk (Part) 2 Madure, 3 Doddabelavangala, 4 Sasalu and 1 Kasaba Circles. Doddaballapura CMC
181.	181. Nelamangala (SC)	5 Magadi Taluk (Part) 5 Solur Circle 1 Nelamangala Taluk
182.	182. Magadi	6 Ramanagaram Taluk (Part) 2 Bidadi and 4 Kutagal Circles. 5 Magadi Taluk (Part) 1 Kasaba, 2 Madabal, 3 Thippasandra and 4 Kudur Circles. Magadi TMC
183.	183. Ramanagaram	8 Kanakapura Taluk (Part) 2 Harohalli and 3 Doddamaralawadi Circles. 6 Ramanagaram Taluk (Part) 1 Kasaba and 3 Kylanchara Circles. Ramanagar CMC
184.	184. Kanakapura	8 Kanakapura Taluk (Part) 1 Kasaba, 4 Kodihalli, 5 Uyyamballi and 6 Sathnur Circles. Kanakapura TMC
185.	185. Channarayana	7 Channarayana Taluk

<b>22- DISTRICT: MANDYA</b>		
<b>186.</b>	<b>186. Malavalli (SC)</b>	<b>7 Malavalli Taluk</b>
<b>187.</b>	<b>187. Maddur</b>	<b>6 Maddur Taluk (Part)</b> 1 Kasaba - I, 2 Kasaba - II, 5 Koppa - III, 6 Athagur, 7 C.A.Kere-I, 8 C.A.Kere - II and 9 C.A. Kere -III Circles. Maddur TMC
<b>188.</b>	<b>188. Pandavapura</b>	<b>3 Pandavapura Taluk</b> <b>5 Mandya Taluk (Part)</b> 7 Dudda Circle-I <b>8 Dudda Circle-II (Part)</b> Gunayakanahalli, Mardipura, Shambunahalli, H. Malligere, Shivahalli, Ganadalu, Mallanayakanakatte, Sampalli, Beeregowdanahalli, B. Hosahalli, Holalu, Chanagalu, Bilaguli, Modachakanahalli and T, Malligere villages.
<b>189.</b>	<b>189. Mandya</b>	<b>5 Mandya Taluk (Part)</b> 1 Kasaba Circle-I, 2 Keragodu Circle-I, 3 Keragodu Circle-II, 4 Kasaba Circle-II, 5 Basaralu Circle-I and 6 Basaralu Circle-II <b>Mandya CMC</b>
<b>190.</b>	<b>190. Shrirangapattana</b>	<b>4 Shrirangapattana Taluk</b> <b>5 Mandya Taluk (Part)</b> <b>8 Dudda Circle - II (Part)</b> Kiragandur village. 5 Kothathi -I and 6 Kothathi -II Circles.
<b>191.</b>	<b>191. Nagamangala</b>	<b>2 Nagamangala Taluk</b> <b>6 Maddur Taluk (Part)</b> 3 Koppa - I and 4 Koppa - II Circles.
<b>192.</b>	<b>192. Krishnarajpet</b>	<b>1 Krishnarajpet Taluk</b>

**23- DISTRICT: HASSAN**

193.	193. Sharavana Belagola	<b>8 Channarayapatna Taluk (Part)</b> 1 Kasbha, 2 Hirisave, 3 Sharavana belagola, 4 Nuggehalli and 5 Bagur Circles. Channarayapatna TMC
194.	194. Arsikere	<b>3 Arsikere Taluk (Part)</b> 1 Kasaba, 2 Kanakatte, 3 Banavara and 4 Gandasi Circles. Arsikere TMC
195.	195. Belur	<b>2 Belur Taluk</b> <b>3 Arsikere Taluk (Part)</b> 5 Javgal Circle.
196.	196. Hassan	<b>4 Hassan Taluk (Part)</b> 1 Kasaba and 5 Salagame Circles. Hassan (CMC+OG)
197.	197. Hole Narsipur	<b>4 Hassan Taluk (Part)</b> 3 Shantigrama and 4 Dudda Circles. <b>8 Channarayapatna Taluk (Part)</b> 6 Dandiganahalli Circle. <b>7 Hole Narsipur Taluk (Part)</b> 1 Kasaba and 2 Halekote Circles. Hole Narsipur TMC
198.	198. Arkalgud	<b>6 Arkalgud Taluk</b> <b>7 Hole Narsipur Taluk (Part)</b> 3 Hallimysore Circle.
199.	199. Sakleshpur (SC)	<b>1 Sakleshpur Taluk</b> <b>5 Alur Taluk</b> <b>4 Hassan Taluk (Part)</b> 2 Kattaya Circle.

**24- DISTRICT: DAKSHINA KANNADA**

200.	200. Beltangadi	<b>3 Beltangadi Taluk</b>
201.	201. Surathkal	<b>1 Mangalore Taluk (Part)</b> 2 Surathkal, 4 Moodabidri and 5 Mulki Circles. Mudbidri TMC Mulki TP

202.	202. Mangalore City North	<b>1 Mangalore Taluk (Part)</b> 3 Gurupura Circle <b>Mangalore M Corp. (Part)</b> Mangalore (M Corp.) - Ward No. 1 to 20, 22 and 23.
203.	203. Mangalore City South	<b>1 Mangalore Taluk (Part)</b> <b>Mangalore M Corp. (Part)</b> Mangalore (M Corp.) - Ward No. 21 and 24 to 60.
204.	204. Mangalore	<b>1 Mangalore Taluk (Part)</b> 1 Mangalore -B Circle Ullal TP <b>2 Bantval Taluk (Part)</b> <b>2 Panemangalore Circle (Part)</b> Meremajalu, Kodman, Sajipanadu (Nadupadu), Sajipapadu, Chelur, Kurnad, Phajeer, Kairangala, Naringana, Balepuni and Ira Villages Pudu (CT) Thumbe (CT)
205.	205. Bantval	<b>2 Bantval Taluk (Part)</b> 1 Bantwal Circle. <b>2 Panemangalore Circle (Part)</b> Kariyangala, Badaga Bellur, Tenkabellur, Ammunje, Kallige, Munnuru, Sajipamuda, Amtoor, Narikombu, Shambhoor, Manchi, Golthamajal, Balthila, Barimar and Kadeshwalya villages. <b>3 Vittal Circle (Part)</b> Bolanthuru, Veerakamba, Ananthadi, Mani, Peraje, Netlamudnur, Kolnadu, Vittalpadanur, Salethur, Karopady and Kanyana villages Bantval TP
206.	206. Puttur	<b>2 Bantval Taluk (Part)</b> <b>3 Vittal Circle (Part)</b>

		<p>Biliyur, Perne, Kedila, Vittal, Peruvai, Manila, Alike, Idkidu, Kula, Vittalmudnoor, Kepu and Punacha villages.</p> <p><b>4 Puttur Taluk (Part)</b></p> <p>3 Puttur Circle</p> <p><b>1 Uppinangady Circle (Part)</b></p> <p>Kabaka (Rural), Kudipadi, Padnoor (Rural), Bannur (Rural), Kodimbady, Chickamudnoor (Rural), Bellipadi, Nekkiladi, Hirebandadi, Uppinangady and Bajathuru villages.</p> <p>Puttur TMC</p>
207.	207. Sulya (SC)	<p><b>6 Sulya Taluk</b></p> <p><b>4 Puttur Taluk (Part)</b></p> <p>2 Kadaba Circle</p> <p><b>1 Uppinangady Circle (Part)</b></p> <p>Golihattu, Alanthaya, Konalu, Nelyadi, Kowkradi, Ichlampady, Konaje, Shirady and Shiribagilu villages.</p>
<b>25- DISTRICT: KODAGU .</b>		
208.	208. Madikeri	<p><b>2 Somvarpet Taluk</b></p> <p><b>1 Madikeri Taluk (Part)</b></p> <p>1 Madikeri Circle.</p> <p>Madikeri CMC</p>
209.	209. Virajpet	<p><b>3 Virajpet Taluk</b></p> <p><b>1 Madikeri Taluk (Part)</b></p> <p>2 Sampaje, 3 Bhagamandala and 4 Napoklu Circles.</p>
<b>26- DISTRICT: MYSORE</b>		
210.	210. Piriapatna	<b>1 Piriapatna Taluk</b>
211.	211. Krishnarajanagara	<b>Krishnarajanagara Taluk</b>
212.	212. Hunsur	<b>2 Hunsur Taluk</b>
213.	213. Heggadadevankote (ST)	<b>5 Heggadadevankote Taluk</b>
214.	214. Nanjangud (SC)	<p><b>6 Nanjangud Taluk (Part)</b></p> <p>1 Kasaba and 2 Hullahalli Circles.</p>

		<b>5 Doddakowlande Circle (Part)</b> Hedathale, Basavattige, Devanur, Chikkakowlande, Nerale, Hemmaragala, Kumbarahalli, Hosapura, Koodlapura, Bagooru, Tharadale, Mallahalli, Hampapura, Halepura, Gattavadipura, Haraganapur, Gattavadi and Doddakowlande Villages. Nanjangud TMC
215.	215. Chamundeshwari	<b>4 Mysore Taluk (Part)</b> 3 Elwala, 4 Kasaba and 1 Jayapura Circles. <b>Mysore M corp. (Part)</b> Mysore (M Corp.) - Ward No.19
216.	216. Krishnaraja	<b>4 Mysore Taluk (Part)</b> <b>Mysore M corp. (Part)</b> Mysore (M Corp.) - Ward No.1 to 18, 20, 62 and 63.
217.	217. Chamaraja	<b>4 Mysore Taluk (Part)</b> <b>Mysore M corp. (Part)</b> Mysore (M Corp.) - Ward No. 21 to 43 and 61.
218.	218 Mysore Purab	<b>4 Mysore Taluk (Part)</b> <b>Mysore M corp. (Part)</b> Mysore (M Corp.) - Ward No.44 to 60, 64 and 65.
219.	219. Varuna	<b>4 Mysore Taluk (Part)</b> 2 Varuna Circle. <b>6 Nanjangud Taluk (Part)</b> 3 Chikkaiahna-Chatra and 4 Biligere Circles. <b>5 Doddakowlande Circle (Part)</b> Varahalli, Kakkarahatti, Banooru, Hadya, Karepura, Karya, Chunchanahalli, Konanoor, Konanapura, Paduvalamarahalli, Ramasettipura, Hanumanapura, Paduvala Agrahara, Dasanooru, Doddahomma, Chikkahomma and Thoravalli villages. <b>7 Tirumakudal Narsipur Taluk (Part)</b> 1 Kasaba Circle.

220.	220. T.Narasipur (SC)	7 Tirumakudal Narsipur Taluk (Part) 2 Mugur, 3 Talakad, 4 Sosale and 5 Bannur Circles. Bannur TP Tirumakudal - Narsipur TP
<b>27- DISTRICT: CHAMARAJANAGAR</b>		
221.	221. Hanur	4 Kollegal Taluk (Part) 2 Palya, 3 Hanur, 4 Ramapura and 5 Lokkanahalli Circles. Hanur TP
222.	222. Kollegal (SC)	3 Yelandur Taluk 4 Kollegal Taluk (Part) 1 Kasaba Circle. Kollegal TMC Chamarajanagar Taluk (Part) 4 Santhemarahalli Circle.
223.	223. Chamarajanagar	2 Chamarajanagar Taluk (Part) 1 Kasaba, 2 Haradanahalli and 5 Chandakavadi Circles. 3 Harave Circle (Part) Nanjedevanapura, Kalanahundi, Veeranapura, Hangarepura, Udigala, Devalapura, Maduvinaabeddu, Uganedahundi, Badagalapura, Katnavadi, Kothalavadi, Kaggalipura and Thammadahalli villages. Chamarajanagar CMC Ramasamudra Rural
224.	224. Gundlupet	1 Gundlupet Taluk 2 Chamarajanagar Taluk (Part) 3 Harave Circle (Part) Sanegala, Heggavadi, Bujaganapura, Kerehalli, Aralikatte, Kebbepura, Chikkabegur, Hirebegur, Kilalipura, Mukkadahalli, Govindavadi, Harave, Maliyuru, Kulagana, Mudnakodu, Bettadapura, Sagade, Kethahalli, Kengaki and Kumachahalli Villages.

**TABLE – B**  
**PARLIAMENTARY CONSTITUENCIES AND THEIR EXTENT**

<b>Sl. No. &amp; Name of Parliamentary Constituency</b>	<b>Extent in terms of New Assembly Constituencies</b>
<b>1-Chikodi</b>	1. Sadalga, 2. Chikodi, 3. Athni, 4. Kagawad, 5. Kudachi (SC), 6. Raybag (SC), 7. Hukeri and 10. Yemkanmardi (ST).
<b>2-Belgaum</b>	8. Arabhavi, 9. Gokak, 11. Belgaum Uttar, 12. Belgaum Dakshin, 13. Belgaum Rural, 16. Bailhongal, 17. Saundatti Yellamma and 18. Ramdurg.
<b>3-Bagalkot</b>	19. Mudhol (SC), 20. Terdal, 21. Jamkhandi, 22. Bilgi, 23. Badami, 24. Bagalkot, 25. Hungund and 68. Nargund.
<b>4-Bijapur</b>	26. Muddebihal, 27. Devar Hippargi, 28. Basavana Bagevadi, 29. Babaleshwar, 30. Bijapur City, 31. Nagthan (SC), 32. Indi and 33. Sindgi.
<b>5-Gulbarga (SC)</b>	34. Afzalpur, 35. Jevargi, 39. Gurmitkal, 40. Chitapur (SC), 41. Sedam, 43. Gulbarga Rural (SC), 44. Gulbarga Dakshin and 45. Gulbarga Uttar.
<b>6-Raichur (ST)</b>	36. Shorapur (ST), 37. Shahpur, 38. Yadgir, 53. Raichur Rural (ST), 54. Raichur, 55. Manvi (ST), 56. Devadurga (ST) and 57. Lingsugur (SC).
<b>7-Bidar (SC)</b>	42. Chincholi (SC), 46. Aland, 47. Basavakalyan, 48. Hornabad, 49. Bidar South, 50. Bidar, 51. Bhalki and 52. Aurad (SC).
<b>8-Koppal</b>	58. Sindhur, 59. Maski (ST), 60. Kushtagi, 61. Kanakagiri (SC), 62. Gangawati, 63. Yelbarga, 64. Koppal and 92. Siruguppa (ST).
<b>9-Bellary (ST)</b>	88. Hadagalli (SC), 89. Hagaribommanahalli (SC), 90. Hospet, 91. Kampli (ST), 93. Bellary (ST), 94. Bellary City, 95. Sandur (ST) and 96. Kudligi (ST).
<b>10-Haveri</b>	65. Shirahatti (SC), 67. Ron, 82. Hangal, 83. Shiggaon, 84. Haveri (SC), 85. Byadgi, 86. Hirekerur and 87. Ranibennur.

<b>11-Dharwad</b>	66. Gadag, 69. Navalgund, 70. Kundgol, 71. Dharwad, 72. Hubli-Dharwad-East (SC), 73. Hubli-Dharwad-Central, 74. Hubli-Dharwad-West and 75. Kalghatgi.
<b>12-Uttara Kannada</b>	14. Khanapur, 15. Kittur, 76. Haliyal, 77. Karwar, 78. Kumta, 79. Bhatkal, 80. Sirsi and 81. Yellapur.
<b>13-Davanagere</b>	103. Jagalur (ST), 104. Harapanahalli, 105. Harihar, 106. Davanagere North, 107. Davanagere South, 108. Maya Konda (SC), 109. Channagiri and 110. Honnali.
<b>14-Shimoga</b>	111. Shimoga Rural (SC), 112. Bhadravati, 113. Shimoga, 114. Tirthahalli, 115. Shikarपुर, 116. Sorab, 117. Sagar and 126. Tarikere.
<b>15-Udupi</b>	118. Byndoor, 119. Kundapura, 120. Udupi, 121. Kaup, 122. Karkal, 123. Sringeri, 124. Mudigere (SC) and 125. Chikmagalur.
<b>16-Hassan</b>	127. Kadur, 193. Sharavana Belagola, 194. Arsikere, 195. Belur, 196. Hassan, 197. Hole Narsipur, 198. Arkalgud and 199. Sakleshpur (SC).
<b>17-Dakshina Kannada</b>	200. Beltangadi, 201. Surathkal, 202. Mangalore City North, 203. Mangalore City South, 204. Mangalore, 205. Bantval, 206. Puttur and 207. Sulya (SC).
<b>18-Chitradurga (SC)</b>	97. Molakalmuru (ST), 98. Challakere (ST), 99. Chitradurga, 100. Hiriyr, 101. Hosadurga, 102. Holalkere (SC), 136. Sira and 137. Pavagada (SC).
<b>19-Tumkur</b>	128. Chiknayakanhalli, 129. Tiptur, 130. Turuvekere, 132. Tumkur City, 133. Tumkur Rural, 134. Koratagere (SC), 135. Gubbi and 138. Madhugiri.
<b>20-Mandya</b>	131. Kunigal, 186. Malavalli (SC), 187. Maddur, 188. Pandavapura, 189. Mandya, 190. Shrirangapattana, 191. Nagamangala and 192. Krishnarajpet.

<b>21-Mysore Paschim</b>	208. Madikeri, 209. Virajpet, 210. Piriapatna, 211. Krishnarajanagara, 212. Hunsur, 213. Heggadadevankote (ST), 214. Nanjangud (SC) and 224. Gundlupet.
<b>22-Mysore Purab</b>	215. Chamundeshwari, 216. Krishnaraja, 217. Chamaraja, 218 Mysore Purab, 219. Varuna, 220. T.Narasipur (SC), 222. Kollegal (SC) and 223. Chamarajanagar.
<b>23-Bangalore Rural</b>	154. Pattanagere, 176. Bangalore South, 177. Anekal (SC), 182. Magadi, 183. Ramanagaram, 184. Kanakapura, 185. Channapatna and 221. Hanur.
<b>24-Bangalore - I</b>	151. K.R.Pura, 152. Byatarayanapura, 153. Yeshvanthapura, 155. Dasarahalli, 156. Bangalore City 1, 157 Bangalore City 2, 158 Bangalore City 3 and 159 Bangalore City 4 (SC).
<b>25-Bangalore- II</b>	160 Bangalore City 5, 161 Bangalore City 6, 162 Bangalore City 7, 163 Bangalore City 8, 164 Bangalore City 9, 165 Bangalore City 10, 166 Bangalore City 11 and 167 Bangalore City 12.
<b>26-Bangalore- III</b>	168 Bangalore City 13 (SC), 169 Bangalore City 14, 170 Bangalore City 15, 171 Bangalore City 16, 172 Bangalore City 17, 173 Bangalore City 18, 174. Bangalore East (SC) and 175. Bommanahalli.
<b>27-Bangalore- IV (SC)</b>	139. Gauribidanur, 140. Bagepalli, 141. Chik Ballapur, 150. Bangalore North, 178. Hosakote, 179. Devanahalli (SC), 180. Dod Ballapur and 181. Nelamangala (SC).
<b>28-Kolar (SC)</b>	142. Sidlaghatta, 143. Chintamani, 144. Srinivasapur, 145. Mulbagal (SC), 146. Robertsonpet (SC), 147. Bangarapet (SC), 148. Kolar and 149. Malur.

**Dr. Veerabasavanthareddy Mudnal**  
**M.S.**

**MLA.**  
**Yadagiri Constituency**  
**Gulbarga Dist.**

Room No. 187  
Legislative House  
Bangalore - 560001.  
Ph. : 22359187  
(08473) 252549  
Cell : 94481 - 49305

[1]

To,  
The Chairman,  
Delimitation Commission of India,  
Nirvachan Sadan,  
Ashoka Road,  
New Delhi - 110001.

Date : 24/02/07

Sir,

In response to your letter dt: 16.02.2007 regarding the Parliamentary Constituencies, I wish to give my dissenting proposal.

" With regard to the Parliamentary Constituencies of  
Gulbarga (SC), Raichur (ST) & Bidar (SC)"

I wish to state that 3 adjoining Parliamentary Constituencies in one division alone being reserved will deprive a reservation in another division.

Hence, it may be considered to delete one S.C. reservation and shift it to another division.

I would like my dissenting proposal to be published along with the draft proposal of the Commission.

Thanking you sir,

Your's

Sd/-  
Dr. Veerabasawanth Reddy Mudnal  
MLA

Associate Member from the State of Karnataka

[2]

**H.D. DEVE GOWDA**

Date: 25-02-2007

To

Sri. Gopalaswami  
Chief Election Commissioner  
And Hon'ble Member  
Delimitation Commission  
Nirvachan Sadan  
New Delhi.

**Sub: My reply regarding the Draft Paper circulated to members****Ref: Your Letter No. 282/KT/2007 Date: 16-02-2007.**

\*\*\*\*

**SUGGESTIONS REGARDING ASSEMBLY CONSTITUENCIES OF  
KARNATAKA**

I am in receipt of your draft proposal and I went through the contents and i am very much disappointed, as not of the suggestions made by the members are not incorporated. I want to give a few examples wherein even genuine suggestions made by the members are not considered even though it was unanimously agreed by all the members irrespective of the party. Herewith I am submitting the district wise points, which needs to be published along with the draft publication.

**BELLARY DISTRICT**

In Bellary District there are nine Assembly seats out of which 5 seats are reserved for ST, 2 Seats for SC and 2 Seats of General. I had requested to distributed the reserved seats to other districts, but nothing has been done.

90-Hospet constituency can be called as Vijayanagar Constituency in the name of Vijayanagara Empire, which flourished during the 15<sup>th</sup> Century.

**RAICHUR DISTRICT**

In Raichur district there are 7 seats out of which four seats are reserved for ST, one seat for SC and only two seats are General. Here also more seats in the district are reserved and very few seats area left out for General. The same has to be corrected.

**BIJAPUR DISTRICT**

In Bijapur district, the proposed 31-Nagathan Constituency is geographically not compact and I had requested in my earlier letter dated : 29-12-2006, to rectify the same I had requested your kind self to rectify, but the same has not been attended.

**KOLAR DISTRICT**

141-Chikkaballapura Assembly Constituencies. This constituency consists of the birth place of Bharath Ratna Sir. M.V. Visweswaraya. Hence this constituency may be called as visweswaraya constituency.

**BANGALORE DISTRICT**

The proposed 152-Byatarayanapura Constituency is not compact which can be made compact by linking Jala Circle to 174-Bangalore East and linking a portion of K.R.Pura circle to 152- Byatarayanapura to balance the population of the constituency. Similarly Varthur circle can be linked to 175-Bommanahalli Constituency to balance the population the population. 150- Bangalore North Constituency can be named as Yelahanka Constituency, which is an existing constituency.

**BANGALORE RURAL DISTRICT**

The existing Kanakpura constituency is unnecessarily disturbed by taking out Harohalli and Doddamaralavadi circles from the constituency. The same may be retained with Kanakapur constituency and the population of Ramanagaram constituency can be balanced by taking Sathnur circle and part of Kasaba circle from the dissolved sathnur assembly constituency of Kanakapur Taluk.

The population of 182- Magadi constituency has become unwildly and the deviation from the district average is about 10% due to unnecessary addition of population from neighbouring Ramanagaram Constituency, to rectify the same Kutagal circle from 182-Magadi can be linked to 183-Ramanagaram. Infact Kutagal circle belongs to Ramanagaram Taluk only.

**MYSORE DISTRICT**

In Mysore District there is no change in the No. of Assembly constituencies. The existing 11 Assembly Constituency will continue. However the existing Bannur constituency has been unnecessarily dissolved leading to displeasure of the local people. Hence Bannur may be retained and the proposed Varuna Constituency can be dissolved.

**SUGGESTIONS REGARDING PARLIAMENTARY CONSTITUENCY OF KARNATAKA****16-HASSAN PARLIAMENTARY CONSTITUENCY**

I had proposed to include 132-Turuvekere Assembly constituency to 16-Hassan PC instead of 127-Kadur Assembly constituency which has not been attended as which is essential to keep the constituency geographically compact.

**22-MYSORE PURAB**

22-Mysore Purab can be called as Chamundesari Cosntituency in respect of famous diety of Karnataka State Chamundesari.

**24-BANGALORE - I**

I had requested to include 152-Byatarayanapura into 27-Bangalore-4 which has not been considered as which is essential to keep the constituency geographically compact.

**23-BANGALORE RURAL**

You had proposed to included 221-Hanur in this Parliamentary constituency. There is no road are connectivity between rest of the constituency and 221-Hannur. Even a single road does not exists between Hanur and rest of the constituency. Hence it is suggested to include Hanur in 20-Mandya Parliamentary constituency which has to be corrected.

**27-BANGALORE – IV**

The builder of Bangalore Sri Kempegowda hails from this constituency and today Bangalore is a international city with a highest growth. To give respect to this great visionary it is requested to name this constituency as Kempegowda constituency.

With Warm Regard,

Your's Sincerely

Sd/-  
**(H.D. DEVE GOWDA)**

[3]

**KRISHNA**  
SPEAKER  
KARNATAKA LEGISLATIVE ASSEMBLY

TELEPHONE : OFF : 22258171  
FAX : 22251009  
Legislative Home : 22209422

VIDHANA SOUDHA, BANGALORE – 560001

DATED : 27.02.2007.

To,

The Hon'ble Justice Kuldeep Singhji,  
Chairman, Delimitation Commission,  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road,  
New Delhi - 110001.

Dear Sir,

Sub: - My reply/suggestions regarding the Draft  
Paper circulated to Members.  
Ref: - Your letter No. 282/KT/2007, dated 16.2.2007.

I am in receipt of your draft proposal and I have gone through the contents and most of the suggestions made by the members in the meeting with the Commission are not incorporated. For eg; even genuine suggestions made by the members are not considered, though it was unanimously agreed to by all the members, irrespective of the party. Herewith, I am submitting the district-wise points, which needs to be published along with the draft publication.

**BELLARY DISTRICT**

In Bellary District, there are nine Assembly seats out of which 5 Seats are reserved for ST, 2 Seats for SC and 2 Seat of General. It was requested to distribute the reserved seats to other districts, but nothing has been done.

90-Hospet constituency can be called as Vijayanagar Constituency in the name of Vijayanagara Empire, which flourished during the 15<sup>th</sup> Century.

#### **RAICHUR DISTRICT**

In Raichur district there are 7 seats out of which four seats are reserved for ST, one seat for SC and only two seats are General. Here also more seats in the district are reserved and very few seats are left out for General. The same has to be corrected.

#### **BIJAPUR DISTRICT**

In Bijapur district, the proposed 31-Nagathan Constituency is geographically not compact and I had requested in my earlier letter dated: 29-12-2006, to rectify the same I had requested your kind self to rectify, but the same has not been attended.

#### **KOLAR DISTRICT**

141-Chikkaballapura Assembly Constituencies. This constituency consists of the birthplace of Bharath Ratna Sir. M.V. Visweswaraya. Hence this constituency may be called as Visweswaraya constituency.

#### **BANGALORE DISTRICT**

The proposed 152-Byatarayanapura Constituency is not compact which can be made compact by linking Jala Circle to 174-Bangalore East and linking a portion of K.R.Pura circle to 152- Byatarayanapura to balance the population of the constituency. Similarly Varthur circle can be linked to 175-Bommanahalli Constituency to balance the population the population. 150- Bangalore North Constituency can be named as Yelahanaka Constituency, which is an existing constituency.

#### **BANGALORE RURAL DISTRICT**

The existing Kanakpura constituency is unnecessarily disturbed by taking out Harohalli and Doddamaralavadi circles from the constituency. The same may be retained with Kanakapur constituency and the population of Ramanagaram constituency can be balanced by taking Sathnur circle and part of Kasaba circle from the dissolved Sathnur Assembly Constituency of Kanakapur Taluk.

The population of 182- Magadi constituency has become unwildly and the deviation from the district average is about 10% due to unnecessary addition of population from neighbouring Ramanagaram Constituency. To rectify the same Kutagal circle from 182-Magadi can be linked to 183-Ramanagaram. Infact, Kutagal circle belongs to Ramanagaram Taluk only.

#### **MYSORE DISTRICT**

In Mysore District there is no change in the No. of Assembly constituencies. The existing 11 Assembly Constituency will continue. However the existing Bannur constituency has been unnecessarily dissolved leading to displeasure of the local people. Hence Bannur may be retained and the proposed Varuna Constituency can be deleted.

With kind regard,

Your sincerely,  
Sd/-  
(KRISHNA)

[4]

**BHARTIYA JANTA PARTY, KARNATAKA**

No. 1/1. 6<sup>th</sup> Cross, 8<sup>th</sup> Main, Malleshwaram, Bangalore – 560003. Ph. 080-23440382

To

Justice Kuldip Singh

Chairman

Delimitation Commission

New Delhi

28<sup>th</sup> February, 2007

Respected Sir,

Sub : **Dissenting Proposals regarding Legislative Assembly Constituencies and Parliamentary Constituencies of Karnataka with Request to Publish our Dissenting Proposals with the Draft Proposals of the Delimitation Commission.**

1. The Legislative Assembly in Shimoga District – 115. Shikaripur has been shown as Reserved (SC) with 22.28% of SC Population. But whereas in the same Shimoga District the Legislative Assembly Constituency 111. Shimoga (Rural) having higher percentage of SC Population of 23.87% has been shown as General. Therefore our Dissenting Proposal is to retain 115. Shikaripur Assembly Constituency as General and 111. Shimoga (Rural) which has highest SC population in the District and we request your kindself to publish the same.
2. On 9<sup>th</sup> of June, 2006, Bharatiya Janata Party, Karnataka had submitted detailed amendments to the proposed drafts of the Legislative Assemblies of the Delimitation Commission. We are proposing the same amendments as our Dissenting Proposals for the Legislative Assemblies for the State of Karnataka. We request your kindself to Publish the enclosed amendments as our Dissenting Proposals to the Draft Proposals of the Delimitation Commission.
3. The Delimitation of Bangalore urban District. Regarding the Draft Proposals of the Delimitation Commission regarding the Parliamentary Constituencies of Bangalore 1, Bangalore 2, Bangalore 3, Bangalore 4 we have already submitted our Proposal for detailed amendments both for the Legislative Assembly segments as well as the proposed Parliamentary Constituencies. We are proposing the same amendments as our Dissenting Proposal for the Draft Proposals of the Delimitation Commission. We request your kindself to publish the enclosed amendments in this regard as the Dissenting Proposals with your Draft Proposal.

Thanking you

With regards

Sd/-  
(ANANTH KUMAR)  
MP LOK SABHA  
BANGALORE SOUTH  
ASSOCIATE MEMBER  
DELIMITATION COMMISSION

Sd/-  
(JAGDISH SHETAR)  
MINISTER FOR REVENUE  
GOVT. OF KARNATAKA  
ASSOCIATE MEMBER  
DELIMITATION COMMISSION

Sd/-  
(RAMESH JIGAJINAGI)  
MP LOK SABHA  
CHIKKODI  
ASSOCIATE MEMBER  
DELIMITATION COMMISSION

Sd/-  
(BASANGOURA PATIL YATNAL)  
MP LOK SABHA  
BIJAPUR  
ASSOCIATE MEMBER  
DELIMITATION COMMISSION

BAGALORE-1				
Ward No.	Ward Name	Tol. Pop.	S.C.	S.T.
K.R. Pura	Bangalore East Taluk (Part)	66458	19038	894
	Bidarahalli Circle (Excl. Channasandra) (OG) – Ward No.33			
	K.R. Pura (CMC)	186210	29849	2573
	Total	252666	48887	3467
	% of SC/ST		19.35	1.37
	% of Deviation (8.22)			
Byatarayanapura	Bangalore North Taluk Rural (Part)			
	Byatarayanapura CMC	181744	23814	3915
	Yelahanka (CMC) Part			
	Yelahanka (CMC) Ward No. 1 to 19	48379	6083	724
	Yelahanka (CMC) Ward No. 23, 25, 26, 31 & 32.	16127	1386	323
	Total	246250	31283	4962
	% of SC/ST		12.7	2.02
	% of Deviation (5.47)			
Yeshwanthpura	Bangalore North Taluk Rural (Part)			
	Yeshwanthpura Circle	72013	12515	2406
	Dasarahalli (CMC + OG) Part			
	Dasarahalli (CMC) – Ward No. 1 to 3	15602	3601	247
	Bangalore (M Corp + OG) Part			
	Bangalore (M Corp) – Ward No. 1(HMT)	27637	6146	935
	Bangalore (M Corp) – Ward No. 2 (Jalahalli)	361	5153	1110
	Bangalore (M Corp) – Ward No. 3 (Yeshwanthpur)	46677	4119	675

	Bangalore (M Corp) – Ward No. 11 (Industrial Town)	35403	4554	1137
	<b>Total</b>	<b>233457</b>	<b>36088</b>	<b>6510</b>
	<b>% of SC/ST</b>		<b>15.46</b>	<b>2.79</b>
	<b>% of Deviation (-0.01)</b>			
<b>Dasarahalli</b>	Bangalore North Taluk Rural (Part)			
	Dasarahalli (CMC + OG) (Part)			
	Dasarahalli (CMC) – Ward No. 4 to 35	249338	17933	4191
	<b>Total</b>	<b>249338</b>	<b>17933</b>	<b>4191</b>
	<b>% of SC/ST</b>		<b>7.19</b>	<b>1.68</b>
	<b>% of Deviation (6.80)</b>			
	<b>Bangalore City – 1</b>	<b>Tol. Pop.</b>	<b>S.C.</b>	<b>S.T.</b>
<b>Ward No.</b>	<b>Ward Name</b>	<b>Tot. Pop</b>	<b>S.C.</b>	<b>S.T.</b>
10	Mahalakshmipura	34702	5163	341
12	Nandini Layout	43445	4814	655
13	Galeyara Balaga	38743	1022	309
14	Nagapura	36918	2622	353
16	Kamalnagar	61314	7301	625
17	Vrushabhavathinagar	29275	546	279
	<b>Total</b>	<b>244397</b>	<b>21468</b>	<b>2562</b>
<b>Ward No.</b>	<b>Bangalore City – 2</b>	<b>Tol. Pop.</b>	<b>S.C.</b>	<b>S.T.</b>
4	Mathikere	54704	4541	997
5	Kodanadarampura	36287	2088	313
7	Malleshwaram	37760	4186	274
8	Gayathrinagar	40673	1056	249
9	Subramanyanagar	38905	1081	326
99	Armane Nagar	32560	3930	265
	<b>Total</b>	<b>240889</b>	<b>16882</b>	<b>2424</b>
<b>Ward No.</b>	<b>Bangalore City – 3</b>	<b>Tol. Pop.</b>	<b>S.C.</b>	<b>S.T.</b>
96	Hebbala	74126	7216	1205
97	J.C. Nagar	38042	2513	236
98	Ganganagar	52546	4080	386
100	Sanjyanagar	52263	4431	672
	<b>Total</b>	<b>216977</b>	<b>18240</b>	<b>2499</b>
<b>Ward No.</b>	<b>Bangalore City – 4</b>	<b>Tol. Pop.</b>	<b>S.C.</b>	<b>S.T.</b>
<b>Ward No.</b>	<b>Ward Name</b>	<b>Tot. Pop.</b>	<b>S.C.</b>	<b>S.T.</b>
90	Sagayapura	43432	13347	173
91	Pulakeshinagar	42078	7188	138
93	Devarajeevanahalli	51578	8963	102
95	Kavalbyrasandra	84461	13111	391
	<b>Total</b>	<b>221549</b>	<b>42609</b>	<b>804</b>
	<b>Total Population</b>	<b>1905523</b>	<b>233390</b>	<b>27419</b>

BAGALORE - 2				
Bangalore City-6				
Ward No.	Ward Name	Tol. Pop.	S.C.	S.T.
86	Maruthisevanagar	39588	8633	109
87	Lingarajpura	56530	7798	413
88	Banaswadi	26103	2678	263
89	Kacharakanahalli	32889	3009	306
94	Kadugondanahalli	60896	7928	159
	<b>Total</b>	<b>216004</b>	<b>30044</b>	<b>1260</b>
Bangalore City-6				
Ward No.	Ward Name	Tol. Pop.	S.C.	S.T.
72	Domlur	44357	6333	385
73	Airport	42288	8351	239
74	Jeevanbheemanagar	39820	5431	289
82	Hoysalanagar	33359	10497	210
83	C.V. Ramannagar	50256	3960	881
84	Benniganahalli	31985	7346	947
	<b>Total</b>	<b>242065</b>	<b>41918</b>	<b>2951</b>
Bangalore City-7				
Ward No.	Ward Name	Tol. Pop.	S.C.	S.T.
78	Vasanthanagar	37028	4639	750
79	Shivajinagar	34988	1420	513
80	Bharathinagar	35681	2189	186
81	Ulsoor	39669	6638	871
85	Sarvagnanagar	34943	12221	261
92	Jaymahal	39663	7305	131
	<b>Total</b>	<b>221972</b>	<b>34412</b>	<b>2712</b>
Bangalore City-8				
Ward No.	Ward Name	Tol. Pop.	S.C.	S.T.
69	Neelasandra	52079	6678	2161
70	Shanthinagar	34682	4126	668
71	Austin Town	39790	15542	390
75	Jogupalya	36035	4975	611
76	Richmond Town	36465	4975	126
77	Sampangiram Nagar	32451	1372	296
	<b>Total</b>	<b>231502</b>	<b>37668</b>	<b>4252</b>
Bangalore City-9				
Ward No.	Ward Name	Tol. Pop.	S.C.	S.T.
6	Dattatreya	38723	4714	261
25	Ramchandrapura	35411	4343	272
26	Sevashrama	37507	12398	516
27	Gandhinagar	32809	6296	158
28	Chickpet	31851	219	89
29	Cottonpet	40704	2765	305
31	Binnypet	28069	2466	622
	<b>Total</b>	<b>245074</b>	<b>33201</b>	<b>2223</b>

<b>Bangalore City-10</b>				
Ward No.	Ward Name	Tol. Pop.	S.C.	S.T.
15	Rajajinagar	37005	2234	269
18	Kamakshipalya	25742	2004	321
19	Basaveshwaranagar	23228	1207	206
20	Shivanagar	21121	680	229
22	Srirama Mandira	21171	1087	327
23	Praksash Nagar	21115	1994	140
24	Bhashyam Nagar	21115	10651	170
	<b>Total</b>	<b>23228</b>	<b>19857</b>	<b>1662</b>
<b>Bangalore City-13</b>				
Ward No.	Ward Name	Tol. Pop.	S.C.	S.T.
30	K.R. Market	39521	17616	344
43	Padarayanapura	59933	4108	447
44	J.J. Nagar	43892	12594	281
45	Azad Nagar	40821	2630	825
46	Chamrajpet	40725	4151	483
	<b>Total</b>	<b>224892</b>	<b>41099</b>	<b>2380</b>
<b>Bangalore East (SC) Bangalore East Taluk (Part)</b>				
	K. R. Pura Circle	53707	7043	522
	Varthur Circle	50686	15397	262
	Mahadevpura CMC	135794	25008	1564
42011000	Channasandra (OG) - Ward No. 33	5867	819	91
	<b>Total</b>	<b>246054</b>	<b>48267</b>	<b>2439</b>
<b>BAGALORE - 3</b>				
<b>Bangalore City-11</b>				
Ward No.	Ward Name	Tol. Pop.	S.C.	S.T.
21	Industrial Town	47682	5061	730
35	Marenahalli	40131	1759	669
36	Govindrajnagar	56340	3216	689
37	Amarjyotinagar	21896	647	464
38	Mudalyapalya	15597	890	237
39	Chandra Layout	40478	4397	484
	<b>Total</b>	<b>222124</b>	<b>15970</b>	<b>3273</b>
<b>Bangalore City-12</b>				
Ward No.	Ward Name	Tol. Pop.	S.C.	S.T.
32	Kempapura Agrahara	40047	1354	1078
33	Vijaynagar	40867	1534	282
34	R.P.C. Layout	44368	4668	460
40	Attiguppe	25619	1288	231
41	Gali Anjaneya	51746	2790	512
42	Bapujinagar	43223	3314	481
	<b>Total</b>	<b>245870</b>	<b>14948</b>	<b>3044</b>
<b>Bangalore City-14</b>				
Ward No.	Ward Name	Tol. Pop.	S.C.	S.T.
47	Dharmaraya Swamy Temple	32938	2036	108
48	Sudham Nagar	42919	10099	346

49	K.G. Nagar	41075	2162	352
50	V.V. Puram	31893	1676	78
61	Mavalli	39505	4037	191
62	H.G. Nagar	53934	6312	394
	<b>Total</b>	<b>242284</b>	<b>26322</b>	<b>1469</b>
<b>Bangalore City-15</b>				
<b>Ward No.</b>	<b>Ward Name</b>	<b>Tol. Pop.</b>	<b>S.C.</b>	<b>S.T.</b>
51	Basavanagudi	39484	1002	216
52	Hanumanthanagar	35660	903	296
53	Srinagar	62163	654	272
54	Srinivasanagar	82630	2725	640
	<b>Total</b>	<b>219937</b>	<b>5284</b>	<b>1424</b>
<b>Bangalore City-16</b>				
<b>Ward No.</b>	<b>Ward Name</b>	<b>Tol. Pop.</b>	<b>S.C.</b>	<b>S.T.</b>
55	Padmanabhanagar	112407	5371	1041
56	Ganesh Mandira	87307	5438	1084
59	Yediyur	34613	1448	134
	<b>Total</b>	<b>234327</b>	<b>12257</b>	<b>2259</b>
<b>Bangalore City-17</b>				
<b>Ward No.</b>	<b>Ward Name</b>	<b>Tol. Pop.</b>	<b>S.C.</b>	<b>S.T.</b>
57	J.P. Nagar	63906	4153	750
58	Jayanagar	40430	2103	198
64	Gurappanapalya	63111	5497	252
63	Lakkasandra	48979	6610	669
	<b>Total</b>	<b>216426</b>	<b>18363</b>	<b>1869</b>
<b>Bangalore City-18</b>				
<b>Ward No.</b>	<b>Ward Name</b>	<b>Tol. Pop.</b>	<b>S.C.</b>	<b>S.T.</b>
60	Pattabhiramnagar	39308	4194	119
65	B.T.M. Layout	51545	3195	383
66	Madiwala	65820	6499	1107
67	Koramangala	45929	6816	542
68	Egipura	40986	5487	520
	<b>Total</b>	<b>243588</b>	<b>26191</b>	<b>2671</b>
<b>Bommanahalli</b>				
	<b>Bangalore South Taluk &amp; Anekal Taluk (Parts)</b>			
	Bommanahalli (CMC)	210963	19815	2198
	<b>Total</b>	<b>210963</b>	<b>19815</b>	<b>2198</b>
<b>Total Population</b>				

[15]

**BHARTIYA JANTA PARTY, KARNATAKA**

Date: 09-06-2006

Justice Kuldip Singh,  
Chairman,  
Delimitation Commission of India,  
NEW DELHI.

Respected Sir,

As decided in the meeting of the Delimitation Commission held on 11.05.2006 at New Delhi. We are submitting the amendments to the working paper circulated on the delimitation of Constituencies in the State of Karnataka.

With regards,

Sd/-  
(Ananth Kumar)  
MP Lokasabha (Banglore South)  
Associate Member  
Delimitation Commission of India.

Sd/-  
(Jagadish Shettat)  
Minister of Revenue  
Govt. of Karnataka  
Associate Member  
Delimitation Commission of India

Sd/-  
(Ramesh Jigajinagi)  
MP Lokasabha (Chikkodi)  
Associate Member  
Delimitation Commission of India.

Sd/-  
(Basanagowda Patil Yathnal)  
MP Lokasabha (Bijapur)  
Associate Member  
Delimitation Commission of India.

**BHARTIYA JANTA PARTY, KARNATAKA**

**Amendments to the Proposed Delimitation Commission draft  
pertaining to Assembly Constituencies of Karnataka State.**

Sl. No.	District	Remarks
1.	Belgaum	
2.	Bagalakote	Annexure – I
3.	Bijapur	Annexure – II
4.	Gulbarga	Annexure – III
5.	Bidar	-
6.	Raichur	Annexure – IV
7.	Koppal	Annexure – V
8.	Gadag	-
9.	Dharwad	Annexure – VI
10.	Uttara Kannada	Annexure – VII
11.	Haveri	Annexure – VIII
12.	Bellary	-
13.	Chitradurga	-
14.	Davanagere	Annexure – IX
15.	Shimoga	Annexure – X
16.	Udupi	-
17.	Chikmagalur	Annexure – XI
18.	TUMKUR	-
19.	KOLAR	Annexure – XII
20.	BANGALORE	Annexure - XIII
21.	BANGALORE RURAL	-
22.	MANDYA	-
23.	HASSAN	Annexure - XIV
24.	DAKSHINA KANNADA	-
25.	KODAGU	Annexure - XV
26.	MYSORE	-
27.	CHAMARAJANAGAR	-

## BAGALAKOTE DISTRICT

Amendments to the Proposed Delimitation Commission draft pertaining to Assembly Constituencies of Bagalakote District.

### BAGALKOTE & HUNGUND CONSTITUENCIES

The following few important points for changes in Bagalkot and Hungund Assembly Constituencies in the largest public interests and convenience as shown below against them.

Assembly	Population
1. Jamakhandi	2,228,554
2. Mudhol	2,15,353
3. Bilagi	2,45,036
4. Bagalkot	2,78,760
5. Badami	2,46,606
6. Terdal	2,39,708
7. Hungund	1,97,875

II) It is clear by going through the constitution wise population, that there is an imbalance between Bagalkot and Hungund Assembly Constituencies. Hence in order to keep the balance and natural justice I put forth my humble suggestion as follows.

The revenue circle of Aminagad which belongs to Hungund revenue Taluk is included in Bagalkot Assembly Constituency. Please include the following Panchayat to Hungund Constituency.

Panchayath	Population
1. Gudur	10,952
2. Chikanal	6,192
3. Sulebhavi	8,898
4. Aminagad	13,593
5. Wadageri	7,510
<b>Total</b>	<b>47,143</b>

These Panchayats are to be included in Hungund Assembly Constituency which they belong geographically and well established Hungund Taluka instead of Bagalkot assembly.

Apart from the above the remaining Panchayath in the same revenue circle of Aminagad may be included as per recommendation in Bagalkot Assembly Constituency in view of keeping the balance between two Assembly Constituencies. It's details are as follows.

Panchayath	Population
1. Kamatagi	14,380
2. Muganur	6,765
3. Kelur	6,033
4. Hiremagi	6,022
5. Aiholi	7,509
<b>Total</b>	<b>40,709</b>

III) Comparing the Statistics of Population of both Assembly Constituencies, by excluding the population of 47,143 from Bagalkot Assembly Constituency, the Population variables are as follows.

#### Assembly Constitution

1. Bagalkot	2,31,617
2. Hungund	2,38,584

### BIJAPUR DISTRICT

**Amendments to the Proposed Delimitation Commission draft  
pertaining to Assembly Constituencies of Bijapur District.**

#### Bijapur City and Naghtan (S.C.) Constituency

In your draft Copy of delimitation of Naghathan. You have changed ward No. 12, 15, 16, 17 to Naghathan Assembly Constituency from Bijapur. it is Geographically zigzag. Already Naghathan constituency is big in size, if you modify it will become one side and also helpful to public.

Here we request you to add Ward no 12, 15, 16 to Bijapur City Assembly constituency. And also add Ward No. 12, 15, 16 to Bijapur City Assembly constituency. Add Ward No. 17, 19, 20, 24, 25 to Naghathan Assembly Constituency. By doing slight modification it will become one side, and convenient to Bijapur City & Naghathan Assembly Constituency Public.

Following table shows ward and their population which we request to modify.

Request to add wards to Bijapur City		Request to add wards to Naghathan	
Ward No	Population	Ward No	Population
12	7,326	19	5,050
15	5,281	20	7,624
16	10,249	24	6,702
		25	5,636
<b>Total</b>	<b>22856</b>	<b>Total</b>	<b>25,012</b>

After modifying Bijapur City & Naghtathan Assembly Constituency only slightly total No 2142 of Population will changes.

After changing Bijapur City & Naghtathan Assembly Constituency Total Population will be shown below.

Total Population	
Bijapur City Assembly Constituency	Naghtathan Assembly Constituency
2,20,225	2,34,099

## GULBARGA DISTRICT

**Amendments to the Proposed Delimitation Commission draft pertaining to Assembly Constituencies of Gulbarga District.**

### GULBARGA RURAL (SC) CONSTITUENCY

In the draft of the Delimitation proposal prepared by the Delimitation commission the existing 8-Kamalapur Assembly constituency has now been removed and a new constituency called Gulbarga (Rural) SC has now been proposed deleting some of the areas and incorporation of new areas like Gundagurthi circle in Chittapur taluka and Shahabad Circle Part. Pattan Circle of Gulbarga taluka has also been incorporated a fresh. Geographically incorporation of Gundagurthi circle in Gulbarga Rural and deletion of Naroon Circle from Aland Taluka is not feasible. In view of this submitting revised proposal which has got effect of Afzalpur, Aland, Gulbarga (Rural), Yadgir, Sedam and Chittapur Assembly Constituencies.

#### Delimitation of Assembly Constituency – Gulbarga District

		Proposed by Eln. Commn.			Now Revised Proposal				
		Total Population	SC Pop.	ST Pop.			Total Population	SC Pop.	ST Pop.
34.	Afzalpur	2 Afzalpur Taluk	180071	32103	3720	2 Afzalpur Taluk	180071	32103	3720
		1 Aland Taluk (Part)				3 Gulbarga Taluk Part			
		2 Nimbarga Circle	69556	16288	1841	1 Pattan Circle	41566	9720	973
		249629	48391	5561			221637	41823	4693
46.	Aland	Aland Taluk (Part)				Aland Taluk (Part)			
		1 Aland Circle	79759	16154	1718	1 Alland Circle	79759	16154	1718
		2 Madanhipparga Circle	42028	8336	638	3 Madanhipparga Circle	42028	8336	638
		4 Khajuri Circle	47218	10485	954	4 Khajuri Circle	47218	10485	954
		5 Narona Circle	58573	16389	1043	5 Narona Circle	69588	16288	1841
		227578	51364	4353			238593	51263	5151
43	Gulbarga Rural (SC)	Gulbarga Taluk (Part)				Gulbarga Taluk (Part)			
		1 Aurad B. Circle	43677	14681	1071	1 Aurad B. Circle	43677	14681	1071
		2 Mahagaon Circle	36482	10309	1539	2 Mahagaon Circle	36482	10309	1539
		3 Kamalapur Circle	47093	20342	1282	3 Kamalapur Circle	47093	20342	1282
		4 Pattan Circle	41566	9720	973	4 Gulbarga Circle (R)	24902	8700	153
		5 Gulbarga Circle (R)	24902	8700	153	Chittapur Taluk Part			
		Chittapur Taluk Part				Shahabad Circle Part			
		1 Gundagurthi Circle	38386	9542	627	1 Aldihal	517	127	0
		2 Shahabad Circle Part				2 Bhankur OG Ward2	9009	2553	38
		1 Aldihal	517	127	0	3 Seva Nagar	638	465	0
		2 Bhankur OG Ward2	9009	2553	38	4 Devan Tegnur	2043	885	84
		3 Seva Nagar	638	465	0	5 Taranalli	1533	419	0
		4 Devan Tegnur	2043	885	84	6 Katamdevarhalli	980	288	0
		5 Taranalli	1533	419	0	7 Mutpa	1262	278	0
		6 Katamdevarhalli	980	288	0	8 Martur	4462	1237	18
		7 Mutpa	1262	278	0	Aland Taluk Part			
		8 Martur	4462	1237	18	1 Naroon	58573	16389	1043
				252550	79546	5785			231171

41	Sedam	Sedam Taluk Chincholi Taluk (Part) 1 Sulepeth Circle	196154 47844 243898	50688 10366 61072	5072 1070 6142	Sedam Taluk Chincholi Taluk (Part) 1 Gundagurthi	196154 38386 234540	50688 8542 60228	5072 627 6699
42	Chincholi (SC)	4 Chincholi Taluk (Part) 1 Chincholi Circle 2 Ainapur Circle 3 Kodli Circle Chitapur Taluk (Part) 1 Kalgi Circle	75131 55860 45011  55160 230962	27158 23165 13648  16290 80261	1808 1749 526  604 4687	Chincholi Taluk (Part) 1 Chincholi Circle 2 Ainapur Circle 3 Kodli Circle 4 Sulepeth circle Chittapur taluk part Kalgi Circle (Part) 1 Aranankal 2 Reval 3 Mavinsur 4 Sugur 5 Bedaur	75131 55860 45011 47844  4070 857 109 1246 2393 232321	27158 23165 13648 10366  1987 117 92 1162 1359 79974	1808 1749 526 1070  3 0 0 0 0 6188
40	Chitapur (SC)	Chitapur Taluk (Part)  1 Chitapur Circle 2 Nalwar Circle Shahabad Circle (Part) 1 Shahabad TMC 2 Shahabad ACC NAC 3 Gola (K) 4 Shankarwadi 5 Balwadgi 6 Konchur 7 Ingaldi 8 Kadhalli 9 Tonsanhalli 10 Chamnur 11 Kadaboar 12 Kundanoor 13 Hunagunta 14 Malagatti	65191 100908  50562 6979 2946 1186 2755 2013 5122 649 2368 939 1048 2121 5141 2884	15780 33661  15975 1738 929 293 1058 876 2046 99 465 127 170 251 905 949	1753 1783  425 57 34 1 71 0 0 4 5 233 0 39 0 3	Chitapur Taluk (Part) 1 Chitapur circle (Except Kardal, Dongeon, Bankalga) 2 Nalwar circle (Part) 1 Nalwar 2 Sugur N 3 Rampurhalli 4 Halkatta 5 Kamarwadi 6 Sulhalli 7 Sonthi 8 Banhatti 9 Hulandgera 10 Kanaganahalli 11 Kollur 12 Kolkunda 13 Turnur 14 Maradgi 15 Malag N 16 Konchur 17 Wadi Junction 18 Devapur 19 Shivanagar 20 Tarkaspet Shahabad circle part 1 Shahabad TMC 2 Shahabad ACC NAC 3 Gola (K) 4 Shankarwadi 5 Balwadgi 6 Konchur 7 Ingaldi 8 Kadhalli 9 Tonsanhalli 10 Chamnur 11 Kadaboar 12 Kundanoor 13 Hunagunta 14 Malagatti Kalgi circle (Excluding Aranankal, Reval, Bedsur, Mavinsur, Sugur)	59118  11533 1199 1685 3909 1981 1046 1595 610 1219 869 5754 878 591 657 480 2013 34714 566 724 2041  50562 6979 2946 1186 2755 2013 5122 649 2368 939 1048 2121 5141 2884 46468  266363	14820  4028 299 165 750 849 394 335 0 628 235 2931 148 325 227 209 876 12948 580 724 274  15975 1738 929 293 1058 876 2046 99 465 127 170 251 905 949 11573  79179	1675  296 152 0 8 398 112 0 0 0 1 9 0 7 0 14 0 438 0 0 0  425 57 34 1 71 0 0 4 5 233 0 39 0 3  601 4585

38	Yadgir	10 Yadgir Taluk (Part) 1 Yadgir Circle Shahpur Taluk (Part) 1 Dornahalli Circle 2 Hayyal B Circle 3 Wadagera B Circle	95880 53557 39144 40341	20379 12982 8229 10138	9938 3638 5484 2740	10 Yadgir Taluk (Part) 1 Yadgir Circle Shahpur Taluk (Part) 1 Dornahalli 2 Hayyal B Circle 3 Wadagera B Circle Chittapur taluk part Naiwar circle part 1 Lotebaur 2 Sarkanur 3 Yastapur 4 Belagera 5 Rajolu 6 Alloli 7 Hanrikera 8 Alur K 9 Ramateerth 10 Dandgund 11 Bheemanaalli 12 Alur B Chittapur circle Part 1 Karadal 2 Bankalga 3 Dongaon	95880 53557 39144 40341 3094 1027 2401 2071 2317 3778 2190 1992 1685 1762 3349 3610 2416 1485 2172 264271	20379 12982 8229 10138 545 57 1501 1572 598 777 963 301 561 93 326 339 452 228 280 60321	9935 3638 5484 2740 332 0 3 1 0 19 159 6 13 0 172 33 52 26 0 22613
			228922	51728	21797				

### RAICHUR DISTRICT

**Amendments to the Proposed Delimitation Commission draft  
pertaining to Assembly Constituencies of Raichur District.**

#### SINDHANUR & MASKI CONSTITUENCIES

- \* As per delimitation committee Gorebal and Jalihal Circle included in Maski Constituency, Geographically it is not correct and it will be very in convenient to the people, hence make small changes as per our below statement which will be convenient to Maski and Sindhanur Constituency People.

Sl. No.	Sindhanur	Our Proposa	As per Delimitation	Maski	Our Proposal	As per Delimitation
1.	Sindhanur Rural Circle	17738	17738	4. Halapur Circle	24909	-
2.	Salgunda Circle	19253	19253	6.Pamankallur Circle	19611	-
3.	Huda Circle	16692	16692	6. Gunjahalli Circle	24760	24760
10.	Balganur Circle	21171	21171	7. Turvihai Circle	33479	33497
11.	Jawalgera Circle	16470	16470	8. Kannatagi Circle	27617	27617
12.	Walkamdinni Circle	17057	17057	9. Gudadur Circle	24608	24608
13.	Hedginal Circle	10924	10924	1.Lingasur Taluk part		
14.	Badarli Circle	15381	15381	3. Maski Circle	64846	64846
15.	Sindhanur TMC	61262	61262	4. Gorebal Circle		27988
4.	Gorebal Circle	27988		5. Jalihal Circle		25746

5.	Jallihal Circle	25746				
4	Halapur Circle		24909			
6	Pamankallur Circle		19611			
	<b>Total</b>	<b>249682</b>	<b>240468</b>	<b>Total</b>	<b>219848</b>	<b>229062</b>

Accepted Average – 214684 to 262391

## KOPPALA DISTRICT

Amendments to the Proposed Delimitation Commission draft  
pertaining to Assembly Constituencies of Koppala District.

- Kanakagiri is a Assembly segment but the complete Kanakagiri Circle joined to Gangavati this is unscientific.
- You have included Irkaigad circle of Koppala Constituency to Gangavati and it is very long distance comes from western part of Villages it is and inconvenient who comes from western part of villages.
- You have added more people to Koppala and Gangavati but reduced to Kanakagiri which makes injustice to Socially Oppressed People.

### As per Delimitation Committee

2001 Population						
	Total	SCs	STs	% of SCs	% of STs	& of deviation
Kushtagi	239331	32078	31514	13.40	13.17	0.05
Kanakagiri (SC)	215095	37196	35201	17.29	16.37	-10.08
Gangawati	253694	40030	27382	15.78	10.19	6.05
Yelbarga	236373	34744	24836	14.70	10.51	-1.19
Koppal	251596	41161	19655	16.36	7.81	5.17

### As per Recommendation

2001 Population						
	Total	SCs	STs	% of SCs	% of STs	& of deviation
Kushtagi	239331	32078	31514	13.4	13.17	0.05
Kanakagiri (SC)	236299	37800	41041	15.99	17.36	-
Gangawati	247860	43185	23790	17.42	9.59	-
Yelbarga	236373	34744	24836	14.7	10.51	1.19
Koppal	236223	37402	17407	15.83	7.36	-

## DHARWAD DISTRICT

### Amendments to the Proposed Delimitation Commission draft pertaining to Assembly Constituencies of Dharwad District.

1. The under mentioned observations have been raised regarding proposed delimitation of seven assembly segments those falling in Dharwad District.
2. The proposed changes recommended for Navalagund and Kundagol Assembly segments are agreed to.
3. However, the changes proposed for Dharwad, Hubli-Dharwad (west), Hubli – Dharwad (East), Hubli-Dharwad (Centra) and Kalaghatagi assembly constituencies are enumerated, constituency wise in the succeeding paragraphs.

(a) Dharwad (Existing Dharwad Rural) and Hubli – Dharwad West (Existing Dharwad City) As per the proposed changes the population of this constituency is 2,26,336 Out of the said existing constituency half of the portion is merged with Kalaghatagi Constituency which is not correct geographically. Therefore, it is recommended that the existing Dharwad Rural Constituency be kept unchanged. However two wards of Hubli-Dharwad Municipal Corporation, viz ward no. one and three be added to Dharwad Rural constituency. With this change Dharwad Rural (Proposed Dharwad) and Dharwad City (Proposed Hubli-Dharwad (west)) will fall within the accepted range of population.

(b) Hubli – Dharwad Central (Existing Hubli Rural)

As per proposed changes the population and geographical area is in excess as compared to district average population and neighboring constituencies. Therefore it is recommended that Ward No. 35, 36, 37 of Hubli Dharwad municipal Corporation may be added to Kalaghatagi constituency. The said wards are very adjacent to Kalaghatagi constituency. With this, the area as well as population of Kalaghatagi constituency will be equalized.

Another three wards of Hubli – Dharwad Municipal Corporation viz 42, 45, 47 also require to be added to Hubli City (Proposed Hubli)

2-(c) Hubli – Dharwad East (Existing Hubli City)

From this constituency three wards of Hubli – Dharwad Municipal Corporation viz, 62, 63, 64 are required to be added to neighboring Kalaghatagi constituency.

It is already enumerated at sub-para(b) above that the excess Hubli-Dharwad Central (Existing Hubli Rural) are proposed to transfer to Hubli – Dharwad East (Existing Hubli City)

- (c) Kalaghatagi: Kalaghatagi constituency presently having the population to the tune of 1,37,016. To equalize of the district it is recommended that ward no 35, 36, 37, 62, 63 and 64 are to be merged into Kalaghatagi Assembly segment. With this the Kalaghatagi constituency Population will become 2,18,960. Which will be nearer has already been justified in the above paragraphs.

Further, it is also intimated that the renaming of the assembly constituencies is not agreed to. There is no need to change the names of the constituencies. The names can be continued as under.

Proposed NamesNames Recommended

1)	Hubli - Dharwad	(Hubli City)	Hubli South
2)	Hubli - Dharwad Central	(Hubli Rural)	Hubli North
3)	Hubli - Dharwad West	(Dharwad City)	Dharwad City
4)	Dharwad	(Dharwad Rural)	Dharwad Rural
5)	Navalgund	(Navalgund)	Navalgund
6)	Kalaghatagi	(Kalaghatagi)	Kalaghatagi
7)	Kundagol	(Kundagol)	Kundagol

Dharwad District					
Constituency	Total Population	SC Population	ST Population	SC%	ST%
Hubli South	207450	20390	4333	9.83	2.09
Hubli North	216672	17313	5417	7.99	2.50
Dharwad City	251877	19303	9961	7.66	3.95
Dharwad Rural	247213	15477	16161	6.26	6.54
Kundgol	219666	18971	14151	8.64	6.44
Kalghatagi	218960	18031	10996	7.44	4.30
Navalgund	242415	18031	10996	7.44	4.54
	<b>1604253</b>	<b>131969</b>	<b>70442</b>	<b>8.23</b>	<b>4.39</b>

Hubli South (Hubli - Dharwad East)					
Ward No.	Total Population	SC Population	ST Population	SC%	ST%
42	11636	1421	83	12.21	0.71
45	7037	9	257	0.13	3.65
47	13240	2494	244	18.84	1.84
48	7864	2227	318	28.32	4.04
49	12527	2839	150	22.66	1.2
50	9125	1542	98	16.9	1.07

9380	414	46	4.41	0.49
8232	85	79	1.03	0.96
9370	286	44	3.05	0.47
8612	512	104	5.95	1.21
9827	896	152	9.12	1.55
7664	43	10	0.56	0.13
8687	119	23	1.37	0.26
9581	3	22	0.03	0.23
7195	17	18	0.24	0.25
13659	2202	527	16.12	3.86
8986	50	104	0.56	1.16
17480	381	244	2.18	1.4
12123	4270	1099	35.22	9.07
15225	580	711	3.81	4.67
<b>207450</b>	<b>20390</b>	<b>4333</b>	<b>9.83</b>	<b>2.09</b>

### Hubli North (Hubli - Dharwad Central)

Ward No.	Total Population	SC Population	ST Population	SC%	ST%
24	13603	469	444	3.45	3.26
25	11258	451	172	4.01	1.53
26	11652	761	273	6.53	2.34
27	12533	1646	295	13.13	2.35
28	10300	682	395	6.62	3.83
29	15651	2493	472	15.93	3.02
30	14732	1687	261	11.45	1.77
31	10149	722	969	7.11	9.55
32	10107	624	209	6.17	2.07
33	9045	676	184	7.47	2.03
34	16067	966	345	6.01	2.15
38	15707	1078	276	6.86	1.76
39	12280	1509	141	12.29	1.15
40	11501	453	82	3.94	0.71
41	10509	323	210	3.07	2.00
43	10923	2162	300	19.79	2.75
44	11283	359	178	3.18	1.58
46	9372	252	211	2.69	2.25
	<b>216672</b>	<b>17313</b>	<b>5417</b>	<b>7.9904</b>	<b>2.5001</b>

### Dharwad City (Hubli - Dharwad West)

Ward No.	Total Population	SC Population	ST Population	SC%	ST%
2	11202	627	352	5.6	3.14
4	11759	608	140	5.17	1.19
5	10930	392	112	3.59	1.02
6	11218	149	93	1.33	0.83
7	11862	521	113	4.39	0.95
8	9686	476	136	4.91	1.4
9	8692	101	454	1.16	5.22

10	10523	1661	563	15.84	5.35
11	10439	80	129	0.77	1.24
12	9112	801	141	8.79	1.55
13	10446	1150	195	11.01	1.87
14	12746	1218	602	9.56	4.72
15	10179	982	223	9.65	2.19
16	14534	2570	231	17.68	1.59
17	13825	1008	506	7.29	3.66
18	12722	1446	551	11.37	4.33
19	14254	1824	949	12.8	6.66
20	14031	1434	532	10.22	3.79
21	15963	667	2621	4.18	16.42
22	12247	774	380	6.32	3.1
23	15507	808	938	5.21	6.05
	<b>251877</b>	<b>19297</b>	<b>9961</b>	<b>7.66</b>	<b>3.95</b>

**Dharwad Rural (Dharwad)**

Constituency	Total Population	SC Population	ST Population	SC%	ST%
Garag Circle	74754	4285	4337	5.73	5.8
Amminbhavi Circle	64431	3984	2332	6.18	3.62
Alnavar Circle	39285	2083	3588	5.3	9.13
Dharwad Circle	24201	1766	3416	7.3	14.12
HDMC Ward No.1	15771	1204	670	7.63	4.25
HDMC Ward No.3	12481	1194	1594	9.57	12.53
<b>Total</b>	<b>247213</b>	<b>15477</b>	<b>16161</b>	<b>6.26</b>	<b>6.54</b>

**Navalgund**

Constituency	Total Population	SC Population	ST Population	SC%	ST%
Navalgund Taluk	176648	14477	8720	8.2	4.94
Shiraguppi Circle	65767	3554	2276	5.4	3.46
	<b>242415</b>	<b>18031</b>	<b>10996</b>	<b>7.44</b>	<b>4.54</b>

**Kundgol**

Constituency	Total Population	SC Population	ST Population	SC%	ST%
Kundgol Taluk	157053	13428	10243	8.55	6.52
Hubli Circle	2254	397	551	17.61	24.45
Chabbi Circle	60359	5146	3357	8.53	5.56
	<b>219666</b>	<b>18971</b>	<b>14151</b>	<b>8.64</b>	<b>6.44</b>

**Kalghatagi**

	Total Population	SC Population	ST Population	SC%	ST%
Kalghatagi Taluk	137016	14796	7272	10.8	5.31
HDMC Ward No. 35	13860	1189	431	8.58	3.11
HDMC Ward No. 36	13888	1432	294	10.31	2.12
HDMC Ward No. 37	17372	<b>851</b>	<b>652</b>	<b>4.9</b>	<b>3.75</b>
HDMC Ward No. 62	10948	1300	367	11.87	3.35
HDMC Ward No. 63	14330	616	264	4.3	1.84
HDMC Ward No. 64	11546	2300	143	19.92	1.24
	<b>218960</b>	<b>22484</b>	<b>9423</b>	<b>10.27</b>	<b>4.30</b>

## UTTAR KANNADA DISTRICT

**Amendments to the Proposed Delimitation Commission draft  
pertaining to Assembly Constituencies of Uttar Kannada District.**

### YELLAPUR & BHATKAL CONSTITUENCIES

1. The Yellapur Constituency consists of Yellapur Taluk (73497) Mundgod Taluk (90738), Sirsi Taluk (part) Banavasi Circle (43771) and Hulekal Circle (29695). In this the majority population is from Mundgod Taluk that is why, please name this Constituency as "MUNDGOD Constituency instead of YELLAPUR Constituency".
2. The part of Mavinkurva Circle is included in Bhatkal Constituency but request to retain complete Mavinkurva circle in Bhatkal Constituencies:

### HAVERI DISTRICT

**Amendments to the Proposed Delimitation Commission draft  
pertaining to Assembly Constituencies of Haveri District.**

The draft proposals of delimitation in Haveri District have been affected and the norms have been violated as far as Haveri and Byadagi Assembly Segments are concerned. In proposed Byadagi Assembly Segment, the revenue circles of Haveri are included which has created so many problems like:

1. Geographical compactness is neglected.
2. The Physical features and existing boundaries of administrative units are not feasible.
3. The communication facilities and public convenience are totally forgotten.
4. To reach the border villages of Haveri Revenue circle the people from Byadagi Assembly Constituency will have to cross over Haveri town and these villages are about 10-15km away from Haveri Town itself.

The Contiguity of administrative units is totally affected and it has created enclaves / Island within the area belonging to another constituency. Therefore the following suggestions are made to avoid all these lacuna.

1. Instead of Haveri Revenue Circle the Guttal Revenue Circle of Haveri Taluk is to be included in Byadagi Assembly Segment is enclosed for your perusal. The population concerned to all assembly segments of Haveri District are within the range prescribed.

In this regard the district map showing the different colours for Byadagi Assembly segment and Haveri Assembly segment is enclosed for your perusal. The population concerned to all assembly segments of Haveri District are within the range prescribed.

Total population SC/ST population % of SC/ST population of each Assembly segments of Haveri District is enclosed for your ready reference. As far as the Ranebennur Assembly segment is concerned only small suggestion is made. Yettinahalli village and Ranebennur Rural are to be shifted to Ranebennur Assembly segment and Y.T. Honnatti (Yallapur) village of Ranebennur Taluk to the shifted to Byadagi Assembly segment, Nukapur, Rampur, Hullalli villages are to be included in Byadagi Assembly segment, because Nukapura and Rampur are part at Hanumapur village Panchayat Hullatti is a part of Guddaguddapur Panchayat. So also Ranebennur (Rural) is a part of Rahutanakatti Panchayat. Kusagur is part of Benakanakonda Panchayat. These suggestions are made to avoid the divisions in the administrative units like villages panchayats. All these figures are shown in the population list of all the Assembly segments of Haveri district.

If these suggestions are accepted there will not be any violation regarding ingredients.

## DAVANGERE DISTRICT

**Amendments to the Proposed Delimitation Commission draft  
pertaining to Assembly Constituencies of Davangere District.**

### DAVANGERE SOUTH & NORTH CONSTITUENCIES

Previously Election commission has made 1 to 11 wards & 26 to 35 wards as south Davangere from ward no 12 and 25 including Kasaba village shiramagondanahalli, Kakaragolla, Kodihalli, Bethur, Putaganal, Kaidahlu, javalaghatta, Giryapura, Hosanayakanahalli, Avaragolla, Chikkabudihal, Doddabathi, Halebathi, Neelanahalli, Agasanakatte, Belavanur, Turchaghatta, Dahdamuttenahalli, Bullapura, Chandrenahalli, Kadlebalu, Malagondanahalli, Devarahatti, Basavvanahatti, Obajjihalli, jadaganahalli, Kanavagondanahalli, Kolenahalli, Anekonda, Rampura, Kenchammanahalli, Basapura, Lingadahalli, Mudahadadi, Ballur, Siraganahalli, Vaderahalli, Kadajji, Mallapura, Nagarakatte, belongs to north Davanagere. This is not correct in respect of geographically, socially and equality of population.

If we convert 1 to 22 ward as north Davanagere and 23 to 35 including Kasaba Villages as south Davanagere, It is very much convenient to give the names for the city. And it will be right in respect of geographically, social justice and equality of population.

Note : Channagiri, Honnalli, Harihara, Mayakonda, Harapanahalli, these you need not to change.

**Population:**

**DAVANGERE (NORTH)**

Word No 1 to 22 = 2,24,834

**DAVANGERE (SOUTH)**

Word No 23 to 35 = 1,39,689

+  
KASAB VILLAGES = 84,314

2,24,003

**KASABA VILLAGES**

Shiramagondanahalli, Kakaragolla, Kodihalli, Bethur, Putaganal, Kaidahlu, Javalaghatta, Giriypura, Hesanayakanahalli, Avaragolia, Chikabudihal, Doddabathi, Helebathi, Neelanahalli, Agasanakatte, Belavanur, Turbaghatta, Dandamuttenahalli, Bullapura, Chandrenahalli, Kadlebalu, Malagondanahalli, Devarahatti, Busavvanahatti, Obajjihalii, Arasapura, Naganur, Bisleri, Joreskatte, Kukuvada, Nagarasanahalli, jadaganahalli, Kanavagondanahalli, Kolenahalli, Anekonda, Rampura, Kenchammanahalli, Basapura, Lingadahalli, Mudahadadi, Ballur, Siraganahalli, Vaderahalli, Kadajji, Mallapura, Nagarakatte.

DISTRICT: HAVERI			
2001 POPULATION		Assembly Existing & Proposed Seats	
Total:	1439116	Total	SC ST
SC:	175360	Existing	6 1
ST:	127163	Proposed	6 1
District Average	239853		
Accepted Range (- or + 10%)	215867-263838		

No. & Name of the Assembly Constituency	Extent of Constituency	2001 Population			% of SCs	% of STs	% of deviation
	Name of Tehsil/ RIC/ PC	Total	SCs	STs			
82. Hangal	3 Hangal Taluk	230750	30933	18249			
	Grand Total of Constituency	230750	30933	18249	13.41	7.91	-3.80
83. Shiggaon	1 Shiggaon Taluk	166742	17104	9948			
	2 Savanur Taluk (Part)						
	1 Savanur Circle	48454	6093	4641			
	Savanur TMC	35563	2913	263			
	Grand Total of Constituency	250759	26110	14852	10.41	5.92	4.55
84. Haveri (SC)	Savanur Taluk (Part)						
	2 Hattimattur Circle	59868	10906	6473			
	4 Haveri Taluk (Part)						
	2 Karjagi Circle	63904	6524	6351			
	Haveri Circle	55818	5914	5348			
	Haveri TMC	55913	6467	2919			
	Grand Total of Constituency	235503	29865	21091	12.68	8.95	
85. Byadgi	5 Byadgi Taluk	127944	14452	17154			
	4 Haveri Taluk (Part)						
	3. Guttal Circle	76712	10731	8345			
	7 Ranibennur Taluk (Part)						
	1 Ranebennur Circle (Part)						
00874100 Hanumapur							

	Medaleri Circle (Part)							
	Nukapur	1260	471	-				
	Ramapur	1292	1276	-				
	Y.T. Honnatti	1811	316	131				
	TOTAL	4363	2009	131				
	0087850 Hullatti	706	462	158				
	00880800 Kusagur	1587	333	37				
	00877500 Kakola	4559	425	271				
	00877600 Venkatapur	1227	1210	-				
	00877700 Kajjari	4543	842	858				
	00877800 Shidangnal	430	15	131				
	00877900 Gudda Guddapura	4184	829	201				
	00878100 Honnatti	2874	445	024				
	00878300 Kere Malapua	1254	211	071				
	00878400 Guddada Ariveri	1362	126	181				
	00878600 Konabevu	1468	333	050				
	00878700 Asundi	3560	335	877				
	00878800 Hulihalli	2242	232	020				
	00879300 Yerekuppi	1553	288	041				
	00879400 Lakhmapur	133	-	-				
	00879500 Sarvonda	1245	206	376				
	00879600 Veerapur	225	133	0				
	00879700 Ukkund	2444	99	613				
	008800000 Benakanakond	3415	449	144				
	00879800 Joisararahatahalli	3431	316	325				
	00879800 Tirumaladevarakoppa	821	145	81				
	00880100 Sunakalbidari	3376	524	10				
	00880200 Guddadahosahalli	1606	139	123				
	00880300 Guddadabevinahalli	942	220	68				
	0080400 Yadiyala	2546	191	439				
	Grand Total of Constituency	263566	36156	30261	13.71	11.48		
86. Hirekerur	6 Hirekerur Taluk	212458	26914	22338				
	Grand Total of Constituency	212458	26914	22338	12.67	10.51	-11.42	
87. Ranibennur	7 Ranibennur Taluk (Part)							
	2 Kuppelur Circle	792180	6888	9771				
	3 Medleri Circle	75365	11487	7128				
	1 Ranebennur Circle (Part)							
	99767899 Padmavathipur	1908	1906	0				
	00879100 Shrinivasapur	2232	2157	9				
	00880500 Magod	2284	371	180				
	00880700 Devagondanakatti	797	37	116				
	Ranebennur CMC	89618	4949	2680				
	00878200 Yettinahalli	842	41	277				
	00879200 Ranebennur (Rural)	410	404					
	Grand Total of Constituency	246062	25436	19835	10.33	8.06		

## SHIMOGA DISTRICT

### Amendments to the Proposed Delimitation Commission draft pertaining to Assembly Constituencies of Shimoga District.

There are eight (8) Vidhana Sabha Constituencies in Shimoga District. After the draft issued by the Commission, Now our district is going to be divided among seven (7) Constituencies. The District Population is 16,42,522 and average is 2,34,649. The Accepted rangers between 2,11,184 and 2,58,114. For the accepted range 2,11,184 the district can have eight (8) Vidhana Sabha Constituencies. The short population is only 47,000 So it can also be consider as a special as in North – East for our district also. (Malnad). The Constituencies arranged in the draft are not so scientific. They can be redevied as in our proposal. By dividing those as per our proposal the area, the culture of Malnad and Dry Land, the accessibility among Constituencies are becoming easier. So we are proposing the redevison of Constituencies as below. (The details and map attached with this letter)

#### Reasons for Proposal

1. 115 Shikaripura can be retained as it is.
2. 116 Sorab can be retained as it is.
3. 111 SHIMOGA RURAL :

#### The area of Shimoga Rural is changed as below.

- a) 4 Holehonour I Circle, 5 Holalur II Circle 6 Holehonour III Circle is retained
- b) 3 Nidige I Circle, 5 Holalur I Circle & Holalur II Circle is retained.
- c) 3 Kudligere Part is replaced by Shimoga Kasaba II Circle because the area is adjustment to other areas of the proposed Shimoga Rural Constituency.

#### 4. 112 BHADRAVATHI :

- a) 1 Kasaba I Circle, 2 Kasaba II Circle and Bhadravati CMC is retained
- b) The whole of 2 Kudligere is included because the whole area is attached to the other part of proposed Constituency. The P.C. is in town area, obviously it is thickly populated so the total is also more.

#### 5. 113 SHIMOGA :

For proposed Shimoga Constituency is a urban one. So I Kasaba I Circle is included und the rural area of existing Constituency 4 Nidige II Circle is included because it is very much adjusent to the Kasaba I Circle.

#### 6. 114 THIRTHAHALLI :

- a) The Thirthahalli Taluk is retained.
- b) The part of Hosanagar Taluk I Humcha Circle & 2 Nagara Circle is included to this Constituency inplace of Shimoga Taluk (Part) 4 Nidige II Circle 7 Haranahalli Circle and 8 Kumsi Circle because the Thirthahalli Taluk is a

malnad region situated in western 9 hats. The culture of Thirthahalli is very much different that of Nidige. Haranahalli and Kumsi. The proposed Constituency is also very lengthy one. It is about 150 km long. The mobility is also very difficult if it is placed as it is. Hence the new proposal.

#### 7. 117 SAGAR :

The Sagar Taluk part is retained as it is.

The Hosanagara Taluk (part) 1. Kasaba Circle and 2. Kerehalli Circle is retained. The other parts of Hosanagara Taluk, Humcha Circle and Nagara Circle are proposed to included to Thirthahalli Constituency. So for the other short fall of the population it is proposed that 6 Shimoga Taluk (part) 8 Kumsi Circle and 7 Haranahalli Circle are included. The 1/3 part of the Sagar Taluk area is submerged in Sharavathi Power Project. So the population is also is thin, and area of the district must be included to this Constituency to attain the population average. Obviously the Constituency is very big and lengthy and spared over in three Taluks.

Three Villages are to be Deleted From SHIMOGA Rural Constituency.

The delimitation Act -2002, the average state population for each Assembly Constituency is accepted at an average of 2,59,534 is 2,35,940 at accepted average between 2,12,346 as per 2001 population.

Now the SHIMOGA District is having population is as per 2001 is 16,42,545 the district average is 2,34,649 but the district average between 2,11,184 to 2,58,114.

The following Shimoga rural Assembly Constituency, there are three places of Bhadravathi are to be deleted in the proposed notification i.e.,

Sl. No.	Name of the Assembly Constituency	Extent of Constituency Name of Tahasil / pc	2001 Population		
			Total	SC	ST
01	Shimoga Rural	01283400-Kagekodamagge	2158	279	9
		01283500- Baballi (Panchayat Center)	1121	112	0
	(Dodderi Panchayt)	01283800- Bandigudda	284	39	25
		<b>TOTAL</b>	<b>3563</b>	<b>430</b>	<b>34</b>
		<b>GRAND TOTAL : 3563+430+34 =</b>			

Now proposed population is = 2,25,086 - 4,027 = 2,21,059

However the boundaries of the assembly constituencies have to be redrawn on the basis of the above Panchayath & populations. The deletion of these three places, the population is not affected to constituency as per the accepted average. District population 2,11,184-after deletion the constituency population is 2,21,059. The above deleted three places is to include.

The above deleted Shimoga rural constituency of three villages is to be included in Bhadravathi Constituency, because of distance and as well as for nearer to (above 2.0 km) head quarters of Bhadravathi Town. And all other administrative purpose, it is feasible & helpful to the public as such this is to be included to Bhadravathi Constituency. The population of the villages is 4027.

The above change of population and villages will not be affect accepted average population and also other Constituency.

Sl. No.	Name of the Panchayath	Village code	Name of the Village
01.	Kagekodamagge Panchath	01283400	1. Kagekodamagge I
			2. Kagekodamagge II
		01283500	3. Baballi
			4. Thiplapura
02.	Dodderi Panchayath		1. Dodderi
			2. Belligere
		01285800	3. BANDIGUDDA
			4. Gangooru

### PROPOSED PLAN FOR SHIMOGA DISTRICT DELIMITATION OF VIDHANA SABHA CONSTITUENCIES

No. & Name of the Assembly Constituency	Extent of Constituency		2001 Population			% of SCs	% of STs	% of deviation
	Name of Tensi/ RIC/ PC		Total	SCs	STs			
<b>111. Shimoga Rural (SC)</b>	<b>7 Bhadravati Taluk (Part)</b>							
	4 Holehonnur I Circle		28095	4193	2168			
	5 Holehonnur II Circle		21342	5430	969			
	6 Holehonnur II Circle		29377	8802	3064			
	<b>6 Shimoga Taluk (Part)</b>							
	2 Kasaba II Circle		28049	5720	1376			
	3 Nidige I Circle		63107	14426	2997			
	5 Holalur I Circle		31363	8684	2566			
	6 Holalur II Circle		17405	4594	506			
	<b>Grand Total of Constituency</b>		<b>2,16,738</b>	<b>51,849</b>	<b>13,666</b>			

112. Bhadravati	7 Bhadravati Taluk (Part)	27315	4075	361
	1 Kasaba I Circle	29676	8388	451
	2 Kasaba II Circle	41942	11197	1391
	3 Kudligere Circle (Part)	160662	25664	4272
	Bhadravathi CMC	2,59,595	49,324	6,475
113. Shimoga	Grand Total of Constituency	2,59,595	49,324	6,475
	6 Shimoga Taluk (Part)	224106	24746	5794
	1 Kasaba I Circle	24507	5677	1128
	4 Nidige II Circle	2,48,613	30,423	6,922
	Grand Total of Constituency	2,48,613	30,423	6,922
114. Tirthahalli	5 Tirthahalli Taluk	143207	13779	2326
	4 Hosanagar Taluk (Part)	70603	3807	1547
	Himcha Circle			
	Nagara Circle			
	Grand Total of Constituency	2,13,810	17,576	3,873
115. Shikarpur	3 Shikarpur Taluk	213590	47591	11988
	Grand Total of Constituency	2,13,590	47,591	11,988
	Grand Total of Constituency	185572	35073	6785
116. Sorab	2 Sorab Taluk			
	1 Sagar Taluk (Part)	59192	4848	565
	2 Kasaba Circle	2,44,764	39,921	7,350
112. Sagar	Grand Total of Constituency	2,44,764	39,921	7,350
	1 Sagar Taluk (Part)			
	3 Avinahalli Circle	36532	3041	537
	4 Talaguppa Circle	30195	2214	831
	5 Bharangi Circle	21590	2594	1216
	6 Karur Circle	14452	863	421
	1 Ariandapuram Circle	39034	5748	401
	4 Hosanagara Taluk	115000	10834	1929
	Kerehalli Circle			
	Kasaba Circle	44357	7266	250
	6 Shimoga Taluk (Part)			
	7 Haranahalli Circle	36468	8917	1770
	8 Kumsi Circle	20187	2248	1201
	Grand Total of Constituency	2,42,8215	32,891	6,627

## CHIKMAGALORE DISTRICT

**Amendments to the Proposed Delimitation Commission draft  
pertaining to Assembly Constituencies of Chikmagalore District.**

### **SRINGERI CONSTITUENCY**

- TO Sringeri Constituency it is already Sringeri, Koppa and Narasimharajapura Taluk completely joined hence already geographically this Constituency is very big, now again Jagara Hobli is adding it will be very difficult to manage this Constituency, and inconvenient to the people because of the distance, hence the Jagara hobli can be added to Chikmagalore Constituency which is adjoining and area wise very compact and the population will be very much within the limit.

Sl. No.	Sringeri	Our proposal	As per Delimitation	Chikmagalur	Our proposal	As per Delimitation
				6. Chikmagalur Taluk (Part)		
1.	Sringeri Taluk	36930	36930	8. Lakya Circle	41001	41001
2.	Koppa Taluk	87780	87780	1. Kasaba Circle	36957	36957
3.	Narasimharajapura Taluk	65639	65639	Chikmagalur CMC	101251	101251
6	Chikmagalur Taluk (Part)			5. Kadur Taluk (Part)		
4	Kandya Circle	16146	16146	5. Sakrepatna Circle	52387	52387
5.	Jagara Circle		17079	5. Jagara Circle	17079	
	<b>Grand Total of Constituency</b>	<b>206495</b>	<b>223574</b>		<b>248675</b>	<b>231596</b>

District accepted range 205363 to 250999

As per revised:      Sringeri:                      **206495**  
                                  Chikmagalore :              **248675**

## PROPOSAL NO. 147, BANGARPET, (S.C) CONSTITUENCY

EXTENT OF CONSTITUENCY	2001 Population		
	Total	S.C.	S.T.
Name of Thasil			
Bangarpet Taluk (Part)	53801	20314	901
Kasaba Circle	25577	6227	1098
Kamasamudra Circle	31256	7272	2154
Boodi Kote Circle	38703	8051	296
Bangarpet T.M.C.			
Robert Son pet Circle Part	510	58	89
Manchanahalli	469	47	57
Alaganahalli	560	28	32
Chalaganahalli	1060	428	20
Mavahalli	393	58	20
Kamandahalli	433	198	-
Vadandahalli	476	56	16
Mitta Malahalli	213	57	-
Pichaguntrahalli	1221	259	142
Hunukunda	-	-	-
Ganacharapura - B	1183	258	148
Madamuttanahalli	802	261	199
Doddarahalli	298	43	215
Kurubarahalli	2766	557	382
D.K. Halli	822	467	33
Kavaragaahalli	600	330	-
Thammenahalli	615	369	-
Ajapalli	665	274	-
Malayangurki	1233	290	14
Kesaranahalli	320	131	-
Chikkakarimanahalli	1007	199	14
Doddachinnapalli	294	22	-
Iymarasapura	1283	373	-
Doddavalagamadi	323	68	-
Booragamakalahalli	340	339	-
Byraganahalli	911	413	07
Krishnarajapura	2938	1131	-
Gattakamadenahalli	309	291	17
Gattaragidahalli	1276	657	99
Peddapalli	3674	908	04
Chinnakota O.G. Ward 37	3262	1208	178
Dasarahosahalli O.G. Ward 39	3410	845	17
D.K. Halli O.D. Ward 40	02	03	04
01	494	56	54
Yeranaganahalli	663	258	-
Chennapalli	-	-	-
Bethamangala Circle Part	232	71	-
Thambarlahalli	636	306	-
Jayamangala	502	40	-
Maddinayakanahalli			

Chinnapanahalli	104	88	-
Kallikuppa	796	456	-
Kogilahalli	274	39	-
Natha	256	55	-
Thimmsasandra	386	184	-
Gollahalli	879	617	-
I. Mittur	711	229	30
Amanikere B	-	-	-
Iyapalli	406	323	-
Nallur	687	223	-
Ankathatti halli	532	92	-
Chigarapura	289	137	-
K. G. Kote	781	188	196
Reddy Halli	393	73	-
Pedampalli	291	29	22
Thamepalli B	-	-	-
Kammasandra	1178	223	199
Chinalabandahalli	280	117	106
Katampalli B	-	-	-
Nagashettyhalli	560	53	83
Kaggilahali	71	20	19
Gorlachinapalli	191	40	35
Bommandahalli	311	63	61
Sytarayanahalli	955	88	66
Kolar Taluk Part	-	-	-
Huttur Circle Part	23716	8812	432
(Except Huttur G.P. Villages)	-	-	-
Total	219577	66367	7455

**Reconstitution of Assembly Constituency - Proposals in respect of  
A.C. No. 146, 147, 148 and 149.**

Name of the Assembly Constituency	Proposed reconstitution of assembly segments				Suggested reconstitution of assembly Segments			
	Populations	SC	ST	%SC	Populations	SC	ST	%SC
146 Robertsonpet (SC)	238484	101145	2883	42.41	225599	97366	1709	43.15
147 Bangarpet (SC)	243443	70897	6735	29.12	219377	66367	7455	30.22
148 Kolar	227478	44700	8444	19.55	233688	45118	8444	73
149 Malur	207009	50797	18988	24.54	237573	59964	21013	23.55

**PROPOSAL NO. 147, BANGARPET, (S.C) CONSTITUENCY**  
**Deletion Villages**

Huttur Circle			
Part			
Huttur G.P.			
Villages			
Huttur	1164	239	-
Guttur	-	-	-
Hollali	1008	126	-
Hosur	-	-	-
Vittapanahalli	1052	249	-
Nernahalli	449	132	-
Ramasandra	585	309	-
Belaganahalli	762	217	-
Bommabusapura	-	-	-
Yenadahalli	531	104	-
Thambihalli	659	52	-
M. Thambihalli	2	-	-
Vakkaleri Circle	30564	5167	2025
Total	36774	6585	2025

**KOLAR DISTRICT**

**Amendments to the Proposed Delimitation Commission draft  
pertaining to Assembly Constituencies of Kolar District.**

**BANGARAPET (SC) CONSTITUENCY**

1. The Vokkaleri Hobli, which is proposed for inclusion to Bangalore (SC) A.C. is comprises within Kolar Taluk and it is on the way to Malur Town. If this Hobli Circle is included to Bangalore (SC) A.C. the public has to face hardship to reach Bangarpet (SC) A.C by traveling 30 KM Via Kolar Town. If this Vokkaleri Hobli Circle has to be included to Malur A.C. as it is just 12 KM only. The clear picture is shown in the Map enclosed. Then the population of Malur A.C. will be 2.37 lakhs after inclusion of Vokkaleri Circle.
2. The Huthur circle has been proposed to include in Bangarpet (SC) A.C., The Huthur circle is located in NH4 (Bangalore – Chennai Road). It is just 8 KM to Kolar Town. The NH4 divides part of Huthur Hobli i.e., entire Grama

Panchayathi Area of huthur which adjacent to Kolar Town is to be included to Kolar A.C in the interest of General Public at large. If this is done the population of Kolar A.C. will be 2.33 lakhs.

3. The part of Bethamangala Cricle i.e., T. Gollahalli and Kammasandra Grama Panchayaths are proposed to include in Bangarpet (SC) A.,C. as they are very adjacent to Bangarpet (SC) A.C. These two Grama Panchayaths has to be deleted from Robertsonpet (SC)A.C. in the interest of public at large.

In the view of the above proposal the population of assembly constituencies of No. 146, 147, 148 & 149 will be as follows as per statement annexed to this proposal.

1. 146 – Robertsonpet (SC)A.,C -	2.25 lakhs
2. 147 – Bangarpet (SC)A.,C -	2.19 lakhs
3. 148 – Kolar A.,C -	2.33 lakhs
4. 149 – Malur A.,C -	2.37 lakhs

The above proposal is filed in the interest of General Public at large and also it is very convenient in View of smooth administration and implementation of socio-economic programmes. Request to consider this proposal in the interest of public and oblige.

## **BANGALORE URBAN DISTRICT**

### **Amendments to the Proposed Delimitation Commission draft pertaining to Assembly Constituencies of Bangalore Urban District.**

This is a Proposal for realignment of the proposed delimitation of Assembly Constituencies in Bangalore District.

Bangalore East and K.R. Pura Constituencies needs to be realigned geographically to make it administratively accessible and viable.

1. In the Proposed delimitation of constituencies Ward Nos. 20 to 29 of the K.R.Puram CMC is in the K.R. Puram Constituency. Which should have been included in the Bangalore East Constituency.
2. Whereas the K.R. Puram Circle is included in the Bangalore East, which should have been in the K.R. Puram Constituency. There is no connectivity between the K.R. Puram Circle and the Bangalore East Constituency, as Ward Nos. 20 to 29 of the K.R. Puram CMC is positioned between the K.R. Puram Circle and the actual Bangalore East Constituency. Hence to undo this discrepancy, it would be wise to include K.R. Pura Circle (excluding Hagadur OG) to the K.R. Pura Constituency and include Ward Nos. 20 to 29 of K.R. Puram CMC to Bangalore East Constituency.
3. The other change that could be brought in is to bring Ward Nos. 12, 13& 15 of Mahadevapura CMC to the K.R. Pura Assembly Constituency, as these areas adjacent to the K.R. Pura Constituency, which is on one side of the National Highway which divides the K.R. Pura and Bangalore East Assembly Constituencies.

K. R. PURA - 151						
Ward Name	Tot_P	P_SC	P_ST			
1 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.1	3289	283	119			
2 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.2	3208	169	37			
3 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.3	4116	708	130			
4 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.4	3799	255	76			
5 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.5	2842	312	83			
6 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.6	4364	1047	36			
7 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.7	4482	678	72			
8 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.8	5394	1185	103			
9 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.9	7743	1025	127			
10 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.10	7425	1472	286			
11 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.11	4128	1107	62			
12 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.12	4542	191	16			
13 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.13	3401	568	11	249388	233469	15919
14 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.14	4980	1996	78			
15 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.15	5156	1124	135			
16 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.16	6562	206	59			
17 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.17	9725	540	142			
18 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.18	2483	282	0			
19 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.19	5319	353	118			
30 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.30	6080	807	27			
31 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.31	10302	2179	39			
32 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.32	5235	1076	44			
33 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.33	5332	931	3			
34 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.34	2999	921	63			
35 Krishnarajapura (CMC) - Ward No.35	3439	769	42			
Bidarahalli Circle	66456	19038	894			
K. R. Pura Circle	41145	5341	444			
excluding Hagdur O.G. 32						
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 12	7201	1249	85			
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 13	5198	1698	171			
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 15	3043	775	23			
	249388	48283	3525	19.3606	1.41346	6.818464

Bangalore East No. 174				
Name	No_HH	Tot_P	P_SC	P_ST
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 1		5842	483	83
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 2		5264	428	83
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 3		4368	716	49
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 4		6974	1396	62
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 5		3524	382	6
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 6		3257	450	8
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 7		3736	1708	29
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 8		2564	200	0
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 9		3451	1059	8
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 10		2260	356	32
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 11		2565	410	62
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 14		2752	666	38
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 16		5065	1358	19
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 17		2879	124	4
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 18		3346	1133	77

Mahadevapura (CMC) - Ward No. 19	6541	636	17			
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 20	4430	330	44			
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 21	6938	1252	132	249332	233469	15863
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 22	2443	141	16			
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 23	5767	1038	40			
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 24	5431	1620	99			
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 25	4282	531	23			
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 26	3715	297	41			
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 27	4541	1452	92			
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 28	2366	270	67			
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 29	7737	1092	91			
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 30	4887	733	25			
Mahadevapura (CMC) - Ward No. 31	3427	1025	38			
Hgudur O g	12562	1702	78			
Chenasandra O G	5867	819	91			
Varthur Circle	50686	15397	262			
Krishnarajapura (CMC) - Ward No.20	8336	1704	70			
Krishnarajapura (CMC) - Ward No.21	9282	493	156			
Krishnarajapura (CMC) - Ward No.22	11084	841	61			
Krishnarajapura (CMC) - Ward No.23	5506	346	45			
Krishnarajapura (CMC) - Ward No.24	6843	3003	52			
Krishnarajapura (CMC) - Ward No.25	1481	151	29			
Krishnarajapura (CMC) - Ward No.26	3642	784	74			
Krishnarajapura (CMC) - Ward No.27	2380	491	88			
Krishnarajapura (CMC) - Ward No.28	2708	542	54			
Krishnarajapura (CMC) - Ward No.29	8603	1312	36			
	<b>249332</b>	<b>48871</b>	<b>2381</b>	<b>19.601</b>	<b>0.955</b>	<b>6.7945</b>

## **BANGALORE URBAN**

Amendments to the Proposed Delimitation Commission draft  
pertaining to Assembly Constituencies of Bangalore District.

### **YASHWANTHPURA & DASARAHALLI CONSTITUENCIES**

1. Yeshwanthpura Villages was one of the Hobli Headquarters in the erstwhile Bangalore North Taluk. In 1962, along with other villages of its folding as Hobli Headquarters, the Yeshwanthpura Villages was included in the city of Bangalore.
2. Again in 1995, out of the remaining Yeshwanthpura Hobli major villages, about 13 BMP wards were added to the existing 100 wards of the city of Bangalore.
3. Soon after, once again in 1995 itself, the Yeshwanthpura Hobli remaining major villages together formed the (a) 35 wards of Dasarahalli CMC & (b) 13 wards of Pattanagere CMC.

Thus the number of villages presently come under Grama Panchayats are 10% only. Above 20 Bangalore Corporation Wards & 48 wards of 2 CMCs are formed out of Yeshawanthapura Hobli villages. Even after 34 years of its merger with the city of Bangalore, still Yeshawanthapura is continued to be the Hobli Headquarters. Like all other Hobli Headquarters, not even one Public Relations lower officer's / quarters situated at Yeshawanthapura. Leaving the areas around the Yeshawanthapura & tagging on to it the far off villages coming under Grama Panchayats is improper & unwanted.

To this day, entire areas of the proposed Yeshawanthapura & Dasarahalli assembly constituencies come under Yeshawanthapura Hobli. Assuming only those villages which come under Grama Panchayat constitute the Hobli & not the other villages of Corporation & CMC areas, although they come under the Hobli, is not correct.

#### Geographical Entity with Compact Area :-

If any area is demarcated as one area / ward / constituency, there shall be Geographical Entity with Compactness. In the Map -I, said to have been proposed, there is no Geographical Entity as there are 3 parts (Marked as (1) in all). Certainly there is no Compactness.

So, as the Villages / areas of the proposed (a) Yeshwanthpura & (a) Dasarahalli Assembly Constituencies are in Yeshwanthpura Hobli, please consider them as in Map - II in the public interest & conveniences.

Details of Population are as under:

	Existing Map - I		Our Amendments Map - II	
<b>1.</b>	<b>153. YESHWANTHPURA</b>			
	A. Yeshwanthapura Circle i.e., 5 Grama Panchayats	72,013	A B'lore (M-Corpn.) Ward Nos. 1 to 3 & 11	1,45,842
	B. Dasarahalli CMC ward Nos. 1 to 3	15,602	B Dasarahalli CMC ward Nos. 24 to 31 and 34 & 35	1,12,893
	C. B'lore (M-Corpn.) Ward Nos. 1 to 3 & 11	1,45,842		
	<b>Total</b>	<b>2,33,457</b>	<b>Total</b>	<b>2,58,735</b>
<b>2.</b>	<b>155 DASARAHALLI</b>			
	A. Dasarahalli CMC ward Nos. 4 to 35	2,49,338	A Dasarahalli CMC ward Nos 1 to 23	1,52,047
			B 5 Grama Panchayats of Yeshawanthpura Hobli.	72,013
	<b>Total</b>	<b>2,49,338</b>	<b>Total</b>	<b>2,24,060</b>

Our earnest request is to consider the MAP -II's amendments, which is very convenient and Compact.

## BANGALORE CITY

### Amendments to the Proposed Delimitation Commission draft pertaining to Assembly Constituencies of Bangalore City.

#### BANGALORE CITY CONSTITUENCIES

The delimitation proposal by the Delimitation Commission is unscientific, ungeographical, and also inequality of population. The reservation for SC, ST is unjustified. The reservation under these categories are not according to population. In this regard we are suggesting amendments to the delimitation as enclosed.

#### Delimitation Proposal from Bharatiya Janta Party

Bangalore City - 1				
Ward No	Ward Name	Tot. Pop	S.C	S.T
10	Mahalakshmipura	34702	5163	341
12	Nandini Layout	43445	4814	655
13	Galeyara Balaga	38743	1022	309
16	Kamalanagar	61314	7301	625
17	Vrushabhavathinagar	29275	546	279
18	Kamakshipalya	25742	2004	321
	<b>Total</b>	<b>233221</b>	<b>20850</b>	<b>2530</b>
Bangalore City - 4				
Ward No.	Ward Name	Tot. Pop	S.C	S.T
89	Kacharakanahalli	32889	3009	306
93	Devarajeevanahalli	51578	8963	102
94	Kadugondanahalli	60896	7928	159
95	Kavalbyrasandra	84461	13111	391
	<b>Total</b>	<b>229824</b>	<b>33011</b>	<b>958</b>
Bangalore City - 5				
Ward No	Ward Name	Tot.Pop	S.C	S.T
83	C.V. Ramannagar	50256	3960	881
84	Benniganahalli	31985	7346	947
86	Maruthisevanagar	39586	8633	109
87	Lingarajpura	56530	7796	413
88	Banaswadi	26103	2678	263
	<b>Total</b>	<b>204460</b>	<b>30413</b>	<b>2613</b>
Bangalore City - 6				
Ward No	Ward Name	Tot.Pop	S.C	S.T
69	Neelasandra	52079	6678	2161
71	Austin Town	39790	15542	390
72	Domlur	44357	6333	385
73	Airport	42288	8351	239
74	Jeevanbheemanagar	39820	5431	289
82	Hoysalanagar	33359	10497	210
	<b>Total</b>	<b>251693</b>	<b>52832</b>	<b>3674</b>

Bangalore City - 7				
Ward No	Ward Name	Tot.Pop	S.C	S.T
70	Shanthinagar	34682	4126	668
75	Jogupalya	36035	6194	811
76	Richmond Town	36465	4975	126
77	Sampangiram Nagar	32451	1372	296
81	Ulsoor	39669	6638	871
85	Sarvagnanagar	34943	12221	261
	Total	214245	35526	2833
Bangalore City - 8				
Ward No	Ward Name	Tot.Pop	S.C	S.T
78	Vasanthnagar	37028	4639	750
79	Shivajinagar	34988	1420	513
80	Bharathinagar	35681	2189	186
90	Sagayapura	43432	13347	173
91	Pulakeshinagar	42078	7188	138
92	Jaymahal	39663	7305	131
	Total	232870	36088	1891
Bangalore City - 9				
Ward No	Ward Name	Tot.Pop	S.C	S.T
6	Dattatreya	38723	4714	261
25	Ramchandrapura	35411	4343	272
47	Dharmaraya Swamy Temple	32938	2036	108
27	Gandhinagar	32809	6296	158
28	Chickpet	31851	219	89
29	Cottonpet	40704	2765	305
31	Binnypet	28069	2466	622
	Total	240505	22839	1815
Bangalore City - 10				
Ward No	Ward Name	Tot.Pop	S.C	S.T
14	Nagapura	36918	2622	353
15	Rajajinagar	37005	2234	269
19	Basaveshwaranagar	23228	1207	206
20	Shivanagar	28121	680	229
22	Srirama Mandira	41471	1087	327
23	Prakash Nagar	35465	1994	140
24	Bhashyam Nagar	34595	10651	170
	Total	236803	20475	1694
Bangalore City - 12				
Ward No	Ward Name	Tot.Pop	S.C	S.T
26	Sevashrama	37507	12398	516
32	Kempapura Agrahara	40047	1354	1078
33	Vijaynagar	40867	1534	282
34	R.P.C. Layout	44368	4668	460
40	Attiguppe	25619	1288	231
42	Bapujinagar	43223	3314	481
	Total	231631	24556	3048

Bangalore City - 13				
Ward No	Ward Name	Tot. Pop	S.C	S.T
30	K.R. Market	39521	17616	344
41	Gali Anjaneya	51746	2790	512
43	Padarayanapura	59933	4108	447
44	J.J. Nagar	43892	12594	281
45	Azad Nagar	40821	2630	825
	<b>Total</b>	<b>235913</b>	<b>39738</b>	<b>2409</b>

  

Bangalore City - 14				
Ward No	Ward Name	Tot. Pop	S.C	S.T
46	Chamrajpet	40725	4151	483
48	Sudham Nagar	42919	10099	346
49	K.G. Nagar	41075	2162	352
50	V.V. Puram	31893	1676	78
61	Mavalli	39505	4037	191
62	H.G. Nagar	53934	6312	394
	<b>Total</b>	<b>250051</b>	<b>28437</b>	<b>1844</b>

Bangalore City - 16				
Ward No	Ward Name	Tot.Pop	S.C	S.T
55	Padmanabhanagar	112407	5371	1041
56	Ganesh Mandira	87307	5438	1084
59	Yediyur	34613	1448	134
	<b>Total</b>	<b>234327</b>	<b>12257</b>	<b>2259</b>

  

Bangalore City - 17				
Ward No	Ward Name	Tot.Pop	S.C	S.T
57	J.P. Nagar	63906	4153	750
58	Jayanagar	40430	2103	198
60	Pattabhiramnagar	39308	4194	119
63	Lakkasandra	48979	6610	669
65	B.T.M. Layout	51545	3195	383
	<b>Total</b>	<b>244168</b>	<b>20255</b>	<b>2119</b>

  

Bangalore City - 18				
Ward No	Ward Name	Tot.Pop	S.C	S.T
64	Gurappanapalya	63111	5497	252
66	Madiwala	65820	6499	1107
67	Koramangala	45929	6816	542
68	Egipura	40986	5487	520
	<b>Total</b>	<b>215846</b>	<b>24299</b>	<b>2421</b>

## HASSAN DISTRICT

### Amendments to the Proposed Delimitation Commission draft pertaining to Assembly Constituencies of Hassan District.

- (1) Hassan Constituency: As suggested by Commission, Dudda Circle of Hassan Taluk, has been included to Holenarasipura by deleting Hallimysore circle from Holenarasipura Taluk, Dudda Circle, is geographically nearer to its Revenue Taluk of Hassan. Hence Dudda Circle shall be included to Hassan Constituency instead of Holenarasipura.
- (2) Holenarasipura Constituency: As suggested by Commission, Holenarasipura Revenue Taluk has been unnecessarily divided by deleting Hallimysore Circle and included to another Taluk Arakalgudu and it not geographically not correct, Hallimysore circles is only 12 km from Holenarasipura Town and to Arakalgudu and it is 40km.  
Hence the Hallimysore Circle shall be continue in Holenarasipura Constituency by deleting Dudda Circle of Hassan Taluk.
- (3) Arakalgudu Constituency : As suggested by the Commission, Hallimysore Circle of Holenarasipura Taluk has been included to Arakalgudu Constituency which is 45 km instead Kattaya circle which is only 15 km from Arakalgudu Constituency by deleting from Alur-Sakaleshpura Constituency.
- (4) Alur- Sakaleshpura Constituency : As suggested by the Commission, the Kattaya circle of Hassan Taluk has been included to Alur- Sakaleshpura Constituency which is nearly 75 km away. Instead Salagame Circle of Hassan Taluk is geographically attached to Alur Taluk may be included to Alur-Sakaleshpura Constituency.

### ALTERATION PROPOSED TO THE DENOTIFICATION OF HASSAN DISTRICT ASSEMBLY CONSTITUENCY

#### ALTERNATIVE SUGGESTION MADE BY HASSAN DISTRICT BJP

No. Name of Assembly	Extent of Constituency	Total Population	SCs	STs	Population Proposed by Commission
193. Sharvanabelagola	No change in the proposal made by the commission	2,35,016	24,900	1757	2,35,016
194. Arsikere	No change in the proposal made by the commission	2,50,448	50,275	7824	2,50,448
195. Belur	No change in the proposal made by the commission	2,36,351	56,229	4661	2,36,351
196. Hassan (Salagame Circle is deleted by adding Dudda Circle)	Hassan Taluk Part 1 Kassa Circle Hassan CMC+OG 4 Dudda Circle	67531 121874 51502	7709 7906 5779	204 816 301	
	<b>Grand Total</b>	<b>2,40,907</b>	<b>21,394</b>	<b>1321</b>	<b>2,23,669</b>

<b>197. Holenarasipur</b>	Hassan taluk part 3. Shanthigrama C.R. patna taluk part 6Dandiganahally Circle H.N. Pura taluk (entire)	46548 43089 166244	5666 3835 32710	665 106 3260	
	<b>Grand Total</b>	<b>2,55,881</b>	<b>42,211</b>	<b>4031</b>	<b>2,50,144</b>
<b>198. Arkalgud</b> (Kattaya Circle is added by deleting Halli Mysore circle)	Arkalgud taluk Hassan taluk part Kattaya Circle	199958 39538	40937 7437	2288 307	
	<b>Grand Total</b>	<b>2,39,496</b>	<b>48,374</b>	<b>2595</b>	<b>2,66,197</b>
<b>199. Sakleshpur (SC)</b> (Salagame Circle is added by deleting Kattaya Circle)	Sakleshpur taluk Alur taluk Hassan taluk part Salagame Circle	134345 86071 34154	36992 21894 9457	1638 1720 904	
	<b>Grand Total</b>	<b>2,54,570</b>	<b>68,343</b>	<b>4262</b>	<b>2,59,954</b>

The above proposal is avoided excess population to Arkalgud Constituency and avoided Unnecessary division Holenarasipur taluk.

**Geographical adjustment map of Hassan District is enclosed herewith.**

## KODAGU DISTRICT

**Amendments to the Proposed Delimitation Commission  
draft pertaining to Assembly Constituencies of Kodagu District.**

**Delimitation of assembly constituencies – prayer for retaining the present  
3 assembly constituencies in Kodagu district of Karnataka States.**

After British rule, Kodagu District was a "C" state with a legislative assembly having 24 members and two M.P. (1 Lok Sabha & 1 Rajyasabha member). After amalgamation & re-organization of the "C" state Kodagu was made as District of the Karnataka State with three Taluk without any change in its geographical feature. Geographically District is a Hilly terrained having about 4102 sq K.M. Trs. The traditional culture and customs of the people of Kodagu District is unique and District, when compared to the other part of the states.

The Kodagu District has three Taluks and three assembly constituency namely, 126 Virajpet, 127 Madikeri and 128 Somawarpet. As per 2001 census population of Kodagu District is 5,48,561. The population of Virajpet Taluk is 200628 Madikeri Taluk 142012 & Somawarpet Taluk – 205921. The average population of Kodagu District for three Taluk is 1,82,853. The proposed recommendation in for average population for a constituency is 274281 (246852 to 301709)

Keeping in view of the above aspects request you the Existing number of assembly constituencies of Kodagu District may be retained for the reasons stated below:

1. Reducing the No. of constituencies on the basis of state average population is unscientific, cities and plain areas are thickly populated and reaching a voter (or any people) is easier. Whereas in hilly areas (western Ghat area) are thinly populated, houses are scattered, officers or peoples representatives have to traverse more area, spend more time for reaching the people.
2. The educated disciplined and law-abiding people of Kodagu district voluntarily accepted the small family norms for proven economic and social reasons. Hence the percentage of increase in the population is lowest in Kodagu district, when compared to other parts of the state and country. Reducing the assembly constituencies on the basis of population (if there is any such thinking) of Kodagu district, it could amount to penalizing the people of Kodagu district for lowering the percentage or growth rate, which has been consciously done for economic reasons.
3. Under the Panchayath Raj Act concession is given to Malnad districts (Ghat areas) including Kodagu district of Karnataka state with regard to No. of seats based on population. In Kodagu district for each Zilla Panchayath seats the population fixed in the state is 18000 as against state average of 30000. The same principle should hold good for assembly constituency also while considering de-limitation of constituencies. If the state average concept is adopted to Kodagu district then the district identity of district will be disintegrated.
4. Kodagu district and its 3 taluks (and also the existing 3 assembly constituencies) have district and well demarked boundaries with well defined administrative unit. The 3 taluk Panchayath (Madikeri, Virajpet and Somwarpet) and 3 well defined taluks of the district and time tested administrative unit have been in existence ever-since 1947 on wards. The boundaries of the Panchayath and taluk Panchayaths have well defined boundaries with good communication system and contiguity of administrative unit, which is the main basic requirement while considering de-limitation. Since Kodagu district has all the required parameters and basic requirements as per the guidelines of the commission, the commission has no legal impediments in retaining all the 3 assembly constituencies as it is without any change. In this connection we would like to draw the kind attention of the commission to Clause IV of Para III under the head population. Clause IV reads thus "The de-limitation commission has however, taken an internal decision that as constituencies can not be delimited having exactly equal population in all cases, a deviation to the extent of 10 percent plus or minus from the state / district average would be acceptable to the commission, if the geographical features, means of communications, public convenience, contiguity of the areas and necessity to avoid breaking of administrative unit so demand".

As per this clause the commission has every right to take the district average of population more particularly in the case of Coorg district. Since the geographical features, means of communication, public convenience, contiguity or the areas demands the commission to take such a decision to avoid breaking of well defined, time tested and well knit administrative units of Kodagu district.

The total population of Kodagu district in 5,48,561 and the average population for 3 assembly constituencies works out at 1,82,853. As per clause IV of the commission guide –lines district average. Populations can be taken as a guiding factor. The commission would be fully within its rights to apply this para-meter for our district to protect the existing 3 assembly constituencies and there by protecting the district individuality and district characteristics of Kodagu district characteristics of Kodagu district, which has the privilege of being "C" state before integration.

**Conclusion:**

For the justifiable reasons as stated in the paragraphs above we earnestly request the commission to maintain the status quo as far as our district is concerned. In respect of 3 assembly constituencies and in doing so the commission will only protect the district individuality and characteristics of this great district of India (once, 1' great the 'C' state of India) and there by honouring the sentiments, feelings, aspirations of the people of Kodagu district.

[6]

**R. G. R. Sindhia B.E.,**

Off : # 199A, 1st Floor, 4<sup>th</sup> Block,  
Legislators House, Bangalore-560001,

Res : # 685A, 'Mookambika Krupa'  
100ft Ring Road, 2<sup>nd</sup> Phase,  
J.P. Nagar, Bangalore-560078.  
Ph : 26586725/ 26582711

Associated Member,  
Delimitation Commission of India

Date : 23.02.2007

**Justice Kuldeep Singh ji**  
Hon'ble Chairman  
Delimitation Commission of India,  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road,  
New Delhi 110 001

Dear Sir,

**DISSENTING NOTE FOR THE FAVOR OF PUBLICATION  
THROUGH THE MEDIA**

We respectfully note some of the suggestions which were made by us with sole public interest in mind has not been given due consideration and summarily rejected without appreciating the public interest and good intention behind it.

These suggestions has unanimous support of the people and takes into consideration not only the public interest but also response to the public sentiments with regard to the local culture ethnicity and tradition in mind. It was our intention to bring to the notice of the Hon'ble Commission about the injustice meted to the Hilly Districts like, Kodagu, Chikkamagalur, Hassan which are being punished by reduction of representation for their good performance in population control keeping National interest in mind. Particularly Kodagu District which was 'C' State in the pre-independence India which had 3 Assembly Constituencies was merged with erstwhile Mysore State. The Kodagu District is culturally, ethnically and geographically has a

distinct unique identity of its own. The entire hilly region or Malenadu (Western Ghats), Karavali or Coastal Karnataka has been victimized for their higher literacy and responsible performance in family planning.

### **INJUSTICE THROUGH OVER DOSE OF SOCIAL JUSTICE**

By blindly following the criteria of highest percentage of population in the allotment of the seats for the S.T. without considering the consequences has created a most unjust and imbalanced situation. In the present proposal we had objected for the concentration of ST seats in only 2 Districts Bellary and Raichur and with sound arguments we had requested to distribute or shift these S.T. Constituencies to other Districts where substantial S.T.'s are there and they get the benefit of this provision. Because of this anomaly only 2 Constituencies out of 9 Assembly Constituencies in Bellary District 2 are available for other Backward Classes and General Category where their population is more than 65%.

### **SHIFTING OR RESERVE CONSTITUENCIES WHICH ARE ADJECENT TO EACH OTHER**

We had sought for shifting of SC or ST Constituencies which are adjacent, to some other districts. For example the proposed Lokasabha Constituencies like Bidar and Gulbarga in the Gulbarga division are adjacent to each other. Similarly in Bangalore Division Bangalore-IV and Kolar Lokasabha Constituencies which are next to each other are allotted to S.C. This has denied S.C. representation for other Revenue Divisions like Mysore and Belgaum which consists of 15 districts and has S.C. population of 33,57,125 out of total S.C. population 85,63,930.

In respect of Assembly Constituencies in the following Districts S.C. seats are allotted to the adjacent Constituencies. For example in Kolar District Mulabagal, Robertsonpet and Bangarpet. In many districts also the same concentration S.C. seats next to one another has taken place.

In case of SC assembly segments as proposed by the Commission, out of 36 about 10 assembly segments are continued to be reserved for SC since 1952. As per the Act while reserving for the SC the population need not to be largest. It is as far as possible large. By taking into consideration the Commission may de-reserve the Constituencies which were reserved since 1952 and same reservation may be extended to other assembly segments where SC population is large. For example Mallavalli AC in Mandya District, Pavagada AC in Tumkur District, Robertsonpet and Bangarpet in Kolar District, Moodigere in Chikmagalur District. If it is continued for another 30 years these Constituencies will remain as SC's and other Schedule Caste people within the district will not get the benefits of reservation.

The Hon'ble Commission has violated the provisions of Section 9(1) (C) of the Delimitation act which directs that the Constituencies for SC's are to be distributed in different parts of the State. Further the Constituencies like Kolar and Bidar are reserved for S.C. from the last 54 years i.e. since 1<sup>st</sup> General Election this will remain so at least till 2026.

It was suggested in the public interest and administrative convenience to interchange Afzalpur and Chincholi between Gulbarga and Bidar Lokasabha Constituencies. This suggestion had continuity in mind and will help the public in reaching the center of the Parliament Constituency.

3. Bangalore-3 (A.C)  
to be named as MALLESWARAM
4. Bangalore-4 (A.C)  
to be named as DEVARAJIVANAHALLI
5. Bangalore-5 (A.C)  
to be named as AMBEDKAR NAGARA
6. Bangalore-6 (A.C)  
to be named as INDIRANAGARA
7. Bangalore-7 (A.C)  
to be named as JAYAMAHAL
8. Bangalore-8 (A.C)  
to be named as SHANTHINAGARA
9. Bangalore-9 (A.C)  
to be named as GANDHINAGARA
10. Bangalore-10 (A.C)  
to be named as RAJAJINAGARA
11. Bangalore-11 (A.C)  
to be named as GNANABARATHI
12. Bangalore-12 (A.C)  
to be named as VIJAYANAGARA
13. Bangalore-13 (A.C)  
to be named as CHAMARAJPET
14. Bangalore-14 (A.C)  
to be named as KEMPEGOWDANAGARA
15. Bangalore-15 (A.C)  
to be named as BASAVANAGUDI
16. Bangalore-16 (A.C)  
to be named as YEDIYUR
17. Bangalore-17 (A.C)  
to be named as KORAMANGALA
18. Bangalore-18 (A.C)  
to be named as J.P. NAGARA

Thanking you,

Yours sincerely,

Sd/-  
(P.G.R. SINDHIA)

[7]

**KARNATAKA PRADESH CONGRESS COMMITTEE**  
"CONGRESS BHAVAN" No. 14, Queen's Road, Bangalore – 560 052

**MALLIKARJUN KHARGE**

Associated Member,  
Delimitation Commission of India

Date : 23.02.2007

**Justice Kuldeep Singh ji**

Hon'ble Chairman  
Delimitation Commission of India,  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road,  
New Delhi-110 001

Dear Sir,

**DISSENTING NOTE FOR THE FAVOR OF PUBLICATION  
THROUGH THE MEDIA**

We regretfully note some of the suggestions which were made by us with sole public interest in mind has not been given due consideration and summarily rejected without appreciating the public interest and good intention behind it.

These suggestions has unanimous support of the people and takes into consideration not only the public interest but also response to the public sentiments with regard to the local culture ethnicity and tradition in mind. It was our intention to bring to the notice of the Hon'ble Commission about the injustice meted to the Hilly Districts like; Kodagu, Chikkamagalur, Hassan which are being punished by reduction of representation for their good performance in population control keeping National Interest in mind. Particularly Kodagu District which was 'C' State in the pre-independent India which had 3 Assembly Constituencies was merged with erstwhile Mysore State. The Kodagu District is culturally, ethnically and geographically has a distinct unique identity of its own. The entire hilly region or Malenadu (Western Ghats), Karavali or Coastal Karnataka has been victimized for their higher literacy and responsible performance in family planning.

**INJUSTICE THROUGH OVER DOSE OF SOCIAL JUSTICE**

By blindly following the criteria of highest percentage of population in the allotment of the seats for the S.T. without considering the consequences has created a most unjust and imbalanced situation. In the present proposal we had objected for the concentration of ST seats in only 2 Districts Bellary and Raichur and with sound arguments we had requested to distribute or shift these S.T. Constituencies to other Districts where substantial S.T.'s are there and they get the benefit of this provision. Because of this anomaly only 2 Constituencies out of 9 Assembly Constituencies in Bellary District 2 are available for other Backward Classes and General Category where their population is more than 65%.

## SHIFTING OR RESERVE CONSTITUENCIES WHICH ARE ADJECENT TO EACH OTHER

We had sought for shifting of SC or ST Constituencies which are adjacent, to some other districts. For example the proposed Lokasabha Constituencies like Bidar and Gulbarga in the Gulbarga division are adjacent to each other. Similarly in Bangalore Division Bangalore-IV and Kolar Lokasabha Constituencies which are next to each other are allotted to S.C. This has denied S.C. representation for other Revenue Divisions like Mysore and Belgaum which consists of 15 districts and has S.C. population of 33,57,125 out of total S.C. population 85,63,930.

In respect of Assembly Constituencies in the following Districts S.C. seats are allotted to the adjacent Constituencies. For example in Kolar District Mulabagal, Robertsonpet and Bangarpet. In many districts also the same concentration S.C. seats next to one another has taken place.

In case of SC assembly segments as proposed by the Commission, out of 36 about 10 assembly segments are continued to be reserved for SC since 1952. As per the Act while reserving for the SC the population need not to be largest. It is as far as possible large. By taking into consideration the Commission may de-reserve the Constituencies which were reserved since 1952 and same reservation may be extended to other assembly segments where SC population is large. For example Mallavalli AC in Mandya District, Pavagada AC in Tumkur District, Robertsonpet and Bangarpet in Kolar District, Moodigere in Chikmagalur District. If it is continued for another 30 years these Constituencies will remain as SC's and other Schedule Caste people within the district will not get the benefits of reservation.

The Hon'ble Commission has violated the provisions of Section 9(1) (C) of the Delimitation act which directs that the Constituencies for SC's are to be distributed in different parts of the State. Further the Constituencies like Kolar and Bidar are reserved for S.C. from the last 54 years i.e. since 1<sup>st</sup> General Election this will remain so at least till 2026.

It was suggested in the public interest and administrative convenience to interchange Afzalpur and Chincholi between Gulbarga and Bidar Lokasabha Constituencies. This suggestion had continuity in mind and will help the public in reaching the center of the Parliament Constituency.

Similarly our suggestion regarding shifting of Siraguppa and Hospet between Koppal and Belary Parliament Constituencies for the aforesaid reasons like; logistic and administrative Constituencies. This does not violate and provisions of the law or methodology prescribed by the Commission.

In our suggestions we had made an submission regarding giving just representation to western ghat by retaining Chikmagalur Parliamentary Constituency, which is in existence since inception by making minor readjustment of few assembly segments in Chikmagalur, Udupi and Hassan Districts. The western ghat (Malnad region) has got distinct history, culture and ethnicity and problems which can not be over looked. This would have gone long way in satisfying aspiration of people of Malnad region.

In the public interest it was suggested to inter change some of the Assembly Constituencies between Parliament Constituency Bangalore-I and Bangalore-II has not been taken into consideration without giving any reasons or explaining the logic behind continuing the proposals as it was in the Draft proposals.

### NAMING OF CONSTITUENCIES BY NUMBERS AND UNCONNECTED NAMES

The Names of the Constituencies represents the history, culture and it gives a distinct and identifiable face to the Constituency. Some of the names which have been replaced by the Commission are inappropriate and misleading and confusing in case of use of numbers to identify Lokasabha and Assembly Constituencies in Bangalore Districts like 1, 2, 3, 4 and so on. We had suggested appropriate names for both the Lokasabha and Assembly Constituencies in Bangalore Districts. Further in Dakshina Kannada district claims where demands were made to name the some Constituencies with their earlier names which have history of their own. Once again we insist that the all the Constituencies shall have to be appropriately named as suggested by us.

For example;

1. Bangalore-1 (Lokasabha)  
to be named as BANGALORE NORTH

2. Bangalore-2 (Lokasabha)  
to be named as BANGALORE CENTRAL

3. Bangalore-3 (Lokasabha)  
to be named as BANGALORE SOUTH

4. Bangalore-4 (Lokasabha)  
to be named as CHIKKABALLAPUR

5. The proposed 15-Udupi Parliament Constituency should be renamed as **UDUPI CHIKMAGALUR** because the new constituency has been carved by including 4 Assembly segments each from erstwhile Udupi and Chikmagalur Parliamentary Constituencies.

1. Bangalore-1 (A.C)  
to be named as MATHIKERE
2. Bangalore-2 (A.C)  
to be named as Dr. RAJAKUMAR
3. Bangalore-3 (A.C)  
to be named as MALLESWARAM
4. Bangalore-4 (A.C)  
to be named as EVARAJIVANAHALLI
5. Bangalore-5 (A.C)  
to be named as  
AMBEDKAR NAGARA
6. Bangalore-6 (A.C)  
to be named as INDIRANAGARA
7. Bangalore-7 (A.C)  
to be named as JAYAMAHAL
8. Bangalore-8 (A.C)  
to be named as SHANTHINAGARA
9. Bangalore-9 (A.C)  
to be named as GANDHINAGARA
10. Bangalore-10 (A.C)  
to be named as RAJAJINAGARA
11. Bangalore-11 (A.C)  
to be named as GNANABARATHI
12. Bangalore-12 (A.C)  
to be named as VIJAYANAGARA
13. Bangalore-13 (A.C)  
to be named as CHAMARAJPET
14. Bangalore-14 (A.C)  
to be named as  
KEMPEGOWDANAGARA

15. Bangalore-15 (A.C)  
to be named as BASAVANAGUDI
16. Bangalore-16 (A.C)  
to be named as YEDIYUR
17. Bangalore-17 (A.C)  
to be named as KORAMANGALA
18. Bangalore-18 (A.C)  
to be named as J.P. NAGARA

Thanking you,

Yours sincerely,

Sd/-

**(MALLIKARJUN KHARGE)**

Sd/-

**(A. VENKATESH NAIK)**

[No. 282/KT/2007-II]

By Order,

SHANGARA RAM, Secy.